

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2020—माघ 30, शक 1941

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 54, एफ 1-41/2020/18-3 कलेक्टर जिला सीवा द्वारा प्रेषित नगर परिषद हनुमना के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 137/डूडा/2020, दिनांक 30-01-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं.

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला-रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्रमांक/.....137/डूडा/2020 :- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये मैं बसंत कुरे कलेक्टर रीवा एतद् द्वारा नगर परिषद हनुमना के वार्डों का विस्तार (परसीमन) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

अनुसूची

स0क्र0	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	2	3
1	01	डॉ0 अम्बेडकर वार्ड
2	02	डॉ0 राममनोहर लोहिया वार्ड
3	03	पं0 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	04	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
5	05	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
6	06	इन्दिरा गॉंधी वार्ड
7	07	राजीव गॉंधी वार्ड
8	08	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
9	09	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
10	10	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
11	11	भगत सिंह वार्ड
12	12	हनुमान जी वार्ड
13	13	पं0 जवाहर लाल नेहरू वार्ड
14	14	महात्मा गॉंधी वार्ड
15	15	जयप्रकाश नारायण वार्ड

वार्डों की सीमाओं का विवरण

वार्ड क्र०	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड सीमा	
1	डॉ० अम्बेडकर वार्ड	जनसंख्या-1118	उत्तर	अमहा वासुदेव की उत्तरी सीमा
			दक्षिण	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सीधे रानी लक्ष्मीबाई मार्ग तक के उत्तर का क्षेत्र
			पूर्व	रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	ने०हा०-०७ के पूर्व का क्षेत्र
2	डॉ० राममनोहर लोहिया वार्ड	जनसंख्या-1066	उत्तर	रा०राजमार्ग 135 (बाईपास) के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	ग्राम मिसिरपुरा/अमहा पण्डितान की दक्षिणी सीमा का क्षेत्र
			पूर्व	अमहा पण्डितान की पूर्वी सीमा देवी मन्दिर के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	ग्राम मिसिरपुरा का पश्चिमी क्षेत्र
3	पं० दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	जनसंख्या-1243	उत्तर	रा०राजमार्ग 135 (बाईपास) की दक्षिणी सीमा का क्षेत्र
			दक्षिण	अमहा वासुदेव की दक्षिणी सीमा का क्षेत्र
			पूर्व	अमहा वासुदेव के तालाब के पूर्व भीठा से सीधे उत्तर की ओर बाईपास के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	अमहा पण्डितान की पूर्वी सीमा देवी मन्दिर के पूर्व का क्षेत्र
4	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	जनसंख्या-933	उत्तर	रा०राजमार्ग 135 (बाईपास) हनुमना का दक्षिणी क्षेत्र
			दक्षिण	अमहा वासुदेव का दक्षिणी सीमा (लक्ष्मी सोनी के घर तक)
			पूर्व	ने०हा०-०७ का पश्चिमी क्षेत्र
			पश्चिम	अमहा वासुदेव के तालाब के पूर्वी भीठे से सीधे रा०राजमार्ग 135 का पूर्व का क्षेत्र
5	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	जनसंख्या-1286	उत्तर	लक्ष्मी सोनी के मकान के दक्षिण का भाग
			दक्षिण	शाहपुर रोड के उत्तर का क्षेत्र
			पूर्व	ने०हा०-०७ के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	सगरा खुर्द/मिसिरपुरा का पूर्वी क्षेत्र
6	इन्दिरा गॉंधी वार्ड	जनसंख्या-1285	उत्तर	शाहपुर रोड के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	सी०एम०ओ० आवास (पानी की टंकी) से पश्चिम की ओर मसुरिहा की सीमा तक
			पूर्व	शाहपुर रोड से होते हुये ने०हा०-०७ होते हुये पानी टंकी तक के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	सगरा खुर्द/मसुरिहा का पश्चिमी क्षेत्र
7	राजीव गॉंधी वार्ड	जनसंख्या-1275	उत्तर	सी०एम०ओ० आवास (पानी की टंकी) से मसुरिहा की सीमा के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	नैया नाला के उत्तरी भाग का क्षेत्र
			पूर्व	ने०हा०-०७ के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	मसुरिहा ग्राम का पश्चिमी सीमा का क्षेत्र
8	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	जनसंख्या-1133	उत्तर	सगरा कला पहुँच मार्ग के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	नैया नाला (मसुरिहा) के उत्तरी सीमा का क्षेत्र
			पूर्व	सगरा कला की पूर्वी सीमा
			पश्चिम	ने०हा०-०७ के पूर्व का क्षेत्र
9	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	जनसंख्या-1146	उत्तर	ने०हा०-०७ से हनुमना-बहरी रोड शालिक के मकान तक का दक्षिणी क्षेत्र
			दक्षिण	सगरा कला पहुँच मार्ग
			पूर्व	शालिक के मकान से सीधे सगरा कला पहुँच मार्ग के

				पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	ने0हा0-07 से सगरा कला पहुँच मार्ग के पूर्व का क्षेत्र
10	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	जनसंख्या-1151	उत्तर	ने0हा0-07 के किनारे स्थित शिव मंदिर (पुलिस कॉलोनी) से सीधे चकरा रोड होते हुये रानी लक्ष्मीबाई मार्ग तक के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	ने0हा0-07 बहरी रोड होते हुये रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के उत्तर का क्षेत्र
			पूर्व	रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	ने0हा0-07 के पूर्व का क्षेत्र
11	भगत सिंह वार्ड	जनसंख्या-1112	उत्तर	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमना से रानी लक्ष्मीबाई मार्ग तक के दक्षिण का क्षेत्र
			दक्षिण	ने0हा0-07 में स्थित शिव मंदिर (पुलिस कॉलोनी) होते हुये रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के उत्तर का क्षेत्र
			पूर्व	रानी लक्ष्मीबाई के मार्ग के पश्चिम का क्षेत्र
			पश्चिम	ने0हा0-07 के पूर्व का क्षेत्र
12	हनुमान जी वार्ड	जनसंख्या-1026	उत्तर	ग्राम हनुमना की उत्तरी सीमा से शालिक के मकान बहरी रोड तक
			दक्षिण	हनुमना ग्राम का दक्षिणी सीमा
			पूर्व	हनुमना ग्राम की पूर्वी सीमा (पम्प हाऊस)
			पश्चिम	शालिक गुप्ता के मकान से दक्षिण की ओर अमहा वासुदेव की सीमा का पूर्वी भाग रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के पूर्व का क्षेत्र
13	पं0 जबाहर लाल नेहरू वार्ड	जनसंख्या-950	उत्तर	ग्राम भाठी की उत्तरी सीमा
			दक्षिण	ग्राम भाठी/हनुमना का दक्षिणी सीमा
			पूर्व	ग्राम भाठी की पूर्वी सीमा
			पश्चिम	बहरी रोड से हनुमान जी मार्ग के पूर्व का क्षेत्र
14	महात्मा गाँधी वार्ड	जनसंख्या-1124	उत्तर	ग्राम मुरैठा की उत्तरी सीमा
			दक्षिण	ग्राम मुरैठा/कचनार की सीमा
			पूर्व	ग्राम मुरैठा की पूर्वी सीमा
			पश्चिम	ग्राम मुरैठा की पश्चिमी सीमा
15	जयप्रकाश नारायण वार्ड	जनसंख्या-923	उत्तर	ग्राम मुरैठा/कचनार की उत्तरी सीमा
			दक्षिण	ग्राम कचनार की दक्षिणी सीमा
			पूर्व	ग्राम कचनार की पूर्वी सीमा
			पश्चिम	कचनार मुरैठा का पश्चिमी सीमा का क्षेत्र

बसंत कुर्रे, कलेक्टर.

Rewa, the 30th January 2020

No./---~~137~~---/Duda/2020 – In exercise of the powers conferred by Section 1 of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar palika adhiniyam, 1961 (No.-37 Year 1961) "1" Mr. Basant Kurre, Collector, Rewa Madhya Pradesh here by determine the extent of wards Nagar Parishad Hanumana, Rewa as Schedule below :-

Schedule

S.No.	Ward No.	Ward Name
1	2	3
1	01	Dr. Ambedakar Ward
2	02	Dr. Rammanohar Lohiya Ward
3	03	Pandit Deendayal Upadhya Ward
4	04	Chandrashekhar Azad Ward
5	05	Lalbahadur Shashtri Ward
6	06	Indra Gandhi Ward
7	07	Rajeev Gandhi Ward
8	08	Swami Vivekananad Ward
9	09	Shubhash Chandra Bosh Ward
10	10	Rani Laxmi Bai Ward
11	11	Bhagat Singh Ward
12	12	Hanuman Ji Ward
13	13	Pandit Jawahar Lal Neharu Ward
14	14	Mahatma Gandhi Ward
15	15	Jaiprakash Narayan Ward

Description of the Boundaries of Wards

Ward No.	Ward Name	Ward Population	Ward Boundary	
1	Dr. Ambedakar Ward	Population-1118	North	Amaha Vashudev Village North Boundary.
			South	Govt. Higher Secondary School to Rani Laxmi Bai Marg Near North Area.
			East	West Area of Rani Laxmi Bai Marg
			West	East Area of N.H.-07
2	Dr. Rammanohar Lohiya Ward	Population-1066	North	South Area of N.H.-135 Bypass.
			South	South boundary area of village Mishirpura/Amaha Panditan.
			East	East area of Amaha Panditan West area Devi Mandir.
			West	West area of Village Mishirpura.
3	Pandit Deendayal Upadhyay Ward	Population-1243	North	South boundary area of N.H.-135 bypass.
			South	South boundary area of Amaha Vashudev.
			East	East area of Amaha Vashudev Pond to North bypass of West area.
			West	East boundary of Amaha Panditan East area of Devi Mandir.
4	Chandrashekhar Azad Ward	Population-933	North	South area of N.H.-135 bypass.
			South	South boundary of Amaha Vashudev (Till House of Laxmi Soni).
			East	West area of N.H.-07
			West	East boundary of Amaha Vashudev Pond to East area of N.H.-135.
5	Lalbahadur Shashtri Ward	Population-1286	North	South area of Laxmi Soni House.
			South	North area of shahpur Road.
			East	West area of N.H.-07.
			West	East area of Sagara Khurd/Mishirpura.

6	Indra Gandhi Ward	Population-1285	North	South area of Shahpur Road.
			South	C.M.O. Residence (Pani Ki Tanki) to west till Mashuriha Baundary.
			East	Form Sahapur Road to N.H.-07 to West area of Pani Ki Tanki.
			West	West area of Sagara Khurd/Mashuriha.
7	Rajeev Gandhi Ward	Population-1275	North	C.M.O. Residence (Pani Ki Tanki) to South area of Mashuriha Boundary.
			South	Area of North Part of Naiya Nala.
			East	West area of N.H.-07
			West	West Boundary of Mashuriha Village.
8	Swami Vivekananad Ward	Population-1133	North	South area of sagara Kala Pahunch Marg.
			South	North Boundary area of Naiya Nala Mashuriha.
			East	East boundary of Sagara Kala.
			West	East Area of N.H.-07.
9	Shubhash Chandra Bosh Ward	Population-1146	North	N.H.-07 to Hanumana-Bahari Road to south area till Shalik's Home.
			South	Sagara Kala Pahunch Marg.
			East	to Shalik's Home to west area of Sagara Kala Paunch Marg.
			West	N.H.-07 to East area of Sagara Kala Paunch Marg.
10	Rani Laxmi Bai Ward	Population-1151	North	From Shiv Mandir (Police Colony) Situated inside of N.H.-07 to Chakara Road till South area of Rani Laxmi Bai Marg.
			South	From N.H.-07 to Bahari Road to North Area of Rani Laxmi Bai Marg.
			East	West area of Rani Laxmi Bai Marg.
			West	East area of Rani Laxmi Bai Marg.
11	Bhagat Singh Ward	Population-1112	North	From Govt. Higher Secondary School Hanumana to south area of till Rani Laxmi Bai Marg.

			South	From Shiv Mandir (Police Colony) Situating N.H.-07 to North area of Rani Laxmi Bai Marg.
			East	West area fo Rani Laxmi Bai Marg.
			West	East area of N.H.-07
12	Hanuman Ji Ward	Population-1026	North	From north Boundary of village Hanumana till Shalik's Home Bahari Raod.
			South	South Boundary of village Hanumana.
			East	East Boundary of village Hanumana (Pump House)
			West	From Shalik's Home to south east area of Amaha Vashudev Boundary east area of Rani Laxmi Bai Marg.
13	Pandit Jawahar Lal Neharu Ward	Population-950	North	North area Boundary of village Bhathi.
			South	South boundary of village Bhathi/Hanumana.
			East	East boundary of village Bhathi.
			West	From Bahari Road to east area of Hanumana Ji Marg.
14	Mahatma Gandhi Ward	Population-1124	North	North Boundary of village Muraitha.
			South	Boundary of village Muraitha/Kachnar.
			East	East boundary of village Muraitha.
			West	West boundary of village Muraitha.
15	Jaiprakash Narayan Ward	Population-923	North	North boundary of village Muraitha/Kachnar.
			South	South boundary of village Kachnar.
			East	East boundary of village Kachnar.
			West	West boundary area of Kachnar/Muraitha.

BASANT KURRE, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 55, एफ 1-42/2020/18-3 कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रेषित नगर परिषद मनगंवा के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 158/डूडा/2020, दिनांक 31-01-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्रमांक/.....~~158~~...../डूडा/2020- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मै। बसंत कुर्रे कलेक्टर रीवा एतद् द्वारा नगर परिषद् मनगवाँ के वार्डों का विस्तार (परसीमन) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ -

अनुसूची

स. क्र.	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	2	3
1	01	गॉंधी वार्ड
2	02	जवाहर वार्ड
3	03	आजाद वार्ड
4	04	सुभाष वार्ड
5	05	भगत सिंह वार्ड
6	06	हनुमान वार्ड
7	07	चन्द्रशेखर वार्ड
8	08	अम्बेडकर वार्ड
9	09	बाबू जगजीवन वार्ड
10	10	शास्त्री वार्ड
11	11	राजेन्द्र वार्ड
12	12	इंदिरा गॉंधी वार्ड
13	13	संजय वार्ड
14	14	राजीव वार्ड
15	15	जयप्रकाश वार्ड

वार्डों की सीमाओं का विवरण

वार्ड क्रमोंक	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड सीमा	
01	गोंधी वार्ड	889	उत्तर	बालगोपाल मिश्रा के मकान से पूर्व की ओर सेंगरी नदी के किनारे किनारे राजेन्द्र मिश्रा के मकान से होते हुए रामेश्वर तिवारी के मकान से होते हुए डा0 रामकृष्ण शर्मा के मकान से होते हुए मोतीलाल तिवारी के मकान से होते हुए रोड़ पार करते हुए राजीवलोचन तिवारी के मकान से होते हुए दुर्गेश गया के मकान तक।
			पूर्व	दुर्गेश गया के मकान से होते हुए रामनरेश शुक्ला पटवारी के मकान से रोड़ पार करते हुए गर्गबाबा मंदिर से होते हुए स्व. छोटे शुक्ला के मकान से होते हुए मगनी कुम्हार के मकान से होते हुए दुअसिया दर्जी के मकान से होते हुए मो. रसीद के मकान से होते हुए स्व. मो. रमजान के मकान तक।
			दक्षिण	स्व. मो. रमजान के मकान से होते हुए मो. ईसा के मकान से होते हुए शेषमणि गुप्ता के मकान से रोड़ पार करते हुए स्व. कन्हैयालाल गुप्ता के मकान से होते हुए शिवदीन गुप्ता के मकान से होते हुए भागवत द्विवेदी के मकान तक।
			पश्चिम	भागवत द्विवेदी के मकान से होते हुए गजाधर मिश्रा के मकान से होते हुए विष्णुदेव तिवारी के मकान से होते हुए बालगोपाल मिश्रा के मकान तक।
02	जवाहर वार्ड	840	उत्तर	विधाता रामसजीवन कोल के मकान से होते हुए मुन्ना यादव के मकान से होते हुए छोटे लाल गुप्ता के मकान से रोड़ पार करते हुए मो. रसीद के मकान से छोटे पान वाले के मकान से होते हुए मो. रसीद से रोड़ पार करते हुए स्व. रोहणी शुक्ला हृदयलाल के मकान से विजय शुक्ला, विष्णुमान पाठक के घर तक।
			पूर्व	विष्णुमान पाठक के मकान से होते हुए स्व. नरनारायण तिवारी के मकान से होते हुए लालता धोवी के मकान से होते हुए रोड़ पार करते हुए लल्लू धोवी के मकान से होते हुए साहब कोल के मकान से दिनेश साकेत के मकान से होते हुए भागवत साकेत के मकान से होते हुए दुर्गा मंदिर (हनुमान चौक) से होते हुए विहारी गुप्ता के मकान तक।
			दक्षिण	विहारी गुप्ता के मकान से होते हुए पुराना हास्पिटल से होते हुए गंगादीन गुप्ता मो. हफीज के मकान से होते हुए रामदास गुप्ता के मकान से होते हुए रसीद के मकान तक।
			पश्चिम	रसीद के मकान से रोड़ पार करते हुए मो. शौकत के मकान से होते हुए मुन्नाताज (मो. सतार) के मकान से विधाता रामसजीवन कोल के मकान तक।
03	आजाद वार्ड	892	उत्तर	शंकर कोल सिंगरहा पोखरी से पूर्व की ओर मो. हारून के मकान तक।
			पूर्व	मो. हारून के मकान से दक्षिण की ओर निशार अहमद के मकान से रोड़ पार करते हुए मो. हबीब के मकान से होते हुए रामनिहोर सोनी के मकान से होते हुए सच्चिदानन्द तिवारी के मकान से होते हुए रामलाल बसोर के मकान से होते हुए मो. हबीब के मकान तक।
			दक्षिण	मो. हबीब के मकान से रोड़ पार करते हुए मदीना के मकान से दक्षिण की ओर किनारे किनारे फग्गू बसोर के मकान से होते हुए लालमणि कोल के मकान से होते हुए रोड़ के किनारे किनारे शरदचन्द्र तिवारी के मकान से होते हुए स्व. हिमांचल प्रजापति के मकान से होते हुए बाबूलाल गुप्ता जनरल स्टोर की दुकान वाईपास रोड़ तक
			पश्चिम	बाबूलाल गुप्ता जनरल स्टोर की दुकान वाईपास से पश्चिम की ओर राजेश विश्वकर्मा के मकान से होते हुए किन्नका बसोर के मकान से होते हुए झिरिया नाला के किनारे किनारे जगदम्बा शुक्ला के मकान से होते हुए बब्बू सुरेश तिवारी के मकान से होते हुए तिवनी रोड़ पार करते हुए बाबूलाल मिश्रा के मकान से भोगड़ नाला से वशपती मिश्रा के मकान से होते हुए लखपति नाई के मकान से होते हुए शंकर कोल के मकान तक।

04	सुभाष वार्ड	886	उत्तर	बैजनाथ एवं लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान से पूर्व की ओर विनोद सोनी (विश्वनाथ सोनी) के मकान से रोड़ पार करते हुए उत्तर की ओर बृजेन्द्र ताम्रकार के मकान से राजेश, मोतीलाल ताम्रकार के मकान तक।
			पूर्व	राजेश, मोतीलाल ताम्रकार के मकान से होते हुए दक्षिण की ओर अनंतलाल गुप्ता के मकान से रोड़ पार करते हुए लल्लूलाल सोनी के मकान से होते हुए रामलखन विश्वकर्मा के मकान तक।
			दक्षिण	रामलखन विश्वकर्मा के मकान से पश्चिम की ओर पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक।
			पश्चिम	पूर्व माध्यमिक विद्यालय से डा0 रामकृष्ण शर्मा क्लीनिक से जितेन्द्र मिश्रा के मकान से होते हुए रोड़ पार कर मो. इब्राहिम के मकान से होते हुए मो. सईब वकील के मकान से मुन्नीबाई गुप्ता के मकान से बैजनाथ लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान तक।
05	भगत सिंह वार्ड	896	उत्तर	रामजी गुप्ता के मकान से पूर्व की ओर रोड़ के किनारे किनारे गंगादीन गुप्ता के मकान से होते हुए स्व. नंदलाल पटेल के मकान से होते हुए स्व. कन्हैयालाल गुप्ता के पुराना मकान तक।
			पूर्व	स्व. कन्हैयालाल गुप्ता के पुराने मकान से रमेश गुप्ता के मकान से होते हुए विजय, केदार गुप्ता के मकान तक।
			दक्षिण	विजय, केदार गुप्ता के मकान से पश्चिम की ओर शारदा अवधिया के मकान से राजकुमार के मकान से होते हुए कामता सोनी के मकान से होते हुए स्व. बृजेश गुप्ता के मकान तक।
			पश्चिम	स्व. बृजेश गुप्ता के मकान से स्व. रामजी गुप्ता के मकान तक।
06	हनुमान वार्ड	884	उत्तर	अयोध्या गुप्ता के मकान से पूर्व की ओर सत्यमान माली के घर से होते हुए जवाहर कहार के मकान से होते हुए लल्लू कहार के मकान से इलाहाबाद रोड़ सेंगरी पुलिया तक।
			पूर्व	लल्लू कहार के मकान से पूर्व की ओर संतोष लोहार तक।
			दक्षिण	संतोष लोहार के मकान से रामसुन्दर साकेत के मकान से होते हुए रामाधार साकेत के मकान से होते हुए फिरोज के मकान से रोड़ पार करते हुए मो. सब्बीर के मकान से मिरहमजा के मकान से होते हुए रामबाई साकेत के मकान से होते हुए रामजी सोनी के मकान तक।
			पश्चिम	रामजी सोनी के मकान से होते हुए रोड़ के किनारे किनारे बालकुमार गुप्ता के मकान से होते हुए धनपतलाल गुप्ता के मकान से होते हुए विनोद नामदेव के मकान से होते हुए आयोध्या गुप्ता के मकान तक।
07	चन्द्रशेखर वार्ड	882	उत्तर	शैलेन्द्र सोनी के मकान से मो. बसीर के मकान से होते हुए मौनुद्दीन के मकान तक।
			पूर्व	स्व. मौनुद्दीन के मकान से होते हुए विशाल साकेत के मकान से होते हुए रामजियावन शर्मा मकान से होते हुए स्व. द्वारिका विश्वकर्मा के मकान से होते हुए एन.एच.27 के किनारे किनारे मनगवां बस्ती तिराहा तक।
			दक्षिण	मनगवां बस्ती तिराहा से होते हुए रामायण मिश्रा के मकान तक।
			पश्चिम	रामायण मिश्रा के मकान से शैलेन्द्र सोनी के मकान तक।
08	अम्बेडकर वार्ड	874	उत्तर	दिनेश बंशल के मकान से पूर्व की ओर मनगवां बस्ती रोड़ से होते हुए इलाहाबाद रोड़ तिराहा पुष्पराज मिश्रा के मकान तक।
			पूर्व	इलाहाबाद तिराहा पुष्पराज मिश्रा के मकान से नेशनल रोड़ के किनारे किनारे दक्षिण की ओर मोलई कुशवाहा के मकान से बाईपास चौराहा (गदाधर साकेत) तक।
			दक्षिण	बाईपास चौराहा से बाईपास रोड़ के किनारे किनारे मनगवां बस्ती रोड़ बाईपास चौराहा तक।
			पश्चिम	बाईपास चौराहा से मनगवां बस्ती रोड़ के किनारे किनारे उत्तर की ओर ग्राम डीहा होते हुए नगर परिषद कार्यालय होते हुए बम्बा देवी मंदिर से दिनेश बंशल के मकान तक।

09	बाबू जगजीवन वार्ड	980	उत्तर	शिव ट्रैक्टर एजेन्सी से पूर्व की ओर मनगवां बस्ती तिराहा से रोड़ पार करते हुए बैजनाथ साहू के मकान से पूर्व की ओर इलाहाबाद रोड़ वाईपास चौराहा तक।
			पूर्व	वाईपास चौराहा (इलाहाबाद रोड़) से दक्षिण की ओर किनारे किनारे कपूरचन्द्र सोनी के मकान से हायर सेकेण्ड्री स्कूल इलाहाबाद मिर्जापुर रोड़ तिराहा तक।
			दक्षिण	इलाहाबाद मिर्जापुर तिराहा से पश्चिम की ओर पुरानी नेशनल रोड़ के किनारे किनारे नगर परिषद काम्पलेक्स मनगवां बस्ती तिराहा पार करते हुए दुर्गा मंदिर से किनारे किनारे निर्मल पेट्रोल पंप तक।
			पश्चिम	निर्मल पेट्रोल पंप से शिव ट्रैक्टर एजेन्सी तक।
10	शास्त्री वार्ड	969	उत्तर	तिवनी मार्ग राजमणि पटेल के मकान से होते हुए नारेन्द्र तिवारी के मकान से होते हुए रामलाल विश्वकर्मा से छोटीबाई के मकान से होते हुए अनरुद्ध तिवारी के मकान से होते हुए गोविन्द चौबे के मकान से वाईपास रोड़ तक।
			पूर्व	वाईपास रोड़ पार करते हुए सोखीलाल गुप्ता के मकान से होते हुए रामनिधि वर्मा के मकान से होते हुए यूनियन बैंक तक।
			दक्षिण	यूनियन बैंक से होते हुए पुरानी नेशनल रोड़ पार करते हुए रामनिहोर पटेल के मकान से होते हुए दक्षिण में विश्वम्भर साहू के मकान तक।
			पश्चिम	विश्वम्भर साहू के मकान से पूर्व माध्यमिक विद्यालय आंबी से रोड़ पार करते हुए वितनी मार्ग तक।
11	राजेन्द्र वार्ड	1050	उत्तर	तिवनी मार्ग भोगड़ नाला से दयाशंकर मिश्रा के मकान से पंप हाउस से होते हुए आंबी पंधुच मार्ग तक।
			पूर्व	आंबी पंधुच मार्ग से फक्कड़ कोरी के मकान से आंबी पत्तरीयन टोला होते हुए हरिहर पंचराज से कैदारनाथ ब्राम्हण के मकान तक।
			दक्षिण	कैदारनाथ के मकान से आंबी तिवनी मार्ग की ओर अवधशरण के मकान से नगर पालिका सीमा तक।
			पश्चिम	आंबी तिवनी मार्ग से होते हुए हरप्रसाद के मकान से तिवनी भोगड़ नाला तक।
12	इंदिरा गॉंधी वार्ड	860	उत्तर	आंबी तालाब से पूर्व की ओर एन.एच.7 को पार करते हुए सूर्यमणि के मकान तक।
			पूर्व	सूर्यमणि के मकान से होते हुए शिवराज के मकान से पल्टी कुम्हार से मैर टोला में जमुना पटेल के मकान से होते हुए धर्मदास पटेल के मकान तक।
			दक्षिण	धर्मदास पटेल के मकान से देवशरण, गंगा पटेल के मकान तक।
			पश्चिम	गंगा पटेल के मकान से होते हुए आंबी तालाब तक।
13	संजय वार्ड	989	उत्तर	हरी गुप्ता के मकान से राममिलन गुप्ता के मकान तक।
			पूर्व	राममिलन गुप्ता के मकान से गुढ़ रोड़ पार करते हुए ददन प्रसाद गुप्ता के मकान तक।
			दक्षिण	ददन गुप्ता के मकान से कौशल पटेल नगर पालिका सीमा तक।
			पश्चिम	कौशल पटेल के मकान से हरी गुप्ता के मकान तक।
14	राजीव वार्ड	920	उत्तर	आशीष गुप्ता, रामचन्द्र गुप्ता के मकान से रोड़ के किनारे किनारे दक्षिण तरफ गणेश मिश्रा के मकान से होते हुए खम्हारी में जयप्रकाश के मकान से होते हुए सीतापुर मार्ग संगम तक।
			पूर्व	सीतापुर मार्ग संगम के पश्चिम से होते हुए खूटाबहरा नाला तक।
			दक्षिण	खूटाबहरा नाला से होते हुए डेल्ही रोड़ पार करते हुए पूर्व की ओर रामप्रताप विश्वकर्मा हीरा सेन के मकान से प्रा.पा. शाला नगमा तक।
			पश्चिम	प्रा.पा. शाला नगमा होते हुए आशीष गुप्ता, रामचन्द्र के मकान तक।
15	जयप्रकाश वार्ड	889	उत्तर	जगदीश राहू के मकान से होते हुए नगर पालिका सीमा सेंगरी नदी तक।
			पूर्व	सेंगरी नदी से नगमा रोड़ तक
			दक्षिण	नगमा रोड़ से प्रा.पा. शाला स्कूल तक
			पश्चिम	प्रा.पा. स्कूल से डेल्ही रोड़ के पूर्व किनारे किनारे होते हुए पुराना नेशनल रोड़ को पार करते हुए थाना से होते हुए नेशनल रोड़ के किनारे किनारे जगदीश राहू तक।

बसंत कुर्रे, कलेक्टर.

Rewa, the 31st January 2020

No./~~158~~/DUDA/2020 – In exercise of the power conferred by Section 1 of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No.-37 Year 1961) “1” Mr. Basant Kurre, Collector, Rewa Madhya Pradesh Here by Determine the extent of wards Nagar Parishad Mangawan, Rewa as Schedule below –

Schedule

S. No.	Ward No.	Ward Name
1	2	3
1	01	Gandhi Ward
2	02	Jawahar Ward
3	03	Ajad Ward
4	04	Subhash Ward
5	05	Bhagat Singh Ward
6	06	Hanuman Ward
7	07	Chandrashekhar Ward
8	08	Ambedkar Ward
9	09	Babu Jagjeevan Ward
10	10	Shastri Ward
11	11	Rajendra Ward
12	12	Indira Gandhi Ward
13	13	Sanjay Ward
14	14	Rajeev Ward
15	15	Jayprakash Ward

Description of the Boundaries of Wards

Ward No.	Ward Name	Ward Population	Ward Boundary	
01	Gandhi Ward	889	North	House of Balgopal mishra to east side Sengari river boundary, House of Rajendra mishra to house of Rameshwar Tiwari to house of Dr. Ramkrishana Sharma to house of Motilal Tiwari to road cross, house of Rajeev Lochan Tiwari to house of Durgesh gaya.
			East	House of Durgesh gaya to house of Ramnaresh Shukla, patbari to road cross to Garga Baba Temple to house of late Chhote Shukla to house of Magani kumhar to house of Duyasiya Darji to house of mohd. Rasid to house of late Mohd. Ramjan.
			South	House of Late Mohd. Ramjan to House of mohd. Isha to house of Sheshamani Gupta to road cross to house of Late Kanhaiyalal Gupta to house of Shiva Deen Gupta to house of Bhagwat Dwivedi.
			West	House of Bhagawat Dwivedi to house of Gadadhar Mishra to house of Bishnudev tiwari to house of Balgopal Mishra.
02	Jawahar Ward	840	North	House of Bidhata Ram Sajivan Kol to house of Munna yadav to house of Chhotelal Gupta to Road Cross to House of Mohd. Rasid to house of Chhote Pan Bala to house of Mohd. Rasid to road cross to house of Late Rohani Shukla, Hridayalal to house of Vijay Shukla Vishnu Bhan Pathak.
			East	House of Vishnubhan Pathak to house of Late Narnarayan Tiwari to house of Lalta Dhobi to road Cross to House of Lallu Dhobi to house of Sahab kol to house of Dinesh Saket to house of Bhagavat Saket to Durga Temple (Hanuman Chauk) to house of Bihari Gupta.
			South	House of Bihari Gupta to old Haspital to house of Gangadin Gupta to house of Mohd. Hafij to house of Ramdas Gupta to house of Mohd. Rasid.
			West	House of Mohd. Rasid to road cross to house of Mohd. Shaukat to house of Munna Taj (Mohd. Sattar) to house of Bidhata Ram Sajivan Kol.
03	Ajad Ward	892	North	House of Shankar Kol Up to Singaraha Pond Up towards east to house of Mohd. Harun.
			East	House of Mohd. Harun Sauthern towards house of Nisar Ahamad to cross the road to house of Mohd. Habib to house of Ram Nihor Soni towards house of Sachidanand Tiwari towards house of Ramlal Basor to house of Mohd. Habib
			South	House of Mohd. Habib to cross the road towards house of Madina to Sauthern of road side to house of Faggu Basor to house of Lalmani Kol to side of road towards house of Saradchandra tiwari towards house of Late Himanchal Prajapati towards Babulal gupta Janeral store shop bypass road.
			West	House of babulal gupta ganeral store shop bypass road to western side to house of Rajesh vishwakarma towards house of kinka basor to Jhiriya Nala towards house of jagadmba shukla to house of Babbu Suresh tiwari towards cross the Teoni road to house of Babulal Mishra to Bhogar Nala to house of Banshapati Mishra towards house of Lakhapti Nai to house of Sankar Kol.
04	Subhash Ward	886	North	Starting of house of Baijnath, Laxminarayan Soni to Eastern Side to house of Vinod Soni (Vishwanath Soni) to cross the road towards Northern to house of Brijendra Tamrakar to house of Rajesh, Motilal Tamrakar.
			East	House of Rajesh Motilal Tamrakar toword southern to house of Anantlal Gupta to cross the road to house of lallu soni towards house of Ramlakhan Vishwakarma.
			South	House of Ramlakhan Vishwakarna to western side to Junior high school .
			West	Junior High School to clinic of Dr. Ramkrishna Sharma to house of Jitendra Mishra to words cross the road to house of Mohd. Ibrahim towards house of Mohd. Saeab Advocate towards house of Munnibai Gupta to house of Baijnath Laxminarayan Soni.

05	Bhagat Singh Ward	896	North	House of Ramji Gupta to eastern side road to house of Gangadin Gupta to words house of Late Nandlal Patel towards old house of Late Kanhaiya Lal Gupta .
			East	Old house of Late Kanhaiyalal Gupta to Ramesh Gupta to words house of Vijay, Kedar Gupta.
			South	House of Vijay, Kedar Gupta to western house of Sharda Awadhiya towards house of Rajkumar towards house of Kamta Soni to Words house of Late Brijesh Gupta.
			West	House of Late Brijesh Gupta to house of Ramji Gupta.
06	Hanumaan Ward	884	North	House of Ayodhya Gupta to eastern side house of Satyabhan Mali towards house of Jawahar Kahar towards house of Lallu kahar Allahabad road Sengari Bridge.
			East	House of Lallu Kahar Eastern of house of Santosh Lohar.
			South	House of santosh Lohar to house of Ramsundar saket towards house of Ramadhar saket towards house of Firoj to crossing the road to house of Mohd, Sabbir to house of mirhamja towards house of Rambai saket up to house of Ramji Soni.
			West	House of Ramji Soni to side of road to house of Balkumar gupta towards house of Dhanpati Lal gupta towards house of Vinod namdeo uptu house of Ayodhya Gupta.
07	Chandrashekhar Ward	882	North	House of Sailendra Soni to house of Mohd. Basir to house of mainudeen.
			East	House of Mainuddin towards house of Bishale saket to Ramjiyawan Sharma towards house of late Dwarika vishwakarma to side of National road 27 junction of Mangawan Basti Road.
			South	Junction of Mangawan Basti road to house of Ramayan Mishra
			West	House of Ramayan Mishra to house of Shailendra soni.
08	Ambedakar Ward	874	North	House of Dinesh Bansal to eastern side of Mangawan basti road towards Allahabad road junction house of Pushpraj Mishra.
			East	Junction of Allahabad road house of Pushparaj Mishra towards side of National Road side of southern to house of Molai Kushwaha to junction of bypass chauraha house of Gadadhar Saket.
			South	Junction of bypass Chauraha to side of road to Mangawan basti road bypass chauraha.
			West	Mangawan basti road bypass chauraha to side of Northern road side towards village Diha towards Office of Nagar Parishad towards Bamba Devi Temple to house of Dinesh Bansal.
09	Babu Jagjeevan Ward	980	North	Shiv tractor agency to side of eastern mangawan basti tiraha to cross the road towards house of Baijnath sahu to side of eastern junction of Allahabad road bypass chauraha.
			East	Junction of Allahabad road bypass chauraha to side of southern to house of Kapurchandra soni to hr. Secondary School Allahabad-Mirjapur road tiraha.
			South	Allahabad-Mirjapur road Tiraha to side of western to old National road towards nagar parishad complex Mangawan basti road tiraha cross towards durga mandir to side of road to Nirmal petrol pump.
			West	Niramal Petrol pump Upto Shiv Tractor Agency.
10	Shastri Ward	969	North	Teoni road to house of Rajmani Patel towards house of Narendra Tiwari to house of Ramlal Vishwakarma to house of Chhotibai towards house of Anarudh Tiwari towards house of Govind Chaube upto bypass road.
			East	Bypass road crossing to house of Saukhilal gupta towards house of Ramnidhi verma towards Union bank
			South	Union bank to crossing the old National road to house of ramnihor patel towards Southern house of Vishambhar Sahu.
			West	House of Vishambhar Sahu to junior School Ambi to Crossing the National road upto Teoni road.

11	Rajendra Ward	1050	North	Starting of Teoni road Bhogar Nala to house of Daya Shankar Mishra to pump house to Ambi approach road.
			East	Ambi approach road to house of Phakkar Kori to Ambi Patariyan tola towards house of Harihar, Panchraj up to house of Kedarnath Bramhan.
			South	House of Kedarnath to ambi teoni road towards house of avadhasharan upto Boundary of Nagar Palika.
			West	use of Har Prasad to teoni road Bhogar Nala.
12	Indira Gandhi Ward	860	North	Starting of ambi talab to eastern crossing the NH7 road to house of Suryamani.
			East	House of Suryamani towards house of Shiva raj to house of Palti Kohar to Maira tola to house of Jamuna Patel to house of Dharamadas Patel .
			South	House of Dharamdas Patel to house of Dev Sharan, Ganga Patel.
			West	House of Ganga Patel to ambi talab.
13	Sanjay Ward	989	North	House of Hari Gupta to house of Ram Milan Gupta.
			East	House of Ram Milan Gupta to cross Gurdh road towards to house of Dadan Prasad
			South	House of Dadan Prasad Gupta to house of Kaushal Patel Boundary Nagar Palika.
			West	House of Kaushal Patel to house of Hari Gupta.
14	Rajeev Ward	920	North	House of Ashish Ranchandra Gupta to side to southern house of Ganesh Mishra towards in Khamhari house of Jai Prakash towards Junction of Sitapur Road.
			East	Junction of sitapur road to western road side house of Shankar Kushawaha Up to Khuta bahara Nala.
			South	Khuta Bahara nala to words crossing the Delhi road eastern towards house of Rampratap Vishwakarma, heerasen to Pramary School Nagama.
			West	Pramary School Nagama. towards house of Ashish Ranchandra Gupta.
15	Jayprakash Ward	889	North	House of Jagdish Ralhi up towards Boundary of Nagar Palika Sengari River.
			East	Sengari River up to Nagama Road.
			South	Nagama Road up to Primary School Nagama.
			West	Primary School Nagama to east side of Delhi road side towards crossing of old National road towards Police Station towards Side of National road Up to house of Jagdish Ralhi.

BASANT KURRE, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 56, एफ 1-35/2020/18-3 कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रेषित नगर परिषद बैकुण्ठपुर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 155/डूडा/2020, दिनांक 31-01-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्रमांक / 155.../डूडा/2020 :- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये मैं बसंत कुर्रे कलेक्टर रीवा एतद् द्वारा नगर परिषद बैकुण्ठपुर के वार्डों का विस्तार (परसीमन) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

अनुसूची

स. क्र.	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	2	3
1	01	नेहरू वार्ड
2	02	गाँधी वार्ड
3	03	लोहिया वार्ड
4	04	मुखर्जी वार्ड
5	05	अशोक वार्ड
6	06	सुदर्शन वार्ड
7	07	महावीर वार्ड
8	08	नर्वदा वार्ड
9	09	संजय वार्ड
10	10	रोस्तम वार्ड
11	11	राजीव वार्ड
12	12	इन्दिरा वार्ड
13	13	राधाकृष्णन वार्ड
14	14	वासुदेव वार्ड
15	15	अम्बेडकर वार्ड

वार्डों की सीमाओं का विवरण

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड सीमा	
1	2	3	4	
1	नेहरू वार्ड	674	उत्तर	रीवा सिरमौर रोड से बैकुण्ठपुर की अंतिम सीमा से प्रारम्भ होकर पिपरी ग्राम सीमा तक
			पूर्व	पल्हान और बैकुण्ठपुर की सीमा से प्रारम्भ होकर सिरमौर रीवा रोड होते हुए लोखड़िहन टोला को जाने वाली डब्ल्यू.बी.एम. रोड तक
			दक्षिण	रीवा सिरमौर रोड में लोखड़िहन टोला को जाने वाली डब्ल्यू.बी.एम. रोड होते हुए पिपरी ग्राम सीमा तक
			पश्चिम	लोखड़िहन टोला की अंतिम सीमा होते हुए पिपरी ग्राम से पल्हान की सीमा तक
2	गांधी वार्ड	722	उत्तर	रीवा सिरमौर रोड से लोखड़िहन टोला को जाने वाली डब्ल्यू.बी.एम. रोड होते हुए पिपरी ग्राम सीमा तक (दक्षिणी भाग)
			पूर्व	लोखड़िहन टोला को जाने वाली रोड से प्रारम्भ होकर सिरमौर रीवा रोड होते हुए बस स्टैण्ड तक (पश्चिम भाग)
			दक्षिण	बस स्टैण्ड से प्रारम्भ होकर पश्चिम तरफ ककरहा तालाब होते हुए तेंदुन ग्राम की सीमा तक
			पश्चिम	ककरहा तालाब और तेंदुन ग्राम की सीमा से प्रारम्भ होकर लोखड़िहन टोला के डब्ल्यू.बी.एम. रोड तक
3	लोहिया वार्ड	742	उत्तर	चौसझ मोड़ से हीरामणि पंडित के घर से प्रारम्भ होकर बरौ चौराहा के पश्चिमी भाग में सोभनाथ बढई के घर तक
			पूर्व	बरौ चौराहा से प्रारम्भ होकर सिरमौर रीवा रोड होते हुए कोलान बस्ती की ओर जाने वाली खड़न्जा तक (पश्चिम भाग)
			दक्षिण	रीवा सिरमौर से कोलान की ओर जाने वाली खड़न्जा से शुरू होकर एम.पी.ई.बी. कार्यालय होते हुए बैकुण्ठपुर तेंदुन सीमा तक
			पश्चिम	सूर्यपाल पंडित के मकान से आरम्भ होकर तेंदुन ग्राम सीमा तक
4	मुखर्जी वार्ड	650	उत्तर	बस स्टैण्ड सीमा से दक्षिण तरफ बरौ मोड़ (अनुसूचित जाति बस्ती) तक
			पूर्व	बरौ मोड़ के पूर्व श्री राजन गुप्ता के घर से सत्यभान खरे के मकान से प्रारम्भ होकर आर.सी.सी. रोड होते हुए बसोरहटी को जाने वाली आर.सी.सी. रोड को पार करते हुए पेट्रोल पम्प के आगे निकाय सीमा तक
			दक्षिण	शिवनारायण साकेत के घर से प्रारम्भ होकर बीरन कोल के घर तक
			पश्चिम	बीरन कोल के घर से प्रारम्भ होकर एम.पी.ई.बी. कालोनी के पीछे तक
5	अशोक वार्ड	744	उत्तर	रूपन बारी के मकान से प्रारम्भ होकर बरियान चौक (बाजार की ओर जाने वाली) डामरीकरण रोड होते हुए बालमुकुन्द पंडित के मकान तक
			पूर्व	बालमुकुन्द के मकान से प्रारम्भ होकर बसोरहटी खड़न्जा होते हुए दुदानी कहार के घर से दुधी सोनी के मकान तक – टिकुरा रोड
			दक्षिण	दुधी सोनी के मकान से प्रारम्भ होकर फुलझरिया काछी के घर तक तेंदुन ग्राम सीमा तक
			पश्चिम	फुलझरिया काछी के मकान से मुरुमीकरण रोड होते हुए बरियान चौराहा तक (जहां डामरीकरण रोड मिलती है)
6	सुदर्शन वार्ड	636	उत्तर	विद्याधर गुप्ता के मकान से प्रारम्भ होकर फरासन टोला (ताजिया चौक) तक
			पूर्व	ताजिया चौक से प्रारम्भ होकर मुरुमीकरण रोड होते हुए नाला पार करते हुए तेलीयान कूप तक

			दक्षिण	तेलीयान कूप से रामसिरोमणि के घर तक
			पश्चिम	रामसिरोमणि के घर से रामराज पंडित के मकान होते हुए झंडा चौक को जाने वाली रोड होते हुए विद्याधर गुप्ता के मकान तक
7	महावीर वार्ड	673	उत्तर	झंडा चौक से इलाहाबाद बैंक रोड होते हुए चिकान मंदिर तक
			पूर्व	चिकान मंदिर से प्रारंभ होकर फरासन टोला होते हुए कहरहटी मोहल्ला तक
			दक्षिण	कहरहटी मोहल्ला से सलेच मुसलमान के घर से होते हुए ताजिया चौक होते हुए नाती गुप्ता के घर तक डामरीकरण रोड
			पश्चिम	नाती गुप्ता के घर से प्रारंभ होकर डामरीकरण रोड होते हुए झंडा चौक तक
8	नर्वदा वार्ड	704	उत्तर	रीवा सिरमौर रोड से प्रारंभ होकर नई बस्ती होते हुए डामरीकरण रोड होते हुए झंडा चौक तक
			पूर्व	झंडा चौक से रामपाल गुप्ता के घर तक
			दक्षिण	रामपाल गुप्ता के घर से प्रारंभ होकर बरौ चौक तक (डामरीकरण रोड होते हुए)
			पश्चिम	बरौ चौक से प्रारंभ होकर नगर पालिका के बगल वाली रोड तक
9	संजय वार्ड	586	उत्तर	शक्ति चौक से प्रारंभ होकर क्यौंटी रोड होते हुए आयुर्वेद औषधालय की ओर जाने वाली रोड तक
			पूर्व	क्यौंटी रोड से प्रारंभ होकर आयुर्वेद औषधालय होते हुए कुँवर प्रताप सिंह के बारण्डा तक (नई बस्ती रोड तक)
			दक्षिण	कुँवर प्रताप सिंह के उत्तरी बारण्डा से प्रारंभ होकर नई बस्ती होते हुए नगर पालिका कार्यालय के पास रीवा सिरमौर रोड तक
			पश्चिम	नगर पालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर रीवा सिरमौर रोड होते हुए शक्ति चौक तक
10	रोस्तम वार्ड	768	उत्तर	रामखेलावन गुप्ता के घर से पूर्व झण्डा चौक उत्तर डॉ. के.पी. शर्मा के घर होते हुए क्यौंटी रोड की उत्तरी सीमा ददानी के मकान तक
			पूर्व	ददानी के घर से छतुरिहा तालाब के दक्षिणी पूर्वी कोना होते हुए सिरमौर रोड पुष्पराज सिंह के मकान तक
			दक्षिण	डॉ. दिवाकर सिंह के मकान से राजेश प्रताप सिंह के दुकान के पूर्व तरफ क्यौंटी रोड के उत्तर सुरसरी काम्पलेक्स तक एवं दक्षिण कोने में राममणि विश्वकर्मा के मकान से रामलाल विश्वकर्मा के मकान होते हुए रामखेलावन गुप्ता के मकान तक
			पश्चिम	डॉ. दिवाकर सिंह के मकान से उत्तर सिरमौर रोड के पूर्व तरफ पुष्पराज सिंह के मकान तक
11	राजीव वार्ड	666	उत्तर	डॉ. सिद्दीकी के अतरी से प्रारंभ होकर मुसलमानी बस्ती के खड़न्जा तक
			पूर्व	मोहम्मद याकूब के घर से खड़न्जा होते हुए मो. ताहिर के घर तक
			दक्षिण	मो. ताहिर के घर से झण्डा चौक तक
			पश्चिम	झण्डा चौक से डॉ. सिद्दीकी के अतरी तक
12	इन्दिरा वार्ड	700	उत्तर	मो. सफी के घर से नई बाजार रोड होते हुए मो. नूरायन के घर तक पुराना पोस्ट ऑफिस
			पूर्व	रामकृपाल कुशवाहा के मकान से महत सीमा होते हुए रामखेलावन सोनी के मकान तक
			दक्षिण	मो. सफी के मकान से चिकान मार्ग का पूर्वी हिस्सा होते हुए रामकृपाल के घर तक
			पश्चिम	मस्जिद की ओर जाने वाली खड़न्जा से प्रारंभ होकर चिकान मार्ग तक

13	राधाकृष्णन वार्ड	595	उत्तर	लाल मोहम्मद के मकान से प्रारम्भ होकर क्यौंटी रोड होते हुए पुराना थाना के चौराहा तक
			पूर्व	पुराना थाना चौराहा से बकरीदी के मकान तक
			दक्षिण	बकरीदी के मकान से का रास्ता होते हुए मोहम्मद रफी के घर तक
			पश्चिम	मो. सफी के मकान से खड़न्जा होते हुए मो. रयूब के घर से मो. जाफर होते हुए अवधलाल के मकान तक
14	वासुदेव वार्ड	670	उत्तर	पुराना थाना चौराहा से प्रारम्भ होकर पटना रोड तक
			पूर्व	पटना रोड की पुलिया से पश्चिम तरफ क्यौंटी रोड के उत्तरी तरफ गुलबहार के घर तक (ददानी के घर के पहले)
			दक्षिण	महत मार्ग से प्रारम्भ होकर चमरहटी की सम्पूर्ण सीमा लेते हुए रामखेलावन सोनी के घर तक
			पश्चिम	रामखेलावन सोनी के घर से प्रारम्भ होकर पुराना थाना के कूप तक
15	अम्बेडकर वार्ड	752	उत्तर	आदित्य कुँवर प्रताप सिंह के घर से होते हुए तेजप्रकाश पाण्डे के घर (ग्राम पाली सीमा) तक
			पूर्व	हटवा सीमा से प्रारम्भ होकर फूल रोड होते हुए पटना रोड तक
			दक्षिण	पटना रोड होते हुए क्यौंटी रोड पुलिया रामखेलावन गुप्ता के घर तक
			पश्चिम	पुष्पराज सिंह के घर से अगनू गुप्ता के आरा मशीन के उत्तर सिरमौर रोड के पूर्वी भाग लेते हुए आदित्य कुँवर प्रताप सिंह के घर तक

बसंत कुर्रे, कलेक्टर.

Rewa, the 31st January 2020

No./-~~155~~---/Duda/2020 – In exercise of the powers conferred by Section 1 of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar palika adhiniyam, 1961 (No.-37 Year 1961) "1" Mr. Basant Kurre, Collector, Rewa Madhya Pradesh here by determine the extent of wards Nagar Parishad Gaikunthapur, Rewa as Schedule below :-

Schedule

S.No.	Ward No.	Ward Name
1	2	3
1	01	Nehru Ward
2	02	Gandhi Ward
3	03	Lohiya Ward
4	04	Mukharjee Ward
5	05	Ashok Ward
6	06	Sudershan Ward
7	07	Mahaveer Ward
8	08	Narvada Ward
9	09	Sanjay Ward
10	10	Rustam Ward
11	11	Rajeev Ward
12	12	Indra Ward
13	13	Radha Krishnan Ward
14	14	Vasudev Ward
15	15	Ambedkar Ward

Description of the Boundaries of Wards

Ward No.	Ward Name	Ward Population	Ward Boundary	
1	2	3	4	
1	Nehru Ward	674	North	from Rewa Sirmour Road starting from last border of Baikunthpur to pipri village.
			East	Starting from Palan and baikuntpur Border via Sirmour Rewa road to W.B.M. Road to wards lokhadihan Tola.
			South	Starting from Rewa Sirmour Road W.B.M. road rowards lokhadihan tola to pipri village barder
			West	Starting from last border of Lokhadihan tola towards pipri village border to palhan border
2	Gandhi Ward	722	North	Starting from Rewa Sirmour Road to Lokhrihan Tola W.B.M. Road via Pipri village border (southern part)
			East	Starting from the road going to Lokharihan Tola, via Sirmour Rewa Road via bus stand (west part)
			South	Starting from the bus stand west side Kakraha pond via the boundary of Tendun village.
			West	Starting from the border of Kakraha pond and Tendun village, via Lokdihan Tola W.B.M. road.
3	Lohiya Ward	742	North	Starting from house of hiramani Pandit in chausajh Mod to house of shobhanath Carpenter western portion of baron chouraha.
			East	Starting from baron chouraha via Sirmour Rewa Road towards kolan (western Portion)
			South	Starting from Khadanja towards Kolan in Rewa Sirmour Road via M.P.E.B. office to Baikunthpur Tendun Border.
			West	Starting from house of Suryapal Pandit to Tilkhan village border.
4	Mukharjee Ward	650	North	Starting From Bus Stand to South side Barau Mod. (SC Basti)
			East	starting from Baraun Mod east side house of Mr. Rajan Gupta from the house of Satyabhan Khare, R.C.C. Road via going Basorhati RCC road Crossing the petrol pump front Nikay border.
			South	Starting from Shivrinarayan Saket's house to Biran Kol's house.
			West	Starting from Biran Kol's house, to M.P.E.B. Colony back.
5	Ashok Ward	744	North	Starting from Bariyaan Chouk (house of Roopan Bari) via Biluminus road to ward bazaar to house of Balmukund Pandit.
			East	Starting from house of balmukund pandit via kharanja towards basorahati to house of dudhi Soni via Dudani Kahar (Tikura Road)
			South	Starting from house of dudhi Soni to house of Phuljhariya Kachi.
			West	Starting from house of Phuljhariya Kachi via Murmikan Road to Bariyan Chouraha (Bituminus road)
6	Sudershan Ward	636	North	Starting from Vidyadhar gupta house to Pharasan Tola (Tajiya Chouk)

			East	Starting from Tajiya chouk via Murumikaran Road] crossing Nala to Teliyan koop.
			South	Starting from Teliyan koop to house of Ramsiromani Pandit.
			West	Starting from house of Ramsiromani via house of Ramraj Pandit, Bituminus road towards Janda Chouk to house of Vidyadhar Gupta.
7	Mahaveer Ward	673	North	Starting from Jhanda Chouk via Allahabad Bank Road to chikan Mandir.
			East	Starting from chikan Mandir] via Pharasan Tola to Kaharahti Mohalla.
			South	Starting from Kaharahti Mohalla to house of Nati Gupta (road) via house of satend Musalman and Tajiya chouk.
			West	Starting from house of Nati Gupta to Jhanda Chouk via Bituminus road.
8	Narvada Ward	704	North	Starting from Rewa Sirmour Road to Jhanda Chouk via Nai Basti to ward bituminous road.
			East	Starting from Jhanda chouk to Rampal Gupta house.
			South	Starting from Rampal Gupta house to Baron Chouk via bituminous road.
			West	Starting from Baron Chouk to road Near Nagar Palika.
9	Sanjay Ward	586	North	Starting from Shakti chouk to road toward Aurved Hospital via Kyoti road.
			East	Starting from kyoti road to Kunwar Pratap Singh North baramda (Nai basti road) via, Aurved Hospital
			South	Starting from Kunwar Pratap Singh North baramda to Rewa Sirmour road (near Nagar Palika) via Nai basti.
			West	Strting from Baron Chouk to road Near Nagar Palika.
10	Rustam Ward	768	North	Starting from house of Ramkhelavan Gupta east Jhanda chouk, North Dr. K.P. Sharma's house via North border of kyoti road Dadani's house.
			East	Starting From Dadani's house through the south-east corner of Chhaturiha pond to Sirmaur Road Pushpraj Singh's house.
			South	Starting form Dr. Diwakar Singh's house to Rajesh Pratap Singh's shop east side kyoti road north Surasari Complex on and south corner from Rammani Vishwakarma's house to Ramkhelavan Gupta's house via Ramlal Vishwakarma's house.
			West	Starting from Dr. Diwakar Singh's house to North Sirmour Road East side Pushparaj Singh's house.
11	Rajeev Ward	666	North	Starting from Dr. Siddiqui's corner to the Khadnja of Muslim colony.
			East	Starting from Mohammed Yakub's house to Khadnja via Mohammed Tahir's house.
			South	Starting from Mo. Tahir's house to Jhanda chouk
			West	Starting From Jhanda chouk to Dr. Siddiqui's corner.
12	Indra Ward	700	North	Starting From Mo. Safi's house to New Market Road, via Mo. Noorayan's house till Old post office.
			East	Starting From Ramkripal Kushwaha's house to the Mahat border via Ramkhelvan Soni's house.

			South	Starting From Mo. Safi's house to the house of Ramkripal via the east part of the Chikan road.
			West	Starting from Masjid root Khadnja to Chikan Road.
13	Radha Krishnan Ward	595	North	Starting from Lal Mohammed's house, via Kouti Road to Chauraha of Purana police station.
			East	Starting from Purana police station to Bakreedi house.
			South	Starting from Bakridi's house to via Mo. Safi's house.
			West	Starting from Mo. Safi's house to Khadnja via from, Mohammad Rayub's house to Jafar via Awadhalal's house.
14	Vasudev Ward	670	North	Starting from Old police station Chouraha to Patna Road.
			East	Starting from the culvert of Patna Road on the west side to the Kyoti Road north side of house of Gulbahar (before Dadani's house)
			South	Starting from Mahat Road to Chamrahti all boundry, via Ramkhelavan Soni's house.
			West	Starting from Ramkhelavan Soni's house to Start via Purana police station's Well.
15	Ambedkar Ward	752	North	Starting From Aditya Kunwar Pratap Singh's house to via Tejprakash Pandey's house (village Pali border)
			East	Starting from Hatwa border to Patna Road via Phool Road.
			South	Starting from Qanti Road Puliya via Patna Road to Ramkhelavan Gupta's house.
			West	Starting from Pushparaj Singh's House to Agnu Gupta's Ara machine north of Sirmour Road taking the eastern part the house of Aditya Kunwar Pratap Singh.

BASANT KURRE, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 57, एफ 1-37/2020/18-3 कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित नगर परिषद जीरापुर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 81/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 01-02-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी 2020

क्रमांक 81 /जि.श.वि.अ./2020-मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मे लाते हुए, "मैं" निधि निवेदिता कलेक्टर जिला राजगढ़ एतद्वारा नगर परिषद जीरापुर, जिला राजगढ़ म.प्र. के वार्डों का विभाजन/विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती हूँ :-

अनुसूची		
क्रमांक	वार्ड नं.	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)
1	1	अहिल्या बाई वार्ड
2	2	महात्मा गांधी वार्ड
3	3	नेहरू वार्ड
4	4	शीतला वार्ड
5	5	सुभाष वार्ड
6	6	टैगोर वार्ड
7	7	भगत सिंह वार्ड
8	8	चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
9	9	शान्ती वार्ड
10	10	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
11	11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
12	12	चामुण्डेश्वरी वार्ड
13	13	राजीव गांधी वार्ड
14	14	शिवाजी वार्ड
15	15	इंदिरा गांधी वार्ड

वार्ड का नाम	चौहददी
01 अहिल्याबाई वार्ड	जनसंख्या-1361
	<p>उत्तर में - जीरापुर नगर राजस्व विभाग दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 02 की सीमा पूर्व में - खाड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर पश्चिम में - माचलपुर रोड इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है । 1. परोलिया कुण्डी से खाड़ी तक, गोपाल किशन काछी के मकान से राधाकिशनदास के मकान तक 2. शिवमंदिर से मोहन जी की टाल तक रामगोपाल बरौज से कान्हेन्ट स्कूल तक</p>
02 महात्मा गांधी वार्ड	जनसंख्या-1600
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 12 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 3 की सीमा पश्चिम में - माचलपुर रोड इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है । 1. प्रकाशमणी बाई के मकान से मांगलिक भवन होते हुये किशनगढ़ मंदिर तक 2. ब्रजवासी मोहल्ला बालाजी प्रेस से आशीष गुप्ता के मकान तक 3. आशीष गुप्ता के मकान से कान्हेन्ट रोड तक 4. कान्हेन्ट रोड के सामने से किशनगढ़ धर्मशाला तक</p>
03 नेहरू वार्ड	जनसंख्या-1424
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 5 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 2 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है । 1. बंशी काकाजी के मकान से मून्दड़ा जी के मकान से मुरलीटांक की दुकान तक 2. गोवर्धनलाल बेरिस्टर से दुबे जी के मकान तक (बुधवारिया कुण्डी) 3. नयामंदिर से मून्दड़ा जी की टंकी गंगाबाई राठौर के मकान से मांगीलाल जमींदार तक 4. गोवर्धनलाल वर्मा के मकान से बालचंद जी रावली वाले का मकान 5. बु.बा.हनुमान जी की छपरी से मनोहर सोनी से चुड़ी गली सुरेश सोनी के मकान से माताजी मोहल्ला होते हुए गोवर्धनलाल जी के मकान तक</p>
04 शीतला वार्ड	जनसंख्या-1400
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 3 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 5 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 3 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है । 1. कुशवाह मंदिर से पंचौली चौक, धनसिंह कुशवाह, रामनारायण कुशवाह के मकान तक 2. गुर्जर मोहल्ला से तोलाराम जी की दुकान तक 3. डॉ.कुरेशी के मकान से युनुस कबाड़ी के मकान से शीतला माता मंदिर खटीक मो. से सिद्धीक बाबा कुशवाह मंदिर तक</p>
05 सुभाष वार्ड	जनसंख्या-1340
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 3 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है । 1. जगदीश गुप्ता खुपवाला से चौपड़ा बाजार गोवर्धन राठौर के मकान तक 2. दिनेश ब्रजमोहन शर्मा से राजू राठौर के मकान से बापूलाल जी सोनी तक 3. गिरिश भावसार के मकान से कुशवाह मो. होते हुए बापूलाल सोनी के मकान से खुपवाला तक रोड़मल सोनी से गुर्जर धर्मशाला थाने की बाऊण्डी तक</p>
06 टैगोर वार्ड	जनसंख्या-1370
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 9 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 8 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 5 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p>

	<p>1. गुप्ताजी वकील सा. शाहजी मोहल्ला से सुनार गली बड़ के यहां से जगदीश भावसार तक</p> <p>2. भावसार धर्मशाला से प्रदीपमावसार के मकान से रोड़ीबाई-भंवरलाल धोबी के मकान से भैरूलाल जी शर्मा के मकान तक</p> <p>3. डॉ. राठौर सा. के मकान से भावसार मंदिर तक</p>
07 भगतसिंह वार्ड	जनसंख्या-1400
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 9 की सीमा</p> <p>दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 8 की सीमा</p> <p>पूर्व में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा</p> <p>पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <p>1. गुलाबबाई-मदनलाल दांगी (गोरियावाला) से हरिराम धोबी से होते हुए सूरजमल जी भावसार से गम्मा मां तक गणेश छत्री से सुरेश बैरागी प्रभुलाल व्यास से प्रभुलाल भोना जी दांगी तक</p> <p>2. योगेश शर्मा से आचार्य मेडम से शिवप्रसाद जी उपाध्याय से कुम्हार मोहल्ला होते हुए गंगाराम जी दांगी के मकान तक</p>
08 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	जनसंख्या-1356
	<p>उत्तर में - (पिपल्दा रोड़) वार्ड क्रमांक 9 की सीमा</p> <p>दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 9 की सीमा</p> <p>पूर्व में - वार्ड क्रमांक 9 की सीमा</p> <p>पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <p>1. भैरूलाल दांगी से बड़ी मस्जिद होते हुए प्रभुलाल बरेडिया के मकान से पुरीलाल माली से डॉ.रामेश्वर परिहार के मकान से रोड़मल कंवरलाल दांगी से धोबी मोहल्ला तक</p> <p>2. रामबाबू दांगी के मकान से रामदेवरा मंदिर होते हुए प्रभुलाल जी व्यास के मकान से रामलाल-रामसिंह, के मकान तक</p>
09 शास्त्री वार्ड	जनसंख्या-1355
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 6 की सीमा</p> <p>दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 10 की सीमा</p> <p>पूर्व में - वार्ड क्रमांक 10 की सीमा</p> <p>पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 11 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <p>1. दयाराम धोबी के मकान से रामचंद वर्मा के मकान तक</p> <p>2. उमेश व्यास के मकान से प्रभुवर्मा (डी.पी.तक)</p> <p>3. पिपल्दा रोड़ (डी.पी. से बहीद भाई एवं कैलाश धोबी तक</p> <p>4. इंदरसिंह परिहार (चक्की) से बागवाले हनुमान मंदिर तक</p> <p>5. गोकुलदांगी से साईं मंदिर होते हुए द्वावरकाधीश मंदिर से माली की बाड़ी (हरिजन मो.) से रहीम नेता तक</p>
10 राजेन्द्रप्रसाद वार्ड	जनसंख्या-1550
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 9 की सीमा</p> <p>दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 15 की सीमा</p> <p>पूर्व में - राजस्व सीमा</p> <p>पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 11 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <p>1. युनुस खां के मकान से गोपाल भावसार के मकान से पुरोहित ऑफिस होते हुए खिलचीपुर नाका डी.पी. तक, बस स्टेण्ड गोविन्दराम नगर चामुण्डामाता मंदिर से अब्दालपुरा वाले के मकान तक</p> <p>2. प्रेमजान के मकान से गणेश मंदिर से धोबी धर्मशाला होते हुए खिलचीपुर रोड़ भंवरलाल सुतार से खाड़ी पुलिया तक</p>
11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड	जनसंख्या-1450
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 5 की सीमा</p> <p>दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 14 की सीमा</p> <p>पूर्व में - क्रमांक 9, 10 की सीमा</p> <p>पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 12 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <p>1. रहमान (नलवाला) के मकान से (बस स्टेण्ड) पुरोहित काम्प्लेक्स से कन्हैयालाल जी के मकान होते हुए (तहसील ग्राऊण्ड) से शिवम जनरल स्टोर के कन्याशाला तक</p> <p>2. जमनालाल चौरसिया से पुरानी मण्डी होते हुए सुरेश गुप्ता चक्की वाले तक</p> <p>3. श्याम बाबूजी के मकान से होते हुए खिलचीपुर नाका (सिंचाई कालोनी, ब्लाक कालोनी) से नगर परिषद भवन होते हुए रेस्ट हाऊस तक</p>

12 चामुण्डेश्वरी वार्ड	जनसंख्या-1475
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 2 की सीमा एवं माचलपुर रोड़ स्वागत द्वार तक दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 15 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्रमांक 11 की सीमा पश्चिम में - राजस्व विभाग की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कन्याशाला (न.प.दुकान) योगेश भावसार की दुकान से रमेश बेल्लिंग होते हुए जमाई कालोनी विनोद मेवाड़े तक 2. श्याम मूंदड़ा न.प.दुकान से माचलपुर रोड़ विनोद मेवाड़े तक 3. माचलपुर रोड़ नाका (दीपक अग्रवाल से स्वागत द्वार से राजस्व सीमा तक) 4. दीपक अग्रवाल से डगरोड़ हनुमान मंदिर राजस्व सीमा तक 5. हनुमानजी मंदिर डगरोड़ के सामने से माचलपुर नाका रमेश कलाल से जज सा. भाटी जी के मकान से भण्डावद रोड़ से पूनम दांगी से राजस्व सीमा तक (देवनारायण मंदिर कालोनी)
13 राजीव गांधी वार्ड	जनसंख्या-1590
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 12 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 15 की सीमा पूर्व में - क्रमांक 15 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 13 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परोलिया वाले कि दुकान पुरोहित काम्पलेक्स से स्टेडियम होते हुये रमेश शर्मा पचौर नाके के सामने से अजय सिन्हा के मकान तक (आवास मस्जिद हाऊसिंग बोर्ड कालोनी) 2. लखन मेवाड़े से पचौर रोड़ कॉलेज राजस्व सीमा तक बटावदा रोड़ 3. फैक्ट्री (पूर्व विधायक सा) से फारेस्ट कालोनी होते हुए नानूराम गुर्जर तक नर्मदेश्वर मंदिर के आसपास का सम्पूर्ण एरिया 4. बिजली आफिस के आसपास इन्दर चोराहा से हायर सेकेण्ड्री स्कूल एवं बिजली आफिस के आसपास का एरिया 5. दुर्गा काम्पलेक्स से डॉ. राठौर सा. के मंदिर से राजस्व सीमा तक 6. यतिराज मूंदड़ा शॉपिंग काम्पलेक्स से मोहन गुप्ता तक
14 शिवाजी वार्ड	जनसंख्या-1575
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्रमांक 15 की सीमा पूर्व में - क्रमांक 15 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 13 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गोवर्धनजी गुप्ता से हटीले हुमान मंदिर से आवास टंकी होते हुए दरगाह (तालाब के आसपास) 2. लक्ष्मीनारायण मण्डलोई से गोवर्धनलाल जी गुप्ता
15 इंदिरा गांधी वार्ड	जनसंख्या-1478
	<p>उत्तर में - वार्ड क्रमांक 10 एवं 14 की सीमा दक्षिण में - गैस एजेन्सी राजस्व सीमा तक पूर्व में - खाड़ी पुलिया राजस्व सीमा तक पश्चिम में - वार्ड क्रमांक 13 की सीमा इसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संजय निकुंज खाड़ी पुलिया से खिलचीपुर रोड़ कुआँ बड़ी माली से छात्रावास नाके के सामने से तक 2. विश्वकर्मा मन्दिर से होते हुए शनि मंदिर से पचौर रोड़ नाका तक 3. पचौर रोड़ शुलभ काम्पलेक्स से बांध के आसपास नहर साईड मण्डी रोड़ से गोशला होते हुये फैक्ट्री गैस एजेन्सी तक एवं आइ एच एस डिपी योजना के समस्त क्वाटर 3. संजय निकुंज खाड़ी पुलिया से खिलचीपुर रोड़ कुआँ बड़ी माली से छात्रावास होते हुए शनि मंदिर से पचौर नाका मण्डी रोड़ से फैक्ट्री गैस एजेन्सी तक (बांध के आसपास नहर साईड)

निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 01st February 2020

No. 81 /DUDA/2020 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No. 37 year 1961). "I" Nidhi Nivedita Collector Rajgarh (M.P.) here by extent of wards of Municipal Council Jeerapur, District-Rajgarh as determine the schedule below. :-

SCHEDULE		
S.N.	WARD NO.	WARD NAME
(1)	(2)	(3)
1	1	AhilyaBai ward
2	2	Mahatma Gandhi
3	3	Nehru Ward
4	4	Sheetla ward
5	5	Subhash ward
6	6	Tagore ward
7	7	Bhagatsingh ward
8	8	Chandrashekharazaad ward
9	9	Shastri ward
10	10	Rajendra Prasad ward
11	11	Dr. Ambedkar ward
12	12	Chamundeshwari ward
13	13	Rajiv Gandhi ward
14	14	Shivaji ward
15	15	Indra Gandhi ward

Name of ward Discription of Boundary of ward

Ward Name	Area
1- Ahilya Bai ward	Papuletion-1361 North - Revenue limit of zirapur. Sauth - Boundry of ward no. 2 East - Temple of khadi. West - Machalpur Road. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Paroliya Kudi to Khadi Mandir and house shri Gopal Krishna khinchi to Radhakishandas. 2. Shiv Mandir to Mohan ji Taal to Ramgopal Baronj to Convent School.
2- Mahatma Gandhi Ward	Papuletion-1600 North - Boundry of ward no. 1. Sauth - Boundry of ward no. 12 East - Boundry of ward no. 3. West - Machalpur Road. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Prakashmani Bai to Manglik Bhawan to Kishangarh Mandir. 2. Brajwasi mohalla, Balaji Printing Press to Ashish gupta'house. 3. Aashish Gupta house to Convent road. 4. Infront of Convent road to kishangarh Dharmashala.
3- Nehru Ward	Papuletion-1424 North - Boundry of ward no. 1. Sauth - Boundry of ward no. 6. East - Boundry of ward no. 5. West - Boundry of ward no. 2. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Banshi Kaka ji House to Mundra ji house to murli tank's shop. 2. Goverdhanlal Berister to Dube ji house (Budhwariya Kundi) 3. Naya Mandir to Mundra Tanki to Gangabai rathore house ro mangilal Zamindar 4. Goverdhanlal verma house to Balchand ji (ravla wala) house. 5. Budhwariya Bajar, Hanuman mandir to manohar soni to chudi gali, suresh soni house to Mataji mohalla to goverdhanlal verma's house.
4- Sheetla ward	Papuletion-1400 North - Boundry of ward no. 3. Sauth - Boundry of ward no. 6. East - Boundry of ward no. 5. West - Boundry of ward no. 3. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Kushwaha Mandir to Pancholi Chouck, Dhansingh kushwah, Ramnarayan Kushwaha house. 2. Gurjar Mohalla to Tolaram jis shop. 3. Dr. Kureshi house to Yunus Kabadi house to sheetla mata mandir khatik mohalla to Siddhik baba kushwaha mandir.

5- Subhash ward	Papuletion-1340 North - Boundry of ward no. 1. Sauth - Boundry of ward no. 6. East - Boundry of ward no. 6. West - Boundry of ward no. 3. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Jagdish gupta khupwala to chopra bajar goverdhanlal rathore house. 2. Dinesh Brajmohan Sharma to Raju rathore house to Bapulal soni. 3. Girish Bhawsar House to Kushwah mohalla Bapulal soni's house to Khupwala. 4. Roadmal soni to Gurjar Dharmashala and Poolice Station Boundry.
6- Tagore ward	Papuletion-1370 North - Boundry of ward no. 1. Sauth - Boundry of ward no. 9. East - Boundry of ward no. 8. West - Boundry of ward no. 5. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Gupta ji Advoket to Shaliji mohalla to sunar gali Bad to Jagdish Bhawsar's house. 2. Bhawsar Dharmashala to Pradip Bhawsar's house to Roadi Bai-Bhanwarlal Dhobi's house to Bherulal ji Sharma's house. 3. Dr. Rathore sir house to Bhawsar Mandir.
7- Bhagat singh ward	Papuletion-1400 North - Boundry of ward no. 9. Sauth - Boundry of ward no. 8. East - Boundry of ward no. 1. West - Boundry of ward no. 6. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Gulabbai - madanlal dangi goriya wala house to hariram dhobi to surajmal bhawsar to gamama to ganesh chatari to suresh beragi, prabhulal vyas to prabhulal bhona ji dangi . 2. Yogesh Sharma to achariya madam to shivprasad ji upadhayay to kumhar mohalla to gangaram ji dangi house.
8- Chandrashekhar azaad ward	Papuletion-1356 North - Boundry of ward no. 9. (Pipalda Raod) Sauth - Boundry of ward no. 9. East - Boundry of ward no. 9. West - Boundry of ward no. 6. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Bharulal dangi to badi masjid to prabulal barediya house to prabulal mali to rameshwer parihar house to roadmal kanwarlal dangi house to dhobi mohalla. 2. Rambau dangi house to ramdevra mandir to prabhulal Vyas house to Ramlal-Ramsingh house.
9- Shastri ward	Papuletion-1355 North - Boundry of ward no. 6. Sauth - Boundry of ward no. 10. East - Boundry of ward no. 10. West - Boundry of ward no. 11. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Dayaram Dholi house to Ramchandra Ramchandra verma house. 2. Umesh Vyas house to Prabhulal verma (D.P.) 3. Pipalda road (D.P.) to Vahid Bhai and Kailash Dhobi.

	<p>4. Indersingh Parihar (Chakki) to Bhagwala human mandir.</p> <p>5. Gokul dangi To sai mandir to Dwarkasheesh mandir to mali ki Baadi (Harijan Mohalla) to Rahim neta house.</p>
10- Rajendra Prasad ward	<p>Papuletion-1550</p> <p>North - Boundry of ward no. 9. Sauth - Boundry of ward no. 10. East - Boundry of ward Limit of revenue land zirapur West - Boundry of ward no. 11.</p> <p>Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Ynus kha house to gopal bhawsar house to purohit office Khilchipur naka D.P., Bus Stand, Govindram nagar Chamunda mata manndir to Abdalpura wala house. 2. Premjaan house to ganesh mandir dhobi dharmashala to khilchipur roard Bhanwar lal sutar to khadi puliya.</p>
11- Dr. Ambedkar ward	<p>Papuletion-1450</p> <p>North - Boundry of ward no. 5. Sauth - Boundry of ward no. 14. East - Boundry of ward no. 10. West - Boundry of ward no. 12.</p> <p>Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Rehman (Nalwala) House to Bus Stand purohit Complex to Kanhayalal House, Tehsil Graund to shubham janral store to Kanyashala. 2. Jamnalal Chourasiya to Old mandi to suresh gupta (Chakki wala) 3. Shyambabu ji house to Khilchipur naka Irrigation Colony Block Colony. Nagar parishad to Resthouse.</p>
12- Chamundeshwari ward	<p>Papuletion-1475</p> <p>North - Boundry of ward no. 2 and Machalpur Raod welcome gate. Sauth - Boundry of ward no. 15. East - Boundry of ward no. 11. West - Boundry of ward no. 13.</p> <p>Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Kanyashala (NP Shop) Yogesh Bhawsar shop to Ramesh Belding to Jamai Colony. Vinod mewade. 2. Shyam Mundra NP Shop to Machalpur Road Vinod mewade. 3. Machalpur road naka to Dipak agrawal to Swagat Dwaar Limit of revenue land zirapur. 4. Dipak agrawaml Dag road hanuman mandir Revenue Land Zirapur.</p>
13- Rajiv Gandhi ward	<p>Papuletion-1590</p> <p>North - Boundry of ward no. 12 Sauth - Boundry of revenue land batawda East - Boundry of ward no. 11, 14. West - Boundry of ward no. 12 and Revenue land Zirapur.</p> <p>Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. shop of paroliya wala to purohit complex and stadium to Ramesh sharma frant of pachore naka to house of ajay sinha 2. lakhan mewade to pachore road to collage revenue land batawda 3. fractory (Ex. M.L.A.) to forest colony to nanuram gurjur to whole area of narmdeshwar temple 4. Durga Complex To Rathore Mandir, revenue land zirapur. 5. Yatiraj Mundra shopping complex to mohan gupta. 6. Indersingh Jamindar shop to higher secondary school and near of mpeb, Stadiom</p>

14- Shivaji ward	Papuletion-1575 North - Boundry of ward no. 11 Sauth - Boundry of ward no. 15. East - Boundry of ward no. 15. West - Boundry of ward no. 13. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Goverdhanlal Gupta to Hatile hanuman mandir to awas Tanki To Dargah (Talab Aria) 2. Laxminarayan Mandloi to goverdhanlal gupta.
15- Indra Gandhi ward	Papuletion-1478 North - Boundry of ward no. 10. Sauth - Gas Agency Revenue land limit. East - Boundry of Khadi Bridg. Revenue limit land. West - Boundry of ward no. 13. Note - In this ward following Gailies and road are including. 1. Sanjay Nikunj Khadi puliya to Khichipur Road. To girls hostile to frant of khilchipur naka 2. vishvkarma temple to shani temple to pachore naka. 3. Sanjay Nikunj Khadi puliya to Khichipur Road. Badri mali to Chatrawas to shani Tample to pachor naka to mandi road to Factory Gas Agency to (Dam Side)

NIDHI NIVEDITA, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 58, एफ 1-40/2020/18-3 कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा प्रेषित नगर परिषद बैतूल के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 2020/एस.जे.एस.-1/वार्ड परिसीमन/91, दिनांक 01-02-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र.-2020/एसजेएस-1/वार्ड परिसीमन/91

बैतूल, दिनांक 01 फरवरी 2020

म.प्र.राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 03-518-अठारह-3-2004 भोपाल दिनांक 25/02/2004 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं तेजस्वी एस.नायक, कलेक्टर जिला बैतूल म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 उपधारा (1) -वार्डों की संख्या तथा विस्तार की अवधारण और निर्वाचनों का संचालन के तहत नगर परिषद बैतूल बाजार जिला बैतूल के लिए वार्डों की संख्या 15 अवधारित करता हूँ। नगर परिषद बैतूलबाजार जिला - बैतूल के लिए 15 वार्डों की सीमाओं का विस्तार नीचे दी हुई अनुसूची के अनुसार एतद द्वारा अवधारित करता हूँ :-

क्र	वार्डों के नाम	जनगणना 2011 के अनुसार		
		वार्ड की संभावित जनसंख्या		
		कुल	अज्ञा	अज्ञा
1	शिवाजी वार्ड	785	220	228
2	गणेश वार्ड	644	0	15
3	कैलाश वार्ड	713	26	47
4	सुभाष वार्ड	625	6	21
5	कृष्ण वार्ड	662	9	0
6	विष्णु वार्ड	681	6	0
7	तिलक वार्ड	716	2	6
8	भवानी वार्ड	802	0	22
9	मालवी वार्ड	781	0	51
10	शास्त्री वार्ड	623	0	3
11	जवाहर वार्ड	635	0	0
12	राजेन्द्र वार्ड	792	62	30
13	गांधी वार्ड	749	25	0
14	आजाद वार्ड	641	0	3
15	अंबेडकर वार्ड	781	346	1
	कुलयोग	10630	702	427

अनुसूची

वार्ड विभाजन प्रस्तावित वार्डवार सीमा 2019-2020

वार्ड क्रमांक 01 शिवाजी वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 785)

- उत्तर में - पीलर क्रमांक 5 (खसरा नम्बर 25) में से पी0डब्ल्यू0डी0 रोड क्रॉस करते हुये पीलर नं. 04 (खसरा नम्बर 09) से होते हुए पी.नं.03 (ख.नं.23) से होते हुए सिंगनवाडी मार्ग के पश्चिमी किनारे तक।
- पूर्व में - सिंगनवाडी मार्ग के पश्चिमी किनारे से गोपाल पंचार के मकान से होते हुये कैलाश मार्ग से चौकीपुरा बजरंग मंदिर तक।
- दक्षिण में - बजरंग मंदिर के ट्रांसफार्मर से सांपना नदी के पश्चिमी किनारे से होते हुए बसोड हरिजन एवं मालवी हरिजन कालोनी के अंदर लेते हुए सांपना नदी के पश्चिमी किनारे के खसरा नम्बर 106/1 तक।
- पश्चिम में - खसरा नं.106/1 से पीलर क्रमांक 05 (खसरा नम्बर 25) तक।

वार्ड क्रमांक 02, गणेश वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 644)

- उत्तर में – मंगल चौहान के मकान से नाले से होते हुए पी0डब्ल्यू0डी0 रोड क्रॉस कर सिंगनवाडी मार्ग तक।
- पूर्व में – सिंगनवाडी मार्ग से पी0डब्ल्यू0डी0 रोड क्रॉस कर ज्योति सडक का पश्चिमी किनारा होते हुए सुमंत रोड क्रॉस कर रामेश्वर मेहतो के नये मकान तक।
- दक्षिण में – रामेश्वर मेहतो के नये मकान से प्रताप रोड क्रॉस कर बजरिया सडक के पश्चिम किनारे से होते हुए धन्नाबाई के मकान तक।
- पश्चिम में – धन्नाबाई के मकान से कैलाश मार्ग का पूर्वी किनारा लेते हुए मंगल चौहान के घर तक।

वार्ड क्रमांक 03, कैलाश वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 713)

- उत्तर में – सिंगनवाडी मार्ग से पी.क्रं.02 (खसरा नम्बर 328) तक।
- पूर्व में – पी.क्रं.02 (खसरा नं.328) से होते हुए पी0डब्ल्यू0डी0 रोड क्रॉस कर जवाहर मार्ग का पश्चिमी किनारा लेते हुए सुमन्त मार्ग क्रॉस कर विजय सडक के पश्चिम किनारे को लेते हुए प्रताप मार्ग क्रॉस कर राजेन्द्र मार्ग के पश्चिमी किनारे को लेते हुए महावीर वर्मा के मकान तक।
- दक्षिण में – महावीर वर्मा के मकान से तिलक सडक के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुए लाटरी क्लाथ स्टोर तक।
- पश्चिम में – लाटरी क्लाथ स्टोर से बजरिया सडक का पूर्वी किनारा लेते हुये प्रताप मार्ग क्रॉस कर ज्योति सडक का पूर्वी किनारा लेते हुये सिंगनवाडी मार्ग तक।

वार्ड क्रमांक 04, सुभाष वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 635)

- उत्तर में – पीलर क्रमांक 02 (खसरा नं.328) से पीलर क्रं.01 (खसरा नं.333) तक।
- पूर्व में – पीलर क्रं.01 (खसरा नं.330) से पीलर क्रं.12 (खसरा नं.334) से पीलर क्रं. 4 (खसरा नं. 313/1) से होते हुये सोंपना नदी के दक्षिण किनारे से हथनोरा रोड तक।
- दक्षिण में – हथनोरा मार्ग के उत्तर साईड के मकान लेते हुए मेघनाथ मार्ग के पूर्व किनारे से मिलानपुर मार्ग (गणेश मार्ग) तक।
- पश्चिम में – जवाहर मार्ग के पूर्वी किनारे से होते हुए पीलर क्रं.02 (खसरा नं. 328) तक।

वार्ड क्रमांक 05, कृष्णवार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 652)

- उत्तर में – श्यामाचरण मिश्रा के मकान से प्रताप रोड के दक्षिण किनारे के मकान लेते हुए शिवलाल बढई के मकान के सामने का गणेश मार्ग क्रॉस कर सोमू पटेल का मकान लेते हुए मेघनाथ मार्ग के पश्चिम किनारे का मकान लेते हुए अंजीबाई के मकान तक।
- पूर्व में – हथनोरा मार्ग के उत्तर साईड के मकान लेते हुए जालमशेष बाबा का मंदिर होते हुए विष्णुनाथ वर्मा के मकान तक।
- दक्षिण में – रामेश्वर तिवारी के मकान के पीछे से विष्णु गली का उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये जवाहर रोड पार कर किशोरीलाल आर्य के मकान से शुक्ला सडक के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये काले मंदिर तक।
- पश्चिम में – काला मंदिर से राजेन्द्र मार्ग के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये श्यामाचरण मिश्रा के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 06, विष्णुवार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 681)

- उत्तर में – मोहन छीपा के मकान से शुक्ला के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये विष्णु गली के दक्षिण किनारे के मकान लेते हुये मधु माली के मकान तक।
- पूर्व में – मधु माली के मकान से मेघनाथ मार्ग के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये जवाहर मार्ग पार कर महादेव मराठा के मकान तक।
- दक्षिण में – महादेव मराठा के मकान से जवाहर मार्ग के दक्षिण किनारे के मकान लेते हुये हरबूनाई के मकान से सुभाष मार्ग के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये बावली तक।

पश्चिम में — बवली से सुभाष मार्ग पार कर राजेन्द्र मार्ग के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये मोहन छीपा के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 07, तिलकवार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 716)

उत्तर में — चिरोंजीलाल सोनी के मकान से स्कूल सड़क होते हुये हैण्डपंप से चौधरी गली होते हुये केदारनाथ मिश्रा के मकान से राममूर्ति दुबे के मकान तक।

पूर्व में — राममूर्ति दुबे के मकान से राजेन्द्र मार्ग के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये गजानंद व्यास के मकान से देवी सड़क के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये टेलर की दुकान तक।

दक्षिण में — टेलर की दुकान से नील गली के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये पुत्री शाला सड़क के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये सुभाष मार्ग के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये हरिहरराव जैन के मकान तक।

पश्चिम में — हरिहरराव जैन के मकान से कैलाश मार्ग के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुए चिरोंजी सोनी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 08, भवानी वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 802)

उत्तर में — माता मंदिर बावली से निमिषे आरामशीन के पीछे से खेत की मेड से मेघनाथ सड़क पार कर हथनोरा मार्ग (जवाहर मार्ग) का दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये सांपना नदी के पश्चिमी किनारे तक।

पूर्व में — सांपना नदी के पश्चिमी किनारे से नदी क्रास कर पीलर क्रं.10 (खसरा नं. 342) तक।

दक्षिण में — पीलर क्रं.10 (खसरा नं.342) से भवानी मार्ग से उत्तरी किनारे से मकान लेते हुये बाजी मैकू पंवार के मकान तक।

पश्चिम में — बाजी मैकू पंवार के मकान से देवी सड़क के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये माता मंदिर बावली तक।

वार्ड क्रमांक 09, मालवी वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 781)

उत्तर में — तुलसीराम पंवार के मकान से नील गली के दक्षिण किनारे के मकान में से लेते हुये देवी सड़क के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये भवानी रोड क्रास कर भवानी रोड के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये सांपना नदी क्रास कर पीलर क्रं.10 (खसरा नम्बर 342) तक।

पूर्व में — पीलर क्रं.10 (खसरा नं.342) से पीलर क्रमांक 09 खसरा नम्बर 233/5 तक।

दक्षिण में — पीलर क्रमांक 09 खसरा नम्बर 233/5 से बयावाडी मार्ग के नहर के पुल तक।

पश्चिम में — बयावाडी मार्ग के नहर के पुल से पूर्वी किनारे से सांपना नदी क्रास कर नगर पालिका कुंआ होते हुये नागदेव गली के पूर्वी किनारा लेते हुये संतोष बढई के मकान से सकरी गली के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये भवानी रोड क्रास कर पंवार चौक से पुत्रीशाला मार्ग के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुए तुलसीराम पंवार के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 10, शास्त्री वार्ड (वार्ड की जनसंख्या – 623)

उत्तर में — रमेश किसन पवार के मकान से सुभाष रोड के दक्षिण किनारे के मकान लेते हुये श्यामराव भैयाजी पानकर के मकान तक।

पूर्व में — श्यामराव भैयाजी पानकर के मकान से पुत्री शाला मार्ग के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये पंवार चौक पर गप्फू पंवार के मकान तक।

दक्षिण में — गप्फू पंवार के मकान से भवानी रोड के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये धनाराम लोधी के मकान तक।

पश्चिम में — धनाराम लोधी के मकान से सोनी सड़क के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये शिव सड़क के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये मन्नु नाई के दुकान से कैलाश रोड पार रमेश किसन पंवार के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 11, जवाहर वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 635)

- उत्तर में - सरावन सोनी के मकान से भवानी सडक के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये श्यामलाल तेजीलाल के मकान तक।
- पूर्व में - श्यामलाल तेजीलाल के मकान से सकरी गली नम्बर 1 के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये नामदेव गली के भट्टीपुरा के हनुमान मंदिर तक।
- दक्षिण में - भट्टीपुरा हनुमान मंदिर से गांधी वार्ड के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये दशरथ नामदेव के मकान तक।
- पश्चिम में - दशरथ नामदेव के मकान से पुतली गली के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये मोंगरा गली के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये सरावन सोनी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 12, राजेन्द्र वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 792)

- उत्तर में - मेहबूब अली के मकान से मस्जिद गली के दक्षिण किनारे के मकान लेते हुये गांधी रोड क्रॉस कर शिव सडक दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये शंकर लाईनमेन के मकान तक।
- पूर्व में - शंकर लाईनमेन के मकान से सोनी सडक के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये भवानी मार्ग क्रॉस कर मोंगरा गली के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये पुतली गली के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये गांधी मार्ग के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये बयावाडी मार्ग लेते हुये सांपना नदी क्रॉस कर नहर के पुल के पश्चिमी किनारे तक।
- दक्षिण में - नहर के पुल के पश्चिमी किनारे से पीलर क्रमांक 08 (खसरा नं.69) तक।
- पश्चिम में - पीलर क्रमांक 08 (खसरा नम्बर 69) से भरकावाडी मार्ग का दक्षिणी किनारा लेते हुये मस्जिद गली का दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये मेहबूब अली के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 13, गांधी वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 749)

- उत्तर में - सुन्दरलाल लाल कुम्हार के मकान से (हेण्डपंप) गांधी मार्ग पार कर प्रहलाद गुप्ता की होटल बाजार चौक में लेते हुये दक्षिणी पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये बाजार सडक के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये गबरू राठौर के मकान तक।
- पूर्व में - जैन मंदिर से कैलाश मार्ग पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये बाबूराव धोटे के मकान तक।
- दक्षिण में - बाबूराव धोटे के मकान से शिव सडक के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये मांधी मार्ग क्रॉस मस्जिद होते हुये सांपना नदी क्रॉस कर मस्जिद गली के मस्जिद होते हुये सांपना नदी क्रॉस कर पीलर क्र.08 (खसरा नं.69) तक।
- पश्चिम में - पीलर क्रमांक 08 (खसरा नम्बर 69) से सांपना नदी क्रॉस कर हरिजन गली के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये सुन्दरलाल कुम्हार के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 14, आजाद वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 641)

- उत्तर में - चौकीपुरा के शिवमंदिर से तिलक सडक के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये रामनाथ चौधरी के मकान तक।
- पूर्व में - रामनाथ चौधरी के मकान से चौधरी गली के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये अमरीश चौधरी के मकान तक।
- दक्षिण में - अमरीश चौधरी के मकान से स्कूल सडक का उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये कैलाश मार्ग पार कर कैलाश मार्ग के पश्चिमी किनारे लेते हुये देवेन्द्र कसार के मकान से बसंता जैन के मकान के पीछे मकान लेते हुए नरेश सोनी के सामने बाजार सडक क्रॉस करते हुए अर्जुन वर्मा के घर के सामने से बाजार सडक के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुए गोलनदास सडक के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये बिसन धोबी के मकान तक।
- पश्चिम में - बिसन धोबी के मकान से बैल बाजार के दक्षिण किनारे से कांजी हाउस गली के पूर्वी किनारे के मकान लेते हुये चौकीपुरा के शिवमंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 15, अंबेडकर वार्ड (वार्ड की जनसंख्या - 781)

- उत्तर में - पीलर क्रमांक 06 (खसरा नंबर 187/2) से सांपना नदी के पश्चिमी भाग के किनारे से होते हुये सांपना नदी पार कर चौकपुरा शिवमंदिर तक।
- पूर्व में - शिवमंदिर से कांजी हाउस की गली के पश्चिमी किनारा लेते हुये पुराना पशु चिकित्सालय भवन के नगर पालिका गैरेज होते हुये गोलनदास सडक के दक्षिणी किनारे के मकान लेते हुये बालाजी मंदिर को लेते हुये गांधी मार्ग के पश्चिमी किनारे के मकान लेते हुये नागोराव सेठ के

मकान के पीछे तक।

- दक्षिण में - नागारोव सेठ के मकान के पीछे से हरिजन गली के उत्तरी किनारे के मकान लेते हुये सांपना नदी पार कर पीलर क्रमांक 08 (खसरा नंबर 69) तक।
- पश्चिम में - पीलर क्रमांक 08 (खसरा नं. 69) से पीलर क्र.07 (खसरा नं.194) लेते हुये पीलर क्र.06 (खसरा नं. 187/2) तक।

मध्यप्रदेशके राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर.

अधिसूचना क्रमांक..... भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 91 दिनांक 01 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेशके राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर.

N0-2020-SJS-1-Ward Delimitation.-

Betul, the 01 February 2020

Utilizing the power conferred under Notification No.03-518-Eighteen-3-2004 Bhopal dated 25-2-2004 published by the MP Gazette (Extraordinary) Authority I am stunning Tejaswi S.Naik.Collector. District – Betul. Under Section 29 sub-section (1) of Municipal Act 1961- Determination of number of wards and extension and conduct of elections, the Municipal Council determines the number of wards for Betul Bazar District Betul 15. For Municipal Council Betul Bazar District –Betul I will hereby determine the extension of the limits of 15 wards as per the schedule given below:-

S.No.	Name of the Ward	Appros Ward Population as per Census 2011		
		Total Population	S.C Population	S.T Population
1	Shivaji Ward	785	220	228
2	Ganesh Ward	644	0	15
3	Kailash Ward	713	26	47
4	Subhash Ward	625	6	21
5	Krishna Ward	662	9	0
6	Vishnu Ward	681	6	0
7	Tilak Ward	716	2	6
8	Bhawani Ward	802	0	22
9	Malvi Ward	781	0	51
10	Shastri Ward	623	0	3
11	Jawahar Ward	635	0	0
12	Rajendra Ward	792	62	30
13	Gandhi Ward	749	25	0
14	Azad Ward	641	0	3
15	Ambedkar Ward	781	346	1
	Total	10630	702	427

SCHEDULE

PROPOSED WARD LIMIT FOR WARD DIVISION 2019-2020

Ward No.1 Shivaji ward (Population of Ward -785)

- North** – From Pillar no.5 (Kh.No.25) to Crossing to the pillar No.4 (Kha.No.09) along the pillar no.3 (Kha.no.23) along the singanwadi Road to West Corner.
- East** – From the Singanwadi Road to west corner to the house to Gopal pawar along the Kailash Road to Chokipura Hanuman Mandir
- South** – From Hanuman Mandir to Transformer via the west corner of sapna river inside of basod, harijan and malvi harijan colony upto Kha.No.106/1.
- West** – From Kha.No.106/1 to the pillar No.5 (Kha.No.25)

Ward No.2 Ganesh ward (Population of Ward- 644)

- North** – From the House of Mangal Chouhan to Nala along with crossing the PWD road and mite the singenwadi
- East** – From the Singenwadi road to crossing the p.w.d road along the west corner of jyoti road and crossing of sumant Road to the new house to Rameshwar Mehto.
- South** – From the new house of Rameshwar Mahato along crossing of the Pratap Road along the crossing the Bajeriya Road west corner along with House of Prahalad Verma along she his house of Dhanna Bai
- West** – From the house of Dhanna bai to along the east corner of Kailash Road the house of Mangal Chouhan.

Ward No.3 Kailash ward (Population of Ward – 713)

- North** – From the Singenwadi Road to pillar No.2(Kha.no.328)
- East** – From the Pillar no.2 (Kha.no.328) to along the P.W.D. road and crossing the west corner to along with Sumant road and crossing the vijay road and west corner to pratap road and west corner to house of Mahavir Verma.
- South** – From the house of Mahavir Verma along with tilak Road to along North House to Lotery Cloth Store.
- West** – From the Lotery Cloth Store to along with bajari Road to East corner to the crossing the Pratap road and east corner of jyoti Road along with singanwadi road

Ward No.4 Subhash ward (Population of Ward – 635)

- North** – From the Pillar no.2 (Kha.no.328) to Pillar No.1 (Kha.No.333)
- East** – From the Pillar no.1 (Kha.no.330) to pillar No.12 (Kha.No.334) to Pillar No.4 (Kha.No.313/1) along the Sapana River to south edg to Hathnora Road.
- South** – From Hathanora Road's North side houses belong to Meghnath Road's East Corner of Milanpur Road (Ganesh Road) .
- West** – From Jawahar Road's East corner to Pillar No.2(Kha.No.328)

Ward No.5 Krishna ward (Population of Ward – 652)

- North** – From the house of Shyamcharan Mishra, taking the house on the south side of Pratap Road, crossing the Ganesh Marg in front of Shivilah

- Carpenter's house and taking the house of Somu Patel, taking the house on the west side of Meghnath Marg, to Anjibai's house.
- East** – Taking the house on the north side of Hathnora Marg, going to the temple of Jalmasheesh Baba, to the house of Vishnunath Varma.
- South** – From North sides house of Vishnu Gali behind of Rameshwar Tiwari crossing Jawahar Road to kishorilal Arya including south side houses of shukla road to kala Mandir.
- West** – From Kala Mandir including east side's house of to house of Shyamacharan Mishra.

Ward No.6 Vishnu ward (Population of Ward – 681)

- North** – From house of Mohan Chhipa including south side houses of shukla Road along south side houses of Vishnu Gali to house of Madhu Mali.
- East** – From house of Madhu Mali including west side houses of Meghnath road crossing jawahar Road to house of Mahadev Maratha.
- South** – From house of Mahadev Maratha including south side houses of Jawahar Road and form house of Harbu Nai to including south side houses of Subhash Road to Bawali.
- West** – From Bawali crossing Subhash Road including west side houses of Rajendra Road to house of Mohan Chhipa.

Ward No.7 Tilak ward (Population of Ward -716)

- North** – From house of Chironjilal Soni along school road handpump choudhary Gali, house of Kedarnath Mishra to house of Rammurali Dubey.
- East** – From house of Rammurali Dubey including west side houses of Rajendra Road, from Gananand Vyas to including west side houses of Devi sadak to house of Tailar.
- South** – From house shop of Tailar including north side houses of nil Gali & east side houses of Putrishala Road and north side houses of Subhash Road to house of Harihar Rao Jain.
- West** – From house fo Harihar Rao Jain including east side houses of kailash road to house of Chironjilal Soni.

Ward No.8 Bhawani ward (Population of Ward – 802)

- North** – From mata mandir Bawali behind of nimishe sow mill crossing Meghnath road including south side houses of Hathnora road to west side of Sapna River.
- East** – From west side of Sapna river crossing river to pillar no.10 (Kha.No.342)
- South** – From pillar no.10 (Kha.No.342) including north side houses of Bhawani road to Paiku Pawar.
- West** – From of Paiku pawar including side houses of Devi Sadak to Mata Mandir Bawali.

Ward No.9 Malvi ward (Population of Ward -781)

- North** – From house of Tulsiram Pawar including South side houses of Nil Gali, west side houses of Devi Sadak Crossing Bhawani Road & including South side houses of Bhawani Road and crossing sapna river and upto Pillar No.10(Kha.No.342) .
- East** – From Pillar no.10 (Kha.No.342) to Pillar no.9 (Kha.No.233/5)
- South** – From pillar no.9 (Kha.No.233/5) to bridge pf canel of Bhayawadi Road.

- From Bridge of Canal of Bhayawadi road crossing sapna river along Municipal well, including east side of Nagdev Gali from house of Santosh Badai including east side houses of Sakri Gali crossing Bhawani Road From pawar chowk to including east side houses of putrishala road to house of Tulsiram Pawar.

Ward No.10 Shastri Ward (Population of Ward – 623)

- North** - From house of Ramesh Kishan Pawar including south side houses of subhash road to house of shyam rao Bhaiyaji Pankar.
- East** - From house of Shyam Rao Pankar including west side houses of Putrishala road to Gamphu Pawar at Pawar Chowk.
- South** - From house of Gamphu Pawar including with north side houses of Bhawani road to Dhanaram Lodhi.
- West** - From house of Dhanaram Lodhi including east side houses of soni road along south side houses of shiv road from manu nai crossing Kailash road to Ramesh Kisan pawar.

Ward No.11 Jawahar Ward (Population of Ward – 635)

- North** - From house of Sarawan Soni Including north side houses of Bhawani Sadak to house of Shyamlal Tejilal.
- East** - From house of Shyamlal Tejilal including west side house of sarkari Gali no.1 to Hanuman Temple of Nagdev Gali Bhattipura.
- South** - From Bhattipura Hanuman Temple including north side houses of Gandhi Road to Dashrath Namdev.
- West** - From house of Dashrath Namdev Including west side houses of Putli Gali east corner houses go Mogra Gali to Sarawan Soni.

Ward No.12 Rajendra Ward (Population of Ward – 792)

- North** - From house of Mehbub Ali including south side houses of Masjid Gali crossing Gandhi road & along south side houses of Shiv Sadak to Shankar Linemen.
- East** - From house of Shanker linemen including west side houses of soni road, crossing Bhawani road including west corner houses of Mogra Gali west corner houses of Putli Gali & south side house of Gandhi road, crossing sapna river to west corner of canel bridge.
- South** - From west corner of canel bridge to pillar no.8(Kha.No.69)
- West** - From Pillar No.8 (Kha.No.69) including south side of Bharkawadi road and south side houses of Masjid Gali to Mehbub Ali.

Ward No.13 Gandhi Ward (Population of Ward - 749)

- North** - From house of Sunderlal kumhar (Handpump) crossing Gandhi road including Prahlad Gupta Hotel bazaar chowk south east houses & south side houses of Bazar road to House of Gabru Rathore.
- East** - From Jain Mandir to including west corner houses of kailash road upto house of Babu rao Dhote.
- South** - From house of Babu rao Dhote including north side houses of shiv Sadak Crossing Gandhi road from masque to crossing Sapna river to pillar no.8 kha.no.69
- West** - From Pillar No.8 (Kha.No.69) to crossing Sapna river including south side houses of Harijan Gali to house of Sunderlal Kumhar.

Ward No.14 Azad Ward (Population of Ward – 641)

- North** – From Shiv Temple Chowkipura including south side houses of Tilak road to house of Ramanath Choudhari.
- East** – From house of Ramnath Choudhary including west side houses of choudhary Gali to house of Amrish Choudhary.
- South** – From house of Amrish Choudhary to north corner of school road crossing kailash road to west corner of kailash road via devendra kasar house to back side houses of basanta jain's house crossing opposite narendra soni house upto opposite arjun verma's house via north corner of bazaar sadak houses and north corner of Golandas upto Bisan Dhobi house.
- West** – From house of Bisan Dhobi including south side houses of cattle masket & east side corner houses of Kanji house Gali to shiv Temple Chowkipura.

Ward No.15 Ambedkar Ward (Population of Ward -781)

- North** – From pillar no.06(Kha.No.187/2) to west part corner of sapna river then crossing sapna river upto Chowkipura Shiv Temple.
- East** – From Shiv Temple including west side kanji house Gali along Old Vatinary Hospital Muncipal garage & south side houses of Golandaj road along Balaji temple & west side house of Gandhi road of behind of Nago Rao Seths house.
- South** – Behind house of Nago Rao including north side houses of Harijan Gali crossing Sapna river to pillar no.8(Kha.No.69)
- West** – From Pillar No.8(Kha.No.69) including Pillar no,7 (Kha.No.94) to pillar No.6(Kha.No.187/2).

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

TEJASWI S. NAIK, Collector.

दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 59, एफ 1-43/2020/18-3 कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रेषित नगर परिषद सिरमौर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 152/डूडा/2020, दिनांक 31-01-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास) जिला-रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्रमांक/...152...../डूडा/2020 :- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये मैं बसंत कुरें कलेक्टर रीवा एतद् द्वारा नगर परिषद सिरमौर के वार्डों का विस्तार (परसीमन) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

अनुसूची

स0क्र0	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	2	3
1	01	सरदार पटेल वार्ड
2	02	शास्त्री वार्ड
3	03	दयानन्द सरस्वती वार्ड
4	04	प्रेमचन्द्र वार्ड
5	05	विवेकानन्द वार्ड
6	06	मुखर्जी वार्ड
7	07	अंबेडकर वार्ड
8	08	दीनदयाल वार्ड
9	09	महाराणा वार्ड
10	10	गांधी वार्ड
11	11	जयप्रकाश वार्ड
12	12	भगत सिंह वार्ड
13	13	लोहिया वार्ड
14	14	सुभाष वार्ड
15	15	इंदिरा वार्ड

वार्डों की सीमाओं का विवरण

वार्ड क्र०	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड सीमा	
1	सरदार पटेल वार्ड	जनसंख्या-780	उत्तर	बरदहा जंगल का पहाड़ी क्षेत्र
			दक्षिण	डभौरा रोड से पश्चिम तरफ आदिवासी बस्ती की ओर जाने वाली रोड के उत्तरी साईड छात्रावास तक
			पूर्व	डभौरा रोड के किनारे रानी तालाब रोड तक
			पश्चिम	एमपीईबी कालोनी से नगर परिषद सीमा तक
2	शास्त्री वार्ड	जनसंख्या-747	उत्तर	डभौरा रोड पश्चिम तरफ वार्ड 1 की सीमा एवं रानी तालाब रोड के दक्षिण रानी मंदिर रोड तक
			दक्षिण	यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय तक एवं रानी मंदिर रोड के उत्तर
			पूर्व	डभौरा रोड के किनारे रानी तालाब रोड से रानी मंदिर रोड तक
			पश्चिम	वार्ड क्र. 1 के दक्षिणी साईड नगर परिषद सीमा तक
3	दयानन्द सरस्वती वार्ड	जनसंख्या-780	उत्तर	यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय के दक्षिण से हरिजन बस्ती रानी मंदिर रोड के दक्षिण तरफ
			दक्षिण	मेडरा नाला के उत्तर तरफ वार्ड 2 की सीमा तक
			पूर्व	मुसलमानन टोला बस्ती तक
			पश्चिम	डभौरा रोड से पश्चिम मेडरा नाला के उत्तर हरिजन बस्ती निकाय की सीमा तक
4	प्रेमचन्द्र वार्ड	जनसंख्या-675	उत्तर	देमान तालाब के उत्तर निकाय सीमा तक
			दक्षिण	मुसलमानन टोला वार्ड क्र 3 की सीमा तक
			पूर्व	रानी तालाब की सीमा तक
			पश्चिम	वार्ड क्र.6 की सीमा तक
5	विवेकानन्द वार्ड	जनसंख्या-762	उत्तर	निकाय की सीमा तक
			दक्षिण	वार्ड क्र. 4 की सीमा तक पश्चिम- डभौरा रोड के पूर्व
			पूर्व	वार्ड 4 की सीमा देमान तालाब के पश्चिम
			पश्चिम	डभौरा रोड के पूर्व
6	मुखर्जी वार्ड	जनसंख्या-762	उत्तर	कोहरा पहुच मार्ग से कररिया गाँव की सीमा तक
			दक्षिण	वार्ड क्र. 7 की उत्तरी सीमा
			पूर्व	कररिया ग्राम की पश्चिमी सीमा तक
			पश्चिम	वार्ड क्र. 4 एवं 7 की पूर्वी सीमा
7	अंबेडकर वार्ड	जनसंख्या-881	उत्तर	कछरा नाला के उत्तर से वार्ड क्र. 4 की दक्षिणी सीमा तक
			दक्षिण	छीरतालाब से प्रारंभ होकर क्योटी रोड की उत्तरी सीमा तक
			पूर्व	वार्ड क्र. 6 की पश्चिमी सीमा छीरतालाब तक
			पश्चिम	वार्ड क्र. 8 की पूर्वी सीमा
8	दीनदयाल वार्ड	जनसंख्या-880	उत्तर	कछरा नाला से प्रारंभ होकर पानी की बडी टंकी तक
			दक्षिण	श्री मनकामना पाण्डेय के माकान से रीवा चचाई रोड के उत्तर
			पूर्व	वार्ड क्र. 7 एवं 14 की पश्चिमी सीमा
			पश्चिम	हायरसेकण्ड्री स्कूल की पूर्वी वाउन्ड्री

9	महराणा वार्ड	जनसंख्या-749	उत्तर	डभौरा रोड की पुलिया से बोरिंग नं0 1 नाला की दक्षिणी सीमा
			दक्षिण	पानी की टंकी से डभौरा रोड तक
			पूर्व	सिरमौर डभौरा रोड
			पश्चिम	वार्ड नं0 10 की पूर्वी सीमा
10	गांधी वार्ड	जनसंख्या-884	उत्तर	कछरा नाला के उत्तरी सीमा
			दक्षिण	वार्ड नं0 12 की उत्तरी सीमा से मजिस्ट्रेटी पहुच मार्ग तक
			पूर्व	वार्ड नं0 9 की पश्चिमी सीमा
			पश्चिम	वार्ड नं0 11 की पूर्वी सीमा
11	जयप्रकाश वार्ड	जनसंख्या-1193	उत्तर	वार्ड नं0 3 दक्षिणी सीमा
			दक्षिण	वार्ड नं0 12 की उत्तरी सीमा
			पूर्व	वार्ड नं0 10 पश्चिमी सीमा
			पश्चिम	जंगल खुला क्षेत्र
12	भगत सिंह वार्ड	जनसंख्या-707	उत्तर	वार्ड नं0 11 की दक्षिणी सीमा
			दक्षिण	ग्राम पडरी की उत्तरी सीमा
			पूर्व	हायर सेकण्ड्री स्कूल की पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर म0नं0 1250 से 1251 तक
			पश्चिम	जंगल खुला क्षेत्र
13	लोहिया वार्ड	जनसंख्या-696	उत्तर	वार्ड नं0 14 की दक्षिणी सीमा
			दक्षिण	खरौली ग्राम की उत्तरी सीमा
			पूर्व	वार्ड नं0 14 और ग्राम सदहना की पश्चिमी सीमा
			पश्चिम	वार्ड नं0 12 पूर्वी सीमा तक
14	सुभाष वार्ड	जनसंख्या-675	उत्तर	सिरमौर क्योटी रोड के दक्षिण
			दक्षिण	खरौली ग्राम की उत्तरी सीमा
			पूर्व	वार्ड नं 15 की पश्चिमी सीमा
			पश्चिम	वार्ड क्र 8 और वार्ड नं0 13 की पूर्वी सीमा
15	इंदिरा वार्ड	जनसंख्या-707	उत्तर	सिरमौर क्योटी रोड से छीर तालाब तक
			दक्षिण	गोपी तालाब से खरौली गांव व सदहना ग्राम की उत्तरी सीमा
			पूर्व	छीर तालाब से गोपी तालाब
			पश्चिम	वार्ड क्र. 14 की पूर्वी सीमा

बसंत कुर्रे, कलेक्टर.

Rewa, the 31st January 2020

No. 152/Duda/2020 – In exercise of the powers conferred by Section 1 of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar palika adhiniyam, 1961 (No.-37 Year 1961) "1" Mr. Basant Kurre, Collector, Rewa Madhya Pradesh here by determine the extent of wards Nagar Parishad Sirmour, Rewa as Schedule below :-

Schedule

S.No.	Ward No.	Ward Name
1	2	3
1	01	Sardar Patel Ward
2	02	Shastri Ward
3	03	Dayanad Sarawati Ward
4	04	Premchandra Ward
5	05	Viveka Nand Ward
6	06	Mukharji Ward
7	07	Ambedkar ward
8	08	Deendayal Ward
9	09	Maharana Ward
10	10	Gandhi Ward
11	11	Jayprakash Ward
12	12	Bhagat Singh Ward
13	13	Lohiya Ward
14	14	Shubash Ward
15	15	Indra Ward

Description of the Boundaries of Wards

Ward No.	Ward Name	Ward Population	Ward Boundary	
1	Sardar Patel Ward	Population- &780	North	Bardaha Forestry Area Land
			South	Ward 2 Adiwashi Basti Road North Side
			East	Rani Talab Road
			West	Mpeb Colony Nagar Parishad Seema
2	Shastri Ward	Population- 747	North	Dhabaura Road West Side & Rani Talab Road South side
			South	YPS Mahavidyalay & Rani Mandir Road North Side
			East	Dhabhaura Road east side Rani Mandir Road
			West	Ward 1 South Side
3	Dayanad Sarawati Ward	Population- 780	North	YPS Mahavidyalay South Side Harijan Basti & Rani Mandir Road South Side
			South	Front North Sise of Medara Nala to Nagar Parishad Boundary
			East	Musalmanan Tola Basti
			West	Madara Nala North Side Nagar Parishad Bounday
4	Premchandra Ward	Population- 675	North	The South boundary of ward no 5
			South	From near ther boundary of ward no 03 and ward no 7
			East	From House of Shriniwas (H.N-313) to western boundary of ward no 6
			West	Sirmour Dabhaura Road
5	Viveka Nand Ward	Population- 762	North	From Northern boundary of Nagar Parishad to kohra link Road
			South	Northern boundary of ward no 4
			East	Western boundary of ward no 4
			West	Sirmour Dabhaura Road
6	Mukharji Ward	Population- 762	North	From Kohra Link road to boundary of village karariya
			South	Northern ward boundary of ward no 7
			East	Western boundary of Village Karariya
			West	East boundary of ward no 4 & ward no 7

7	Ambedkar ward	Population- 881	North	From South side of Lachhara Nalla to south boundary of ward no 4
			South	Starting of Chirr Talab to northern boundary of Kyoti Road
			East	Western boundary of ward no 6 to chhir Talab
			West	East boundary of ward no 8
8	Deendayal Ward	Population- 880	North	Starting from Kachhara nala to over head Tank
			South	From House of Mankamna Pandey to Northern side of Rewa Chachai Road
			East	Western boundary of ward no 7 & ward No 14
			West	Eastern boundary of H.S.S
9	Maharana Ward	Population- 749	North	Starting from Culvert of Dabhaura road to Boring no 1 and south boundary of nalla
			South	Near Over head Tank to Dabhaura Road
			East	Sirmour Dabhaura Road
			West	East boundary of ward no 10
10	Gandhi Ward	Population- 884	North	South boundary of Kachhara Nala
			South	Northern boundary of ward no 12 to Majistrati Link Road
			East	Western boundary of ward no 9
			West	East boundary of ward no 11
11	Jayprakash Ward	Population- 1193	North	South boundary of ward no 8
			South	Northern boundary of ward no 11
			East	Western boundary of ward no 10
			West	Open Forestry Area
12	Bhagat Singh Ward	Population- 707	North	South boundary of ward no 11
			South	Northern Boundary of Padari Village
			East	Starting From East boundary of H.S.S to House no 1250 to 1251
			West	Open Forestry Area
13	Lohiya Ward	Population- 696	North	South boundary of ward no 14
			South	Northern boundary of Vill. Kharauli
			East	Western boundary of ward no 1 & boundary of village Sadhana

			West	East boundary of ward no 12
14	Shubash Ward	Population- 675	North	South side of Sirmour Kyoti Road
			South	Northern boundary of village Kharauli
			East	Western boundary of ward no 15
			West	East boundary of ward no 8 & ward no 13
15	Indra Ward	Population- 707	North	From Sirmour Kyoti Road to Chhir Talab
			South	From Gopi Talab to Northern Boundary of Kharauli Village and Sadhana Village
			East	From Chhir Talab to Gopi Talab
			West	East boundary of ward no 14

BASANT KURRE, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 60, एफ 1-90/2019/18-3 कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रेषित नगर परिषद उमरिया के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 45/डूडा/2019-2020, दिनांक 03-02-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक/ 45 /डूडा/2019-20

उमरिया, दिनांक 03/02/2020

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 1961 सन् 37) की धारा की उपधारा 29(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मैं, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर, जिला उमरिया एतद् द्वारा, नगरपालिका परिषद उमरिया, जिला उमरिया के वार्डों का विस्तार नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

स.क्र. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	वार्ड का नाम (3)
1	1	रानी दुर्गावती वार्ड
2	2	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
3	3	संजय गांधी वार्ड
4	4	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड
5	5	शहीद भगत सिंह वार्ड
6	6	छत्रपति शिवाजी वार्ड
7	7	इंदिरा गांधी वार्ड
8	8	राजीव गांधी वार्ड
9	9	महावीर स्वामी वार्ड
10	10	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
11	11	पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
12	12	संत रविदास वार्ड
13	13	शहीद हेमू कालाणी वार्ड
14	14	महाराणा प्रताप वार्ड
15	15	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
16	16	बाबा फूलसिंह वार्ड
17	17	संत कबीर वार्ड
18	18	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
19	19	रानी आवंतीबाई लोधी वार्ड
20	20	महात्मा गांधी वार्ड
21	21	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
22	22	बिरसा मुण्डा वार्ड
23	23	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
24	24	मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड

वार्ड विभाजन प्रस्तावित वार्ड सीमा 2019-2020

क्रमांक/ 4-4 /डूडा/2019-20

उमरिया, दिनांक 03 /02/2020

वार्ड क्र .01 रानी दुर्गावती वार्ड -जनसंख्या)1391(

(छटन, लोहारगंज)

- उत्तर :- छटन टोला में छटन घाटी के कोना से पहाड़ी के नीचे होते हुये लोहारगंज में उमरार नदी तक ।
- पूर्व :- लोहारगंज में उमरार नदी से कच्चा नाला होते हुए मेन रोड एन .एच.43 तक ।
- दक्षिण :- एन .एच.43 पर कच्चे नाले के पास से छटन घाटी के कोने तक एन.एच.43 पर ।
- पश्चिम :- एन .एच.43 के पास छटन घाटी के कोना से छटन टोला के पास घाटी तक ।

वार्ड क्र .02 लालबहादुर शास्त्री वार्ड (1267-जनसंख्या)

(भंगहा, पीएस.टी., घंघरी तिराहा के पश्चिम की ओर नवीन कालोनी , सिविल लाईन्स)

- उत्तर :- एन .एच.43 पर छटन घाटी के कोने से एन .एच.43 होते हुए कच्चे नाले से होकर लोहारगंज में उमरार नदी से सम्पूर्ण भंगहा मोहल्ला के पीछे से उमरार नदी पर निर्मित रपटा होते हुए जमुना बाबू के मकान तक रीवा रोड ।
- पूर्व :- रीवा रोड पर जमुना बाबू के मकान से घंघरी नाका होते हुये घंघरी पुलिया तक।
- दक्षिण :- घंघरी पुलिया से उमरार नदी होते हुये रमेश द्रविदेदी के मकान से मिलान करते हुये आफिसर्स क्लब से कटनी रोड होते हुये नये बस स्टैंड के सामने से धावड़ा कालोनी के सामने कछरवार रोड तिराहा तक ।
- पश्चिम :- धावड़ा कालोनी के सामने कछरवार रोड तिराहा से पीली कोठी रोड होते हुये छटन घाटी के कोने पर एन .एच.43 तक ।

वार्ड क्र .03 संजय गांधी वार्ड -जनसंख्या)1376(

(लालपुर)

- उत्तर :- उमरार नदी के उपर रम्मू कोल के मकान से कच्चा नाला होते हुए एन.एच.43 तक ।
- पूर्व :- एन.एच.43 से अख्तर अली के मकान से शहडोल रोड की सीमा बनाते हुए जमुनिहा तिराहा तक ।
- दक्षिण :- जमुनिहा तिराहा के सामने से लालपुर रोड होते हुए लालपुर सामुदायिक भवन होते हुए प्राथमिक पाठशाला के सामने से होते हुए उमरार नदी पर पुलिया तक ।
- पश्चिम :- उमरार नदी पर फजिलगंज पुलिया से उमरार नदी होते हुए रम्मू कोल के मकान के पास से कच्चा नाला से होते हुए अख्तर अली के टायर दुकान के पास से एन .एच.43 तक ।

वार्ड क्र. 04 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड (जनसंख्या-1183)**(मोहनपुरी , फजिलगंज का अंशभाग , पुराना कलेक्ट्रेट कालोनी, थाना कोतवाली, नया बस स्टैंड)**

- उत्तर:- नया बस स्टैंड चैराहा से सर्किट हाउस होते हुए रमपुरी तिराहा तक ।
- पूर्व:- रमपुरी तिराहा से शेख मुन्ना वाईन्डिंग दुकान से होते हुए उमरार नदी पर राजेन्द्र कुशवाहा के मकान से उमरार नदी होते हुए नारायण सोनी के मकान से होते हुए शिवमंगल सिंह के मकान से संतोष दाहिया के घर होते हुए दुर्गा पण्डाल के सामने से नगरपालिका होते हुए रणविजय चौक तक ।
- दक्षिण - रणविजय चौक से कालरी स्कूल के बगल से कालरी पम्प हाउस तक।
- पश्चिम - कालरी पम्प हाउस से नया बस स्टैंड चैराहा तक ।

वार्ड क्र. 05 शहीद भगत सिंह वार्ड (जनसंख्या-1397)**(साई कालोनी, रमपुरी , सरईया)**

- उत्तर- रमेश द्विवेदी के मकान से कृषि भूमि होते हुए उमरार नदी होते हुए घंघरी पुलिया से रीवा रोड होते हुये अग्रसेन तिराहा तक।
- पूर्व- अग्रसेन तिराहा से अखतर अली के टायर दुकान के सामने से कच्चा नाला होते हुए रम्मू कोल के मकान होते हुए उमरार नदी पार कर राजेन्द्र कुशवाहा के मकान तक ।
- दक्षिण - उमरार नदी के पास राजेन्द्र कुशवाहा के मकान से शेख मुन्ना वाईन्डिंग दुकान से रमपुरी तिराहा होते हुए जेल बिल्डिंग के सामने से आफिसर्स क्लब तक ।
- पश्चिम - आफिसर्स क्लब से रमेश द्विवेदी के मकान तक ।

वार्ड क्र. 06 छत्रपति शिवाजी वार्ड (जनसंख्या-1371)**(फजिलगंज का अंशभाग, भट्टी मोहल्ला , शांतिमार्ग)**

- उत्तर - पुष्पराज सिंह के मकान से संतोष दाहिया के मकान के सामने से शिवमंगल सिंह के मकान के सामने होते हुए नारायण सोनी के मकान से उमरार नदी तक ।
- पूर्व - नारायण सोनी के मकान के पास उमरार नदी होते हुए हनुमान घाट से हौली घाट तक ।
- दक्षिण - हौली घाट से शांतिमार्ग पर राधे कृष्ण मंदिर के सामने से शांतिमार्ग होते हुए न्यायालय की बाउण्ड्री एवं रीवा रोड मिलान बिन्दु तक ।
- पश्चिम - शांति मार्ग एवं रीवा रोड की मिलान बिन्दु पर न्यायालय की बाउण्ड्री से रणविजय चौक होते हुये विसनदासानी पेट्रोल पम्प होते हुए उमरिया मोटर्स होते हुए पुष्पराज सिंह के मकान तक ।

वार्ड क्र. 07 इंदिरा गांधी वार्ड (जनसंख्या-1432)
(विनोवा मार्ग का अंशभाग, सिंधी कालोनी, गांधी चौक)

- उत्तर :-** डॉ जैन क्लीनिक से बाम्बे ब्यूटी जनरल स्टोर से विनोवा मार्ग होते हुए रामगोपाल सरावगी मकान से होते हुए रामबिहारी द्विवेदी के मकान तक ।
- पूर्व:-** रामबिहारी द्विवेदी के मकान से लाल गोदाम पाली रोड होते हुए राजेन्द्र भदौरिया के मकान तक ।
- दक्षिण :-** राजेन्द्र भदौरिया के मकान के सामने से रामचरण गुप्ता के मकान तक ।
- पश्चिम:-** रामचरण गुप्ता के मकान से खलेसर रोड होते हुए गांधी चौक होते हुए देवा सचदेव की दुकान होते हुए शांति मार्ग रोड पर डॉ जैन के क्लीनिक तक ।

वार्ड क्र. 08 राजीव गांधी वार्ड (जनसंख्या-1180)
(लालपुर का अंशभाग, प्रजापति मोहल्ला, संत वाल्मीक मोहल्ला, नैगवां टोला)

- उत्तर -** उमरार नदी पर फजिलगंज पुलिया से प्राथमिक शाला हरिजन मोहल्ला के सामने से लालपुर रोड होते हुए एन.एच. 43 तक ।
- पूर्व -** एन.एच. 43 पर जमुनिहा चौराहा से एन.एच. 43 की सीमा बनाते हुए वर्षा पेट्रोल पम्प के पास खलेसर तिराहा तक ।
- दक्षिण -** खलेसर तिराहा से पाली रोड होते हुए जयलाल राय के मकान से होते हुए उमरार नदी तक ।
- पश्चिम:-** उमरार नदी पर पाली ब्रिज से उमरार नदी होते हुए नैगवां टोला रपटा से उमरार नदी की सीमा बनाते हुए वाल्मीक मोहल्ला के पीछे से फजिलगंज पुलिया तक ।

वार्ड क्र. 09 महावीर स्वामी वार्ड (जनसंख्या-1193)
(शांतिमार्ग का अंशभाग, बहराधाम, पुराना पड़ाव का अंशभाग)

- उत्तर :-** शांतिमार्ग पर मक्खन मारवाड़ी के मकान से शांतिमार्ग होते हुए दुर्गा गुप्ता के सामने से हौली घाट तक ।
- पूर्व -** हौली घाट से उमरार नदी होते हुए नैगवां टोला रपटा तक ।
- दक्षिण -** नैगवां टोला रपटा से हिन्दी सिंधी स्कूल के सामने से मुनगा तिराहा तक ।
- पश्चिम:-** मुनगा तिराहा से मकरंद गुप्ता के मकान होते हुए विनोवा मार्ग में मस्तराम सोनी के मकान से होते हुए मक्खन मारवाड़ी के मकान तक ।

वार्ड क्र. 10 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (जनसंख्या-1398)
(पुराना पड़ाव एवं विनोवा मार्ग का अंशभाग)

- उत्तर:-** मनोहर वाधवानी के घर से हनुमान सेन के मकान होते हुए मुनगा तिराहा से बहादुर सिंह के मकान होते हुए उमरार नदी पर नैगवां टोला रपटा तक ।
- पूर्व:-** नैगवां टोला रपटा से उमरार नदी होते हुये तिलिनिया घाट से उमरार नदी की सीमा बनाते हुए पाली रोड में पुलिया के पास मंजू कचेर के मकान तक ।
- दक्षिण -** पाली रोड में पुलिया के पास मंजू कचेर के मकान से होते हुए पिंकी गुप्ता के मकान तक ।
- पश्चिम:-** पिंकी गुप्ता के मकान से होते हुए संतोष खरे के मकान से मनोहर वाधवानी के मकान तक ।

वार्ड क्र. 11 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड (जनसंख्या-1497)
(खलेसर पूर्वी भाग)

- उत्तर :-** टायर्स ब्रिज के पास दुर्गा मंदिर के सामने से पुष्पेन्द्र सिंह के दुकान से सी.सी.रोड होते हुए भूपेन्द्र सिंह के मकान से प्रमोद द्विवेदी के मकान तक ।
- पूर्व:-** खलेसर मैदान के पास प्रमोद द्विवेदी के मकान से शेख जावीर का मकान होते हुए नारायण दुबे के मकान से होते हुए बृजकिशोर तिवारी के मकान से गणेश तिवारी के मकान से होते हुए शिवमंदिर के सामने से महरोई रोड रेल्वे फाटक तक ।
- दक्षिण :-** महरोई रेल्वे फाटक से रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए उमरार नदी रेल्वे पुल तक ।
- पश्चिम:-** रेल्वे पुल से उमरार नदी होते हुए टायर्स ब्रिज दुर्गा मंदिर तक ।

वार्ड क्र. 12 संतरविदास वार्ड (जनसंख्या-1281)
(खलेसर उत्तरी भाग एवं हरिजन मोहल्ला)

- उत्तर :-** टायर्स ब्रिज उमरार नदी से पाली रोड पुलिया से होते हुए जी.एल. होण्डा एजेंसी के सामने से खलेसर तिराहा तक ।
- पूर्व :-** खलेसर तिराहा से शहडोल रोड होते हुए नहर तक ।
- दक्षिण :-** शहडोल रोड पर महिन्द्रा ट्रैक्टर एजेंसी के आंगे नहर की सीमा बनाते हुए रेल्वे लाईन तक , रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए महरोई फाटक तक ।
- पश्चिम:-** महरोई फाटक से महरोई रोड होते हुए शिवमंदिर के सामने से गणेश तिवारी के घर के सामने से होते हुए बृजकिशोर तिवारी के मकान से नारायण दुबे के मकान के सामने से होते हुए शेख जावीर के मकान के सामने से खलेसर स्कूल के पास प्रमोद द्विवेदी के मकान के सामने से भूपेन्द्र सिंह के मकान के सामने से पुष्पेन्द्र सिंह की दुकान के सामने से होते हुए हनुमान मंदिर टायर्स ब्रिज तक ।

वार्ड क्र. 13 शहीद हेमू कालाणी वार्ड (जनसंख्या-1305)**(कणिका विहार , जवाहर चपहा कालोनी)**

- उत्तर :- एन.एच. 43 पर नहर से शहडोल रोड होते हुए जवाहर चपहा कालोनी होते हुए चपहा नाला तक ।
- पूर्व :- शहडोल रोड पर चपहा नाला की पुलिया से चपहा नाला की सीमा बनाते हुए किरनताल रोड पर रेल्वे अण्डर ब्रिज तक ।
- दक्षिण :- किरनताल रोड पर रेल्वे अण्डर ब्रिज से रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए उमरार नहर की रेल्वे क्रासिंग तक।
- पश्चिम:- उमरार नहर की रेल्वे क्रासिंग से नहर की सीमा बनाते हुए राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से होते हुए एन.एच. 43 शहडोल रोड तक ।

वार्ड क्र. 14 महाराणा प्रताप वार्ड (जनसंख्या-1269)**(चपहा कालरी , अर्जुन नगर , जमुनिहा एवं घंघरी का अंशभाग)**

- उत्तर :- ताला रोड पर सुंदरलाल बर्मन मकान से नहर पार करते हुए कृषि भूमि होते हुए जमुनिहा में छक्कू कुशवाहा के मकान तक ।
- पूर्व :- छक्कू कुशवाहा के मकान के सामने से जमुनिहा मोहल्ला के पीछे से होते हुए कृषि भूमि होते हुए विनायक टाउन के बगल से अजय सिंह के मकान होते हुए एन.एच. 43 तक।
- दक्षिण :- एन.एच. 43 पर चपहा नाला की क्रासिंग से शहडोल रोड होते हुए खलेसर तिराहा तक ।
- पश्चिम:- खलेसर तिराहा से एन.एच. 43 पर आनंदम भवन होत हुए भवानी पेट्रोल पम्प के सामने से अग्रसेन चौक होते हुए ताला रोड पर सुंदरलाल बर्मन के मकान तक ।

वार्ड क्र. 15 - डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड (जनसंख्या-1569)**(कैम्प का अंशभाग , टाकिज के पीछे का मोहल्ला)**

- उत्तर :- टीकाराम राय की दुकान से मूलचंद गुप्ता के मकान होते हुए मोहन वाँच कम्पनी दुकान के सामने से शिव टाकीज रोड होते हुए कन्या कैम्प स्कूल की बाउण्ड्री से जनदुनिया प्रेस के सामने से होते हुए समदरिया ऑटो पार्ट्स दुकान के सामने से गांधी चौक के स्टेट बैंक एटीएम तक।
- पूर्व :- समदरिया ऑटो पार्ट्स के दुकान के सामने से होते हुए उमरार नदी टायर्स ब्रिज तक ।
- दक्षिण :- टायर्स ब्रिज से उमरार नदी होते हुए नाला और नदी के मिलान बिन्दु तक ।
- पश्चिम:- उमरार नदी एवं नाले से मिलान बिन्दु से बल्ला विश्वकर्मा के मकान से होते हुए भगवानदीन कोल (कराटे) के मकान से लतीफ के मकान से होते हुए छोटी मस्जिद के सामने से होते हुए अफसर अली के मकान के सामने से होते हुए सुधा द्विवेदी के मकान होते हुए टीकाराम राय की दुकान तक ।

वार्ड क्र. 16 - बाबा फूलसिंह वार्ड (जनसंख्या-1573)

(कैम्प का अंशभाग, झिरिया मोहल्ला का अंशभाग)

- उत्तर :-** के.के.गुप्ता की दुकान से स्टेशन रोड पर मनमौजी स्वीट्स होते हुए वाहीद बाबू के घर तक ।
- पूर्व :-** वाहीद बाबू के मकान से होते हुए सुधा द्विवेदी के मकान से अफसर अली के मकान से छोटी मस्जिद होते हुए लतीफ खान के घर के सामने से भगवादीन कोल (कराटे) के मकान से होते हुए बल्ला विश्वकर्मा के मकान के सामने से नाला होते हुए उमरार नदी के मिलान बिन्दु तक ।
- दक्षिण :-** उमरार नदी के मिलान बिन्दु से होते हुए उमरार नदी की सीमा बनाते हुए शिवमंदिर तक।
- पश्चिम :-** शिवमंदिर से उमरार नदी पर शिवमंदिर से जगदीश मिश्रा के मकान से होते हुए छोटेलाल साँधिया के मकान से होते हुए हनुमान मंदिर होते हुए गंगा केवट के मकान से होते हुए डॉ ऋषि के मकान से ममता गुप्ता के मकान से होते हुए राजेश मिश्रा कम्पाउण्डर के मकान से होते हुए के.के.गुप्ता के मकान तक ।

वार्ड क्र. 17 संतकबीर वार्ड (जनसंख्या-1470)

(झिरिया मोहल्ला का अंशभाग, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, न्यू ज्वालामुखी कॉलोनी और कोलान बस्ती का अंशभाग)

- उत्तर: -** ज्वालामुखी तिराहा स्टेशन रोड होते हुए जयस्तम्भ के पास एल.आई.आफिस से राजेश मिश्रा के घर के सामने से होते हुए ममता गुप्ता के घर के सामने से होते हुए डॉ ऋषि के घर के सामने से गंगाराम केवट के मकान के सामने से होते हुए हनुमान मंदिर से होते हुए छोटेलाल साँधिया के मकान से होते हुए जगदीश मिश्रा के मकान से होते हुए उमरार नदी पर शिवमंदिर तक ।
- पूर्व: -** उमरार नदी पर शिवमंदिर से उमरार नदी की सीमा बनाते हुए रेल्वे अण्डर ब्रिज तक।
- दक्षिण -** रेल्वे लाईन अण्डर ब्रिज से उमरार नदी की सीमा बनाते हुए ज्वालामुखी नाला एवं उमरार नदी के मिलान बिन्दु से होते हुए ज्वालामुखी मंदिर के सामने पुलिया तक ।
- पश्चिम -** ज्वालामुखी मंदिर के सामने पुलिया से ज्वालामुखी रोड होते हुए पुराना रेल्वे फाटक होते हुए ज्वालामुखी तिराहा स्टेशन रोड तक ।

वार्ड क्र. 18 - डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (जनसंख्या-1365)

(ज्वालामुखी मोहल्ले के कोलान क्षेत्र का अंशभाग, डे-कालोनी, आर्दश कालोनी, झाड़ू मोहल्ला, विकटगंज का अंशभाग)

- उत्तर: -** रेल्वे स्टेशन के सामने से रेल्वे फिल्टर प्लांट होते हुए रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए ज्वालामुखी गेट तक ।
- पूर्व -** ज्वालामुखी गेट से ज्वालामुखी रोड होते हुए ज्वालामुखी मंदिर के सामने पुलिया तक।
- दक्षिण -** ज्वालामुखी मंदिर के सामने पुलिया से ज्वालामुखी नाला की सीमा बनाते हुए झाड़ू मोहल्ला के पीछे पी.एन.राव का मकान होते हुए कृषि भूमि होते हुए कोयलारी तिराहा तक ।
- पश्चिम -** कोयलारी तिराहा से शहपुरा रोड की सीमा बनाते हुए वन विभाग के नाका के पास से विजय बैगा के मकान के सामने से होते हुए रमेश बारी के मकान से अनुप सिंह की चक्की होते हुए गांधी पार्क के सामने से अचल अग्रवाल के मकान के सामने से होते हुए रेल्वे स्टेशन के मिलान बिन्दु तक ।

वार्ड क्र. 19 – रानी आवंतीबाई लोधी वार्ड (जनसंख्या-1569)
(विकटगंज का अंशभाग)

- उत्तर :-** सिंगलटोला फाटक से रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए रेल्वे स्टेशन के सामने विकटगंज रोड तक ।
- पूर्व :-** रेल्वे स्टेशन के सामने विकटगंज रोड से अचल अग्रवाल के मकान के सामने से गांधी पार्क होते हुए अनुप सिंह की चक्की होते हुए रमेश बारी के मकान होते हुए विजय बैगा के मकान होते हुए शहपुरा रोड पर फारेस्ट बैरियर से शहपुरा रोड की सीमा बनाते हुए कोयलारी तिराहा तक ।
- दक्षिण :-** कोयलारी तिराहा से कृषि विज्ञान केन्द्र आफिस के पीछे तक ।
- पश्चिम :-** कृषि विज्ञान केन्द्र आफिस से बनिया तालाब ग्राम चंदवार की सीमा बनाते हुए अरविन्द वंसल के बाड़े से चंदवार मोड़ होते हुए सिंगलटोला फाटक तक ।

वार्ड क्र. 20 महात्मा गांधी वार्ड (जनसंख्या-1560)
(सिंगलटोला, वन विकास निगम, रेलवे कालोनी)

- उत्तर :-** बरतिया तालाब से रानी दुर्गावती चौक तक ।
- पूर्व :-** रानी दुर्गावती चौराहा से रेल्वे स्टेशन की ओर मुख्य मार्ग होते हुए रेल्वे ग्राउण्ड रामलीला स्टेज के पीछे तक ।
- दक्षिण :-** रेल्वे ग्राउण्ड रामलीला स्टेज के पीछे से राजेश अग्रवाल के मकान के सामने से गुलजारी नन्दा के मकान से रेल्वे लाईन की सीमा बनाते हुए सिंगलटोला फाटक के आगे रेल्वे सिग्नल तक ।
- पश्चिम :-** सिंगलटोला फाटक के आगे रेल्वे सिग्नल के पास से कटनी रोड बरतिया तालाब तक ।

वार्ड क्र. 21 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड (जनसंख्या-1518)
(धावड़ा कालोनी, सुभाषगंज का अंशभाग, रिजर्व फारेस्ट कालोनी)

- उत्तर :-** धावड़ा कालोनी के पास कछरवार मोड़ से शहडोल रोड की सीमा बनाते हुए बी.एस.एन.एल. आफिस तक ।
- पूर्व :-** बी.एस.एन.एल. आफिस से कालरी पम्प हाउस तक ।
- दक्षिण :-** कालरी पम्प हाउस से आगम सिंह के मकान होते हुए सुदामा सेन के मकान तक ।
- पश्चिम :-** सुदामा सेन के मकान से सगरा मंदिर रोड की सीमा बनाते हुए सगरा मंदिर तिराहा से होते हुए शहडोल रोड की सीमा बनाते हुए कछरवार रोड तिराहा तक ।

वार्ड क्र. 22 बिरसा मुण्डा वार्ड (जनसंख्या-1422)**(09 नम्बर कालोनी , सागर पेशा , सुभाषगंज का अंशभाग)**

- उत्तर :- कालरी पम्प हाउस से होते हुए कालरी स्कूल के सामने से होते हुए कृषि उपज मण्डी दुकान के सामने तक ।
- पूर्व :- कृषि उपज मण्डी दुकान के सामने से रणविजय चौक तक ।
- दक्षिण :- रणविजय चौक से पुराना कलेक्टर बंगला होते हुए पुराना पी.डब्ल्यू.डी रेस्ट हाउस होते हुए परियोजना आफिस होते हुए हास्पिटल तिराहा तक ।
- पश्चिम :- हास्पिटल तिराहा से सुभाषगंज प्राथमिक शाला होते हुए बल्ला डीजे के मकान से अरविन्द रोहणी के मकान होते हुए कालरी पम्प हाउस तक ।

वार्ड क्र. 23 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (जनसंख्या-1226)**(अस्पताल, बाजार एरिया, स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैण्ड, शारदा कालोनी अंशभाग)**

- उत्तर :- पुष्पा सिस्टर के मकान से सरमन कोरी के मकान होते हुए जिला चिकित्सालय के गेट होते हुए स्टेडियम की बाउण्ड्री होते हुए चिल्ड्रेन पार्क की बाउण्ड्री होते हुए रणविजय चौक तक ।
- पूर्व :- गांधी चौक के स्टेट बैंक एटीएम से समदरिया ऑटो पार्ट्स के दुकान के सामने से होते हुए जनदुनिया प्रेस के सामने से होते हुए कन्या कैम्प बाउण्ड्री से मोहन वॉच कम्पनी के दुकान तक ।
- दक्षिण :- मोहन वॉच कम्पनी के दुकान से स्टेशन रोड की सीमा बनाते हुए जयस्तम्भ तिराहा होते हुए पुराना बस स्टैण्ड में दिल्लू पान दुकान तक ।
- पश्चिम :- पुराना बस स्टैण्ड में दिल्लू पान दुकान से होते हुए अशोक सोनी के मकान होते हुए प्रदीप पाण्डे के मकान होते हुए पुष्पा सिस्टर के मकान तक ।

वार्ड क्र. 24 मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड (जनसंख्या-1302)**(शारदा कालोनी का अंशभाग , फारेस्ट कालोनी , सगरा मंदिर , पीली कोठी)**

- उत्तर :- पीली कोठी के आगे से नगरपालिका की अंतिम सीमा कच्चा रास्ता के मिलान बिन्दु आंगे से आर.सी.स्कूल होते हुए धावड़ा कालोनी के सामने कछरवार तिराहा से सगरा चौराहा से सगरा रोड से होते हुए पुष्पा सिस्टर के मकान के सामने तक ।
- पूर्व :- पुष्पा सिस्टर के मकान के सामने से होते हुए इंद्र कुमार पाण्डे के मकान से मानसिंह के मकान से पुराना बस स्टैण्ड में आनंदम स्थल से होते हुए पुराना ज्वालामुखी फाटक तक ।
- दक्षिण :- पुराने ज्वालामुखी फाटक से रेल्वेलाइन की सीमा बनाते हुए रेल्वे स्टेशन होते हुए रेल्वे केबिन तक ।
- पश्चिम :- रेल्वे केबिन से गुलजारी नन्दा के मकान से होते हुए राजेश अग्रवाल के मकान के सामने से रेल्वे ग्राउण्ड रामलीला स्टेज के पीछे से स्टेशन रोड होते रानी दुर्गावती चौराहा से कटनी रोड होते हुए ढोलबजा तालाब से आरक्षित वनभूमि होते हुए पीली कोठी के आंगे नगरपालिका की अंतिम सीमा कच्चा रास्ता के मिलान बिन्दु तक ।

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर.

No. / 45 / DUDA/2019-20

Date: 03/02/2020

in exercise of the powers conferred by section 1 of section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No. 37, year 1961) "I" Shree Swaroachish Somavanshi, Collector, Umariya, Madhya Pradesh here by determine the extent of Wards Nagar Palika Parishad Umariya, Distt. Umariya as Schedule below:-

SCHEDULE

S.no. (1)	Ward No.(2)	Ward Name (3)
1	1	Rani Durgavati Ward
2	2	Lal Bahadur Shastri Ward
3	3	Sanjay Gandhi Ward
4	4	A.P.J. Abdul Kalam Ward
5	5	Shaheed Bhagat Singh Ward
6	6	Chhatrapati Shivaji Ward
7	7	Indira Gandhi Ward
8	8	Rajiv Gandhi Ward
9	9	Mahavir Swami Ward
10	10	Pandit Deendayal Upadhyay Ward
11	11	Pandit Jawaharlal Nehru Ward
12	12	Santravidas Ward
13	13	Shaheed Hemu Kalani Ward
14	14	Maharana Pratap Ward
15	15	Dr. Shyamaprasad Mukherjee Ward
16	16	Baba Phool Singh Ward
17	17	Sant kabir Ward
18	18	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
19	19	Rani Avantibai Lodhi Ward
20	20	Mahatma Gandhi Ward
21	21	Dr. Ram Manohar Lohia Ward
22	22	Birsa Munda Ward
23	23	Chandrashekhar Azad Ward
24	24	Maulana Abul Kalam Azad Ward

NO./ 44 /DUDA/2019-20

Date 03/02/2020

**Ward no. 01 Rani Durgavati Ward (Population -1391)
(Chhatan, Loharganj)**

- North : - From the corner of Chhatan valley in Chhatan Tola, down the hill to Umarr river in Loharganj.
- Eastern: - Main road N.H. via Lochganj to Kutch nallah from Umrar river. Up to 43.
- South: - N.H. On NH 43 to the corner of Chhatan valley from near the ravine.
- West: - N.H. 43 from the corner of Chhatan Valley to the valley near Chhatan Tola.

**Ward no. 02 Lal Bahadur Shastri Ward (Population-1267)
(Bhangaha, PTS, Naveen Colony, Civil Lines, west of Ghaghri Tiraha)**

- North: - N.H. From the corner of Chhatan Valley on 43 N.H. Rewa Road via Jamta Babu via the Kutcha Nalla through 43 to the house of Jamuna Babu via the Rampa built on the Umarr river from the back of the entire Bhangaha Mohalla.
- East: - From Jamuna Babu's house on Rewa Road to Ghaghri Pulia via Ghaghri Naka.
- South: - From Ghaghri Pulia, via Umrar River, matching Ramesh Dwivedi's house, from Officers Club to Katni Road, from the front of the new bus stand to Kachharwar Road Tiraha in front of Dhawara Colony.
- West: - NH at the corner of Chhatan Valley in front of Dhawra Colony via Kachharwar Road, Tiraha to Yellow Kothi Road. Up to 43.

**Ward no. 03 Sanjay Gandhi Ward (Population-1376)
(Lalpur)**

- North: - From Rhamu Kol's house on Umarr river to NH 43 via Kachha Nala.
- East: - From NH 43, Akhtar Ali's house forming the boundary of Shahdol Road to Jamuniha Tiraha.
- South: - Opposite Jamuniha Tiraha via Lalpur Road to Lalpur Community Building, in front of Primary School to Puliya on Umrar River.
- West: - From Fazilganj bridge on Umarr river via Umarr river, near Rammu kol's house via Kachha nala, near Akhtar Ali's tire shop, N.H. Up to 43.

Ward no. 04 A.P.J. Abdul Kalam Ward (Population-1183)
(Mohanpuri, Fazilganj portion, Old Collectorate Colony, Thana Kotwali,
New Bus Stand)

- North - New bus stand from Charaha to Rampuri Tiraha via Circuit House.
 East - From Rampuri Tiraha via Sheikh Munna Wyndig shop, from Rajendra Kushwaha's house on Umrar river, via Umra river, from Narayan Soni's house, via Shivamangal Singh's house, to Santosh Dahiya's house, to Durga pandal Till Rannvijay Chowk.
 South - Rannvijay Chowk to Kalri Pump House next to Kalari School.
 West - Kalari Pump House to New Bus Stand Charaha.

Ward no. 05 Shaheed Bhagat Singh Ward (Population-1397)
(Sai Colony, Rampuri, Saraiya)

- North - From the house of Ramesh Dadhivedi, through agricultural land, Umghr river via Ghaghri culvert to Agrasen tiraha via Rewa road.
 East - From Agrasen Tiraha, in front of Akhtar Ali's tire shop, crossing the river Umrah crossing the raw water stream to the house of Rajendra Kushwaha.
 South - From the house of Rajendra Kushwaha near Umarar river, from Sheikh Munna Wyndig shop to Rampuri Tiraha, from front of jail building to Officers Club
 West - From Officers Club to Ramesh Divedivedi's house.

Ward no. 06 Chhatrapati Shivaji Ward (Population-1371)
(Part of Fazilganj, Bhatti Mohalla, Shantimarg)

- North - From Pushparaj Singh's house in front of Santosh Dahiya's house to the front of Shivamangal Singh's house, from Narayan Soni's house to the Umrar river.
 East - Hanuman Ghat to Hawali Ghat near the house of Narayan Soni via Umrar river.
 South - From Hauley Ghat to Shantimarg in front of Radhe Krishna Temple, from Shanti Marg to Boundary and Rewa road to Milan point.
 West - From the court boundary at the Milan point of Shanti Marg and Rewa Road, via Ranvijay Chowk to Visnadasani Petrol Pump via Umara Motors to Pushpraj Singh's house.

Ward no. 07 Indira Gandhi Ward (Population-1432)
(Part of Vinova Marg, Sindhi Colony, Gandhi Chowk)

- North: - From the Daina Jain Clinic, from the Bombay Beauty General Store to Vinova Marg, via the Ram Gopal Saravagi house to the house of Rambihari Dadhivedi.
- East: - From Rambihari Dadhwedi's house to Lal Bhandar Pali Road to Rajendra Bhadoria's house.
- South: - From the house of Rajendra Bhadoria to the house of Ramcharan Gupta.
- West: - From Ramcharan Gupta's house via Khalesar road to Gandhi Chowk via Deva Sachdev's shop to Daina Jain's clinic on Shanti Marg Road.

Ward no. 08 Rajiv Gandhi Ward (Population-1180)
(Part of Lalpur, Prajapati Mohalla, Sant Valmik Mohalla, Naigawan Tola)

- North: From Fazilganj bridge on the Umrar river, in front of the primary school Harijan Mohalla, via Lalpur road, N.H. Up to 43.
- East - N.H. 43 from Jamuniha intersection to N.H. 43 up to Khalesar Tiraha near Varsha Petrol Pump.
- South - Khalesar Tiraha to Pali Road via Jayalal Rai's house to Umrar river.
- West: - Pali Bridge on Umarr River via Umrar River to Nagwan Tola Rapta forming the boundary of Umrar River from behind Valmik Mohalla to Fazilganj Puliya.

Ward no. 09 Mahavir Swami Ward (Population-1193)
(Part of Shantimarg, Behradham, Old stop portion)

- North: On the Shantimarga, from the house of Butter Mahwadi, going to Shantimarg, Durga Gupt From front to Hawali Ghat.
- East - From Hawali Ghat to Umwan Tola Rapta via Umrar River.
- South - from Nagwan Tola Rapata in front of Hindi Sindhi School to Munga Tiraha.
- West: - From Munga Tiraha to Makrand Gupta's house, via the house of Mastram Soni in Vinova Marg to the house of Butter Maarwadi.

Ward no. 10 Pandit Deendayal Upadhyay Ward (Population-1398)
(Old stop and portion of Vinova route)

- North:** From the house of Manohar Wadhwani to the house of Hanuman Sen, from Munga Tiraha to the house of Bahadur Singh, to the Nagwan Tola Rapata on the Umrar River.
- East -** from Nagwan Tola Rapata via Umrar River from Tilinia Ghat to the house of Manju Kacher near Pulia in Pali Road forming the boundary of Umrar River.
- South-** From Manju Kacher's house near Pulia in south-Pali road to Pinki Gupta's house.
- West: -** Through Pinki Gupta's house, from Santosh Khare's house to Manohar Wadhwani's house.

Ward no. 11 Pandit Jawaharlal Nehru Ward (Population-1497)
(Khalesar eastern part)

- North: -** From Pushpendra Singh's shop in front of Durga temple near Tires Bridge, from Bhupinder Singh's house to Pramod Dwivedi's house via CC road.
- East: -** From the house of Pramod Dadhwedi near the Khalesar Maidan, through the house of Sheikh Javir, through the house of Narayan Dubey, from the house of Brajkishore Tiwari, through the house of Ganesh Tiwari, from the front of Shiv Mandir to the Mahroi Road railway gate.
- South: -** From the Mahroi railway gate to the Umra river railway bridge, forming the boundary of the railway line.
- West: -** From railway bridge to Tires Bridge Durga temple via Umrar river.

Ward no. 12 Santravidas Ward (Population-1281)
(Khalesar North Part and Harijan Mohalla)

- North: -** GL via Tires Bridge via Umri river to Pali Road culvert. From the front of Honda Agency to Khalesar Tiraha.
- East: -** Khalesar Tiraha to Shahdol Road to Canal.
- South: -** On the Shahdol Road to the railway line forming the boundary of the Mahindra Tractor Agency, to the railway line, to the Mahroi Gate, forming the boundary of the railway line.
- West: -** Pranod Dwivedi near Khalsar School, in front of Sheikh Javir's house, in front of Brijkishore Tiwari's house, in front of Ganesh Tiwari's house, in front of Shiv Mandir, in front of Shiv Mandir, from Maharoi gate to Mahroi road. From the front of the house of Bhupendra Singh's house to the front of Pushpendra Singh's shop, to the Hanuman Temple Tires Bridge.

**Ward no. 13 Shaheed Hemu Kalani Ward (Population-1305)
(Kanika Vihar, Jawahar Chapha Colony)**

- North: -** N.H. 43 on the canal through Shahdol Road to Jawahar Chapha Colony and to Chapha Nala.
- East: -** From the bridge of Chapha Nala on Shahdol Road to the Railway Under Bridge on Kiranatal Road forming the boundary of Chapha Nala.
- South: -** From the railway under bridge on the Kiranatal road to the railway crossing of the Umrar Canal, forming the boundary of the railway line.
- West: -** Through the crossing of the Umra Canal, crossing the canal, through the front of Radha Swami Satsang Bhawan, N.H. 43 to Shahdol Road.

**Ward no. 14 Maharana Pratap Ward (Population-1269)
(Chapha Kalari, Arjun Nagar, Jamuniha and
Ghaghri divisions)**

- North: -** From Sunderlal Burman house on Tala road crossing the canal through agricultural land to the house of Chakku Kushwaha in Jamuniha.
- East: -** From the front of the house of Chakku Kushwaha, through the back of Jamuniha Mohalla, through agricultural land, next to Vinayak Town, Ajay Singh's house is passing through N.H. Up to 43 .
- South: -** N.H. On the crossing of Chapha Nala on 43 to Khalesar Tiraha via Shahdol Road.
- West: -** Khalesar Tiraha to N.H. At 43, Anandam Bhawan takes place in front of Bhavani Petrol Pump from Agrasen Chowk to the house of Sunderlal Burman on Tala Road.

**Ward no. 15 - Dr. Shyamaprasad Mukherjee Ward (Population-1569)
(Part of the camp, the locality behind the talkies)**

- North: -** State Bank of Gandhi Chowk in front of Samdariya Auto Parts shop, in front of Janduniya Press, through the boundary of Kanya Camp School , via Shiv Mohammad Watch Company's shop, in front of Moolchand Gupta's house from Tikaram Rai shop To ATM.
- East: -** From the front of Samdariya Auto Parts shop to Umrar River Tires Bridge.
- South: -** Tires Bridge to Nala via Umrar river and Milan point of the river.
- West: -** Sudha Dwivedi, from the front of the small mosque, from the front of the small mosque, through the house of Bhagwadin Kol (Karate), from the house of Bat Vishwakarma, from Milan point, through the Umrar river and drain, to the front of the small mosque. To Tikaram Rai's shop via the house.

Ward no. 16 - Baba Phool Singh Ward (Population-1573)**(Part of camp, part of Jhiriya Mohalla)**

- North: -** From KK Gupta's shop to the house of Wahid Babu via Manmoji Sweats on Station Road.
- East: -** From the house of Wahid Babu, from the house of Sudha Dwivedi, from the house of Officer Ali, through the small mosque, from the front of Latif Khan's house, the bat from the house of Bhagwadin Kol (Karate) would have been the drain from the house of Vishwakarma. Till Milan point of Umrah river.
- South: -** via the Milan point of the Umrar River, forming the boundary of the Umrar River to Shivmandir.
- West: -** Rajesh Mishra Compounder through the house of Dr. Rishi, from the house of Dr. Rishi, through the house of Ganga Kewat, through the house of Chhotalal Sondhiya, through the house of Jagdish Mishra, from the temple of Shiv Mandir to the temple of Umrah on the river Umrah Through the house of K.K. Gupta's house.

Ward no. 17 Santakbir Ward (Population-1470)**(Part of Jhiria Mohalla, Housing Board Colony, New Volcano colony and Colgan Basti part)**

- North: -** Through the front of the house of Rajesh Mishra from LI Office near Jaistambh via Jawalamukhi Tiraha Station Road, in front of the house of Dr. Rishi, from the front of the house of Gangaram Kewat, in front of the house of Dr. Rishi Passing through the Hanuman temple, through the house of Chhotalal Sondhiya, through the house of Jagdish Mishra, to the Shiv temple on the Umrar river.
- East: -** From Shivamandir on the Umrar River to the Railway Under Bridge forming the boundary of the Umrar River.
- South -** From the railway line Andr Bridge to the bridge in front of the Jwalamukhi temple, passing through the Jwalamukhi drain and the Milan point of the Umrar river, forming the boundary of the Umrar river.
- West -** In front of Jwalamukhi Temple, from Pulia to Jawalamukhi Road via Jawalamukhi Road to Jawalamukhi Tiraha Station Road.

Ward no. 18 - Dr. Bhimrao Ambedkar Ward (Population-1365)**(Part of the colon region of Jwalamukhi Mohalla, De-colony, Ardash colony, Broom mohalla, Vikatganj portion)**

- North:** From the front of the railway station through the railway filter plant to the volcano gate forming the boundary of the railway line.
- East -** From Jwalamukhi Gate via Jwalamukhi Road to Puliya opposite Jwalamukhi Temple.
- South-** In front of Jwalamukhi temple, from Pulia, border of Jawalamukhi Nala, past PN brooms house of broom mohalla, through agricultural land to Koyalari Tiraha.
- West -** From the front of Vijay Baiga's house near the Naka of the Forest Department, forming the boundary of Koelari Tiraha to Shahpura Road, passing from the house of Ramesh Bari to the wheel of Anup Singh from the front of Gandhi Park to the front of the house of Achal Aggarwal Through to the matching point of the railway station.

**Ward no. 19 - Rani Avantibai Lodhi Ward (Population-1569)
(Part of Vikatganj)**

- North: -** From Singaltola gate to Vikatganj road in front of the railway station forming the boundary of the railway line.
- East: -** From Vikatganj Road in front of railway station, in front of the house of Achal Agarwal, passing through Gandhi Park, passing through Anup Singh's trough, making Ramesh Bari's house, Vijay Baiga's house and making the boundary of Forest Barrier to Shahpura Road on Shahpura Road. Till the Koyaliari tiraha.
- South: -** From the Koyaliari tiraha to the back of the Agricultural Science Center Office.
- West: -** From the Krishi Vigyan Kendra office to the Baniya Talab village Chandwar, the boundary of Arvind Vansal to the Singatola gate via Chandwar mode.

**Ward no. 20 Mahatma Gandhi Ward (Population-1560)
(Singatola, Forest Development Corporation, Railway Colony)**

- North: -** From Baratia Talab to Rani Durgavati Chowk.
- East: -** From the Rani Durgavati intersection to the rear of the railway ground Ramlila stage via the main road towards the railway station.
- South: -** From the rear of the railway ground Ramlila stage, in front of the house of Rajesh Agarwal, from the house of Gulzari Nanda to the railway signal of the Singaltola gate, forming the boundary of the railway line.
- West: -** From Singalola Gate to Ainge Railway Singnal near Katni Road to Baratia Talab.

**Ward no. 21 da. Ram Manohar Lohia Ward (Population-1518)
(Dhavada Colony, Subhashganj portion, Rejarva Forest Colony)**

- North: -** BSNL forming border of Shahdol Road from Kachharwar diversion near Dhavada Colony. To the office.
- East: -** BSNL From office to Kalari Pump House.
- South: -** From Kalari Pump House to Agama Singh's house, to Sudama Sen's house.
- West: -** From the house of Sudama Sen, making the boundary of Sagra Temple Road, via Sagra Temple Tiraha to the Kachharwar Road Tiraha, forming the boundary of Shahdol Road

Ward no. 22 Birsa Munda Ward (Population-1422)
(Part of 09 Number Colony, Sagar Profession, Subhashganj)

- North: - Through the Kalri Pump House, in front of the Kalri School, till the agricultural produce market shop in front.
- East: - From the front of the agricultural produce market shop to Rannvijay Chowk.
- South: - From Rannvijay Chowk, through old collector bungalow, through old PWD rest house, to hospital tiraha via project office.
- West: - From Hospital Tiraha to Subhashganj Primary School, Balla DJ's house to Arvind Rohini's house to Kalari Pump House.

Ward no. 23 Chandrashekhar Azad Ward (Population-1226)
(Hospital, Market Area, Station Road, Old Bus Stand, Sharda Colony Portion)

- North: - From Pushpa Sister's house, Sarman Kori's house, through the District Hospital's gate, to the stadium boundary, to the boundary of Children's Park to Rannvijay Chowk.
- East: - From Kanya Camp Boundary to Mohan Watch Company shop, from Gandhi Chowk's State Bank ATM, in front of Samdariya Auto Parts shop in front of Janadunia Press.
- South: - From the shop of Mohan Watch Company, making the boundary of the station road, through the Jaistambh Tiraha, to the Dillu Paan shop in Purana bus stand.
- West: - Through the Delhi Paan shop in the old bus stand, through the house of Ashok Soni, through the house of Pradeep Pandey, through the house of Pushpa Sister.

Ward no. 24 Maulana Abul Kalam Azad Ward (Population-1302)
(Sharda Colony Portion, Forest Colony, Sagra Temple, Yellow Kothi)

- North: - From the last point of the municipality, next to Yellow Kothi, from the Milan Bindu Anga of Kachcha Rasta to the RSC School, in front of Dhakra Colony, from Kachwarwar Tiraha to Sagra Chauraha through Sagra Road to the front of Pushpa Sister's house.
- East: - From the house of Indra Kumar Pande through the front of Pushpa Sister's house, from Mansingh's house to the old bus stand, from the Anandam site to the old volcano gate.
- South: - From the old volcano gate to the railway cabin through the railway station, forming the boundary of the railway.
- West: - From railway cabin to Gulzari Nanda house, in front of Rajesh Agarwal's house, from behind railway ground Ramlila stage, from station road, from Rani Durgavati square, to Katni road, from Dholbaja pond to reserved forest land, through the municipal council of Yellow Kothi The final boundary of the raw path to the matching point.

SWAROCHISH SOMAVANSHI, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 61, एफ 1-38/2020/18-3 कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित नगर परिषद सुठालिया के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 83/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 01-02-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं.

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

भाग-2

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास) जिला-राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी 2020

क्रमांक 83 जिशविअ 2020 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 87 सन 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं निधि निवेदिता कलेक्टर जिला राजगढ़ नगर परिषद सुठालिया जिला राजगढ़ के वार्डों का विभाजन / विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद द्वारा अवधारित करती हूँ -

अनुसूची

क्रमांक	वार्ड नंबर	वार्ड का नाम
1	1	गुरु राजनाथ वार्ड
2	2	वीर शिवाजी वार्ड
3	3	डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड
4	4	इंदिरा गांधी वार्ड
5	5	सुभाषचंद वार्ड
6	6	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	7	रानी अवंती बाई वार्ड
8	8	महात्मा गांधी वार्ड
9	9	डां जाकिर हुसैन वार्ड
10	10	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वार्ड
11	11	राजीव गांधी वार्ड

12	12	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
13	13	पं. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
14	14	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
15	15	डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम वार्ड

वार्ड की सीमाओं का विवरण

वार्ड का नाम	चौहददी
1- गुरु राजनाथ वार्ड	जनसंख्या-710 उत्तर - बलराम बैड़िया के मकान से आमपुरा बुड़ा महादेव मंदिर एवं कृषि भूमि तक पूर्व - शंकरपुरा का पूर्वी भाग होकर खंदी शमशान घाट तक । दक्षिण - खंदी हेण्ड पम्प से मांगीलाल हरिजन के भवन तक ब्यावरा मार्ग । पश्चिम- मांगीलाल के भवन से शंकरपुरा का पश्चिम भाग होकर कृषि भूमि तक ।
2- वीर शिवाजी वार्ड	जनसंख्या-800 उत्तर - कृषि भूमि सुठालिया पूर्व - बने सिंह राठौर के भवन से जीन ग्राउण्ड हेण्ड पंप तक दक्षिण - जीन ग्राउण्ड हेण्ड पंप से गोपाल सिंह के मकान तक पश्चिम- रविन्द्र सिंह कुशवाह के भवन से कृषि भूमि तक
3- डॉ.मीनराव अंबेडकर वार्ड	जनसंख्या-802 उत्तर - प्रहलाद दास अग्रवाल के कुए से ब्यावरा मार्ग की पट्टी के भवन होते हुए थाना परिवर महाराजा साहव के कुए होते हुए श्री प्रमुनाथ सिंह टोडी वाले के भवन तक पूर्व- महाराजा साहव के कुए से यादव पेट्रोल पम्प । दक्षिण- कृषि भूमि पश्चिम- कृषि भूमि
4- इंदिरा गांधी वार्ड	जनसंख्या-724 उत्तर - गुडडी बाई साहू के भवन से मस्जिद तक । पूर्व - मस्जिद से गांधी चौक हेण्ड पम्प तक । दक्षिण - गांधी चौक हेण्ड पम्प से दिनेश लोधी के भवन तक पश्चिम- दिनेश लोधी के भवन से राकेश शिवहरे के टाकीज तक एवं मोहन पालीवाल के मकान से मधुसुदनगढ़ मार्ग नाला झिरी मार्ग मुक्ति धाम तक
5- सुभाषचंद वार्ड	जनसंख्या-790 उत्तर - खदान मोहल्ले के भवन से सोनी बाई के भवन तक । पूर्व - काशीराम सिलावट (लल्ला की चक्की) से अमर सिंह के मकान तक दिनेश सिलावट के भवन से होते हुए एवं राजेश सिलावट के मकान से कुन्डी एवं नीम चौक तक । दक्षिण- अभिषेक पालीवाल के भवन से अफजल खों खोकर के भवन तक पश्चिम- सरदार सौधिया के मकान से बंशी लोधी के भवन तक व मकसुदनगढ़ मार्ग तक एवं कवीर पंथी आश्रम से नालाझिरी मार्ग मधुसुदनगढ़ मार्ग होते हुए जय मातादी पेट्रोल पंप तक
6- पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड	जनसंख्या-850 उत्तर- बदीलाल हरिजन के भवन से भगवान हरिजन के भवन तक । पूर्व- रूप किशोर पालीवाल के भवन से बाजार दरवाजा तक । दक्षिण- जेन साहब के भवन से हिम्मत सिंह कुशवाह जी के भवन तक । पश्चिम- फैवट्टी खण्डहर से नसीर शॉह के भवन तक ।
7- रानी अवतिका बाई वार्ड	जनसंख्या-711 उत्तर- कोमल लोधी के भवन से द्वारका खाती के भवन तक ,मरीसा लोधी के भवन से लक्ष्मीनारायण सेन के भवन तक पूर्व-देवीसिंह राजपूत के भवन से पुरोहित चौक होते हुए अशोक शर्मा हलवाई के भवन तक दक्षिण - सोनू अग्रवाल के भवन से कृपा शंकर के भवन तक । पश्चिम- कृपा शंकर अग्रवाल के भवन से पुरुषोत्तम पालीवाल के भवन तक एवं करण सिंह लोधी के भवन से हिम्मत सिंह राजपूत वाली गली के भवन व कमलेश जोगी के भवन तक
8- महात्मा गांधी वार्ड	जनसंख्या-715 उत्तर - रामसिंह लोधी के भवन से खुशीलाल लोधी के भवन तक होली वाला बाड़ा । पूर्व - घोसालाल लोधी के भवन से राजपूत मोहल्ला कुमेर सिंह गली तथा अब्दुल गफ्फार टेलर के मकान तक । दक्षिण- जाकिर खों के भवन से जमनी बाई मोई के भवन तक । पश्चिम- गली एवं गद्दी तक ।
9- डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड	जनसंख्या-740 उत्तर - बाजार मंदिर से चंदरलाल पालीवाल के भवन तक । चंदर लाल पालीवाल के दूसरे भवन से हरि शंकर शर्मा ,सक्सेना चौक, भोला राम पटेल तक पूर्व- दुलारा खों के भवन से सड़क पार कर श्रीप्रकाश सोनी के भवन से डॉ.बाबु खों के भवन तक । दक्षिण- रसीद रमजानी के भवन से हर्षवर्धन के भवन से भवरलाल साहू के भवन तक एवं परलापुरा रास्ता पार कर बंशीलाल लोधी के भवन तक ।

	पश्चिम- कदीर खाँ के भवन से बंटी अग्रवाल के भवन तक।
10- डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वार्ड	जनसंख्या-680
	उत्तर -कृपा शंकर शर्मा के भवन से गन्नूलाल जैन के भवन तक। पूर्व -घनश्याम अग्रवाल के भवन से बालावक्स जी के नैरा तक दक्षिण -सुंदरलाल कुम्हार के भवन से रोडी बाई लोधी के भवन तक पश्चिम-रघुवीर लोधी के भवन से ओम सेन के भवन होकर गन्नूलाल जैन के भवन तक।
11- राजीव गाँधी वार्ड	जनसंख्या-640
	उत्तर -मुरारी पालीवाल के मकान से पुरानी पंजाब नेशनल बैंक तक। पूर्व -मुरारी पालीवाल के मकान से विजयराम के मकान होकर कन्हैयालाल लोधी के मकान तक एवं मांगीलाल कुम्हार के मकान तक तथा गली पार कर मोगिया मोहल्ला तक। दक्षिण -कृषि भूमि व भोलाराम मोगिया के मकान से हरिजन की कुण्डी तक। पश्चिम-हरिजन की कुण्डी से जांगडे चौक राधेलाल के भवन होकर शिव खाती के भवन से पुरानी पंजाब बैंक तक।
12- बाल गंगाधर तिलक वार्ड	जनसंख्या-660
	उत्तर - सुनील गुप्ता मऊ वाले के भवन से श्री राम धाम कालोनी के आखरी भवन तक पूर्व -सुनील गुप्ता मऊ वाले के भवन से नन्नुलाल खटीक भवन तथा मांगीलाल कुम्हार के भवन तक जांगडे चौक तक। दक्षिण -नन्नुलाल के भवन से रामचरण गालीवाल के दाल मील होकर पोस्टमार्टम भवन तक पश्चिम-पोस्टमार्टम ग्रह से इमरत बसोड के भवन तक।
13- पं. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	जनसंख्या-670
	उत्तर -ईस्माईल शाह के भवन से छीपा मंदिर तक। पूर्व -मंदिर कुआँ से मदन खाती से गली पार कर तिजू बाई लोधी के भवन से भवरलाल सेन तक। दक्षिण -भवरलाल सेन के भवन से कैवरलाल मेर के भवन से भरत सिंह के कुआँ तक पश्चिम-भरत सिंह के भवन से धर्मशाला बंधा तक।
14- रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	जनसंख्या-690
	उत्तर - कैलाश पाठक के भवन से पुरुषोत्तम काछी के भवन तक। पूर्व - सरदार काछी के भवन से मदन लाल जी काछी के भवन तक। दक्षिण - मदनलाल झटका के भवन से स्कूल होते हुए प्रधान मंत्री सडक तक पश्चिम- तुलाराम जोशी के भवन से रामगोपाल जोशी के भवन तक।
15- डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम वार्ड	जनसंख्या-614
	उत्तर -छीपा धर्मशाला से होते हुए घनश्याम मेवाडे की दुकान पार करते हुए मदनलाल हरलाल भोई के भवन तक। पूर्व - बने सिंह भोई के मकान से होते हुए प्रेमनारायण भोई से रमेश भोई के भवन होते हुए ईशरलाल कुम्हार तक। दक्षिण - ईशरलाल कुम्हार के भवन से रोड पार करते हुए सोनी बाई के मकान से घनश्याम मेवाडे की दुकान तक। पश्चिम- सोनीबाई के भवन से बुधराम काछी के भवन व चम्पालाल का भवन लेते हुए नवीन धोवी से रामबाबू नामदेव के भवन तक

निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 01 February 2020

No. /DUDA/2020 in Exercise of the powers conferred by section 1 of section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No 37, year 1961) "I" Nidhi Nivedita Collector Rajgarh Madhya Pradesh hereby determine the extent of Wards Nagar Parishad Suthalia, Dist Rajgarh as Schedule below :

SCHEDULE

S No. (1)	Ward No. (2)	Ward Name (3)
1	1	Guru Rajnath Ward
2	2	Veer Shivaji Ward
3	3	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
4	4	Indira Gandhi Ward
5	5	Subhash Ward
6	6	Pt Jawaharlal Nehru Ward
7	7	Rani Avanti bai Ward
8	8	Mahatma Gandhi Ward
9	9	Dr. Zakir Hussain Ward
10	10	Dr. Rajendra Prasad Ward
11	11	Rajiv Gandhi Ward
12	12	Bal Gangadhar Tilak Ward
13	13	Pt. Lal Bahadur Shastri Ward
14	14	Rani Laxmibai Ward
15	15	Dr. APJ Abdul Kalam Ward

Description of the Boundaries of Wards

Ward name	Area
1- Guru Rajnath Ward	Papulation - 710
	North - From Valram Bedia's house to Ampura Buda Mahadev temple and agricultural land
	East - Eastern part of Shankarpura to Khandi crematorium
	South - From Khandi hand pump to Mangli Lal Harijan's building
	west - From Mangilal's building to the western part of Shankarpura to the agricultural land
2- Veer Shivaji Ward	Papulation - 800
	North - Agricultural Land Spatial
	East - From the building of Singh Rathore to the gene ground hand pump
	South - From Jean Ground Head Pump to Gopal Singh's house
	west - From Ravindra Singh Kushwaha's building to agricultural land
3- Dr. Bhimrao Ambedkar Ward	Papulation - 802
	North - From the well of Prahlada Das Agarwal through the building of the slab of the Biaora road to the building of Shri Prabhunath Singh Todi Wale, the well of Maharaja Sahu, the station station.
	East - Yadav Petrol Pump from Maharaja Sahab's well
	South - agricultural land west - agricultural land
4- Indira Gandhi Ward	Papulation- 724
	North - Gooddi Bai Sahu's building to the maszid.
	East - From maszid to Gandhi chouck hand pump.
	South - Gandhi Chowk hand pump to Dinesh Lodhi's building west - From the building of Dinesh Lodhi to the talkies of Rakesh Shivhare and from the house of Mohan Paliwal to Madhusudangarh Marg Nala Jhiri Marg Mukti Dham

5- Subhash Ward	Papulation- 790
	North - From quarry locality to Soni Bai's building
	East - From Kashiram Silavat (Lalla's mill) to Amar Singh's house via Dinesh Silavat's building and from Rajesh Silavat's house to Kundi and Neem Chowk.
	South - From Abhishek Paliwal's building to Afzal Khan Khokar's building
	west - From Sardar Saundhiya's house to Banshi Lodhi's building and Maksudangarh road and from Kavir Panthi Ashram to Nalajhiri road Madhusudangarh road to Jai Matadi petrol pump
6- Pt Jawaharlal Nehru Ward	Papulation- 650
	North - From the building of Badrilal Harijan to the building of Lord Harijan.
	East - From Roop Kishore Paliwal's building to Bazaar Darwaja.
	South - From the building of Zen Saheb to the building of Himmat Singh Kushwaha Ji.
	west - From factory ruins to the building of Naseer Shah.
7- Rani Avanti bai Ward	Papulation- 711
	North - From Komal Lodhi's building to Dwarka Khati's building, Bharosa Lodhi's building to Laxminarayan Sen's building
	East - From Devi Singh Rajput building to Purohit Chowk to Ashok Sharma confectionery
	South - From Sonu Agarwal's building to Kripa Shankar's building.
	west - From the building of Kripa Shankar Agarwal to the building of Purushottam Paliwal and from the building of Karan Singh Lodhi to the street building of Himmat Singh Rajput and the building of Kamlesh Jogi.

8- Mahatma Gandhi Ward	Papulation- 715
	North - Holi enclosure from the building of Ramsingh Lodhi to the building of Khushilal Lodhi.
	East - From Ghisalal Lodhi's building to Rajput Mohalla Kumer Singh Gali and Abdul Ghaffar Taylor's house.
	South - From the building of Zakir Khan to the building of Jamni Bai Bhoi.
	west - To street and Chouk
9- Dr. Zakir Hussain Ward	Papulation- 740
	North - Market Temple to the building of Sanchenderlal Paliwal. From second building of Chander Lal Paliwal to Hari Shankar Sharma, Saxena chouk, Bhaula Ram Patel
	East - Crossing the road from the building of Dulara Khan to the building of Sri Prakash Soni to Dr. Babu Khan's building.
	South - From receipt Ramadani's building to Harshavardhan's building to Bhavarlal Sahu's building and crossing the Parlapura road to Banshilal Lodhi's building.
	west - From the building of Kadir Khan to the building of Banti Agarwal.
10- Dr. Rajendra Prasad Ward	Papulation- 680
	North- From the building of Kripa Shankar Sharma to the building of Gannulal Jain.
	East - From Ghanshyam Aggarwal's building to Balavaks ji's nera
	South - From Sundarlal potter's building to Roadie Bai Lodhi's building
	west - From the building of Raghuveer Lodhi to the building of Om Sen to the building of Gannulal Jain.
11- Rajiv Gandhi Ward	Papulation- 640
	North - From Murari Paliwal's house to the old Punjab National Bank.
	East - From Murari Paliwal's house to Vijayaram's house to Kanhey Lal Lodhi's house and Mangilal's potter's house and across the street to Mogia Mohalla.

	South - From agricultural land and Bholaram Mogia's house to Harijan kundi.
	west - From Harijan Kundi to Jangde check Radhe Lal's building and Shiv Khati's building to old Panjav bank.
12- Bal Gangadhar Tilak Ward	Papulation- 660
	North - From the building of Sunil Gupta Mau Wale to the last building of Shri Ram Dham Colony
	East - From Sunil Gupta Mau Wale building to Nannulal Khatik Bhawan and Mangailal Potter's building to Jangde chouk.
	South - From Nannulal's building to the post-mortem building via the pulse mile of Ramcharan Paliwal.
	west - From the post mortem planet to the house of Imrat Basod.
13- Pt. Lal Bahadur Shastri Ward	Papulation- 670
	North - From Ismail Shah's building to Chhipa temple.
	East - Crossing the street from the temple well to Madan Khati, from the building of Tiju Bai Lodhi to Bhavarlal Sen.
	South - From Bhavarlal Sen's building to Kaverlal Mer's building to Bharat Singh's well
	west - From Bharat Singh's building to Dharmashala Bandha.
14- Rani Laxmibai Ward	Papulation- 690
	North - From the building of Kailash Pathak to the building of Purushottam Kachi.
	East - From the building of Sardar Kaehi to the building of Madan Lalji Kachi.
	South - From Madanlal jerk's building to Prime Minister's road
	west - From the building of Tularam Joshi to the building of Ram Gopal Joshi.
15- Dr. APJ Abdul Kalam Ward	Papulation- 614
	North - Crossing the shop of Ghanshyam Mewade through Chhipa Dharmashala to Madanlal Harlal Bhoi's building.

	East - From the house of Bane singh bhoi, Premnarayan Bhoi to Isharlal potter via Ramesh Bhoi's building.
	South - Crossing the road from Isharlal potter's building to Soni Bai's house to Ghanshyam Mewade's shop.
	west - Taking the building of Budharam Kachi and the house of Champalal from the building of Sonibai to the building of Naveen Dhowi to Rambabu Namdev.

NIDHI NIVEDITA, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 62, एफ 1-89/2020/18-3 कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रेषित नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 1110/डीयूडीए/2019, दिनांक 18-12-2019 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं.

शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्रमांक/H10/डीयूडीए/2019 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करते हुए मैं श्रीमति हर्षिका सिंह, कलेक्टर, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश, एतद द्वारा टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डों की पूर्व में निर्धारित सीमाओं को अतिष्ठित करते हुये अनुसूची अनुसार सीमाये अवधारित करती हूँ-

अनुसूची

सरल क्रमांक	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01	01	शहीद नारायण दास खरे वार्ड
02	02	पुरानी टेहरी वार्ड
03	03	सरदार सिंह वार्ड
04	04	चतुर्भुज पाठक वार्ड
05	05	शंभूदयाल दीक्षित वार्ड
06	06	हरीदास वार्ड
07	07	धनुषधारी वार्ड
08	08	गांधी वार्ड
09	09	बाबू प्रेमनारायण खरे वार्ड
10	10	ठाकुरदास वार्ड
11	11	बाल्मीकी वार्ड
12	12	अम्बेडकर वार्ड
13	13	कूरे माते रामआसरे वार्ड
14	14	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
15	15	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
16	16	भगवान महावीर स्वामी वार्ड
17	17	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
18	18	राजीव गांधी वार्ड
19	19	भगत सिंह वार्ड
20	20	नूर मोहम्मद वार्ड
21	21	जानकी बाग वार्ड
22	22	गुरुनानक वार्ड
23	23	इन्दिरा गांधी वार्ड
24	24	मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड
25	25	संजय गांधी वार्ड
26	26	डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
27	27	चन्द्रशेखर वार्ड

वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
01-शहीद नारायण दास खरे वार्ड	जनसंख्या 3318	
	उत्तर	कमल सेतु के सामने रोड पार कर पूर्व की ओर गौशाला की ओर जाने वाली गली में होकर तलैया लेकर आदिवासी बस्ती लेते हुए खांगे के हनुमान जी के मंदिर तक,
	पूर्व	खांगे के हनुमान जी के मंदिर से सागर रोड पर गौगा बेर हनुमान जी के मंदिर तक,
	दक्षिण	गौगा बेर से पुरानी टेहरी की ओर दाहिने हाथ के मकान लेते हुए तालाब के बेस्ट बियर होते हुए भवानी सेतु तक
	पश्चिम	भवानी सेतु से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए कमल सेतु के सामने तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
02-पुरानी टेहरी वार्ड	जनसंख्या 3338	
	उत्तर	पुत्ती लाल यादव के गगन बेस्ट बियर के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए पूर्व की ओर, हुकुम चन्द्र एडवोकेट के कुआ तक,
	पूर्व	हुकुमचंद्र एडवोकेट के कुआ से महेन्द्र सागर को घेरते हुए कृषि कालेज तक
	दक्षिण	कृषि कालेज से दायी ओर के मकान लेते हुए पानी की टंकी तक,
	पश्चिम	पानी की टंकी से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए भवानी सेतु तक, भवानी सेतु से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए श्री पुत्तीलाल यादव के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
03-सरदार सिंह वार्ड	जनसंख्या 3310	
	उत्तर	श्री प्रताप तिवारी एडवोकेट के मकान से लेकर छोटे पुल तक
	पूर्व	छोटे पुल से होटल फोर्ट व्यू चित्रगुप्त मंदिर लेकर विवेकानंद पार्क तक,
	दक्षिण	विवेकानंद पार्क से नीचे की सड़क तालाब के बंधान से नीचे दाये हाथ के मकान लेते हुए पपौरा चौराहा होते हुए दाहिनी ओर के मकान लेते हुए श्री राकेश टडैया के मकान तक
	पश्चिम	श्री राकेश टडैया के मकान से पूर्व की ओर श्री गुल्लू बिलगैया के मकान को घेरते हुए श्री प्रताप तिवारी के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
04-चतुर्भुज पाठक वार्ड	जनसंख्या 2834	
	उत्तर	कटरा चौराहा डा. अशोक कुमार के क्लीनिक से पूर्व की ओर पपौरा चौराहा तक,
	पूर्व	पपौरा चौराहा श्री अमर सिंह के मकान से दक्षिण की ओर केंथ का मंदिर लेते हुए बरगद के पेड़ के पास तक,

	दक्षिण	बरगद के पेड़ से उत्तर की ओर श्री त्रिपुरारीलाल मिश्रा का घर लेकर श्री सुरेश नामदेव की वाली गली से अध्वरुव मंदिर में चौपरा व दायी ओर के मकान लेते हुए श्री वोटू सेठ के मकान तक
	पश्चिम	श्री वोटू सेठ के मकान से दक्षिण की ओर कटरा चौराहा डा.अशोक क्लीनिक तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
05-शंभूदयाल दीक्षित वार्ड	जनसंख्या 2909	
	उत्तर	वानपुर दरवाजा से दायी ओर के मकान लेते हुए श्री के पी सोनी के मकान के सामने छक्की बाड़ा तक,
	पूर्व	छक्कीबाड़ा से पूर्व की ओर हवेली रोड पर आकर दायी ओर के मकान लेकर कमानी दरवाजा को लेकर तालदरवाजा श्री सुभाष मामा के मकान को लेते हुए जरिया के हनुमान जी के मंदिर तक
	दक्षिण	ललितपुर रोड जरिया के हनुमान जी के मंदिर से पश्चिम की ओर सिचाई कालोनी लेते हुए वानपुर रोड पार कर मुक्तिधाम व कब्रिस्तान लेते हुए कारसदेव के चबूतरा से होकर महाराजपुरा तालाब के किनारे बरई बाग तक,
	पश्चिम	बरई बाग से खेतों में होकर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए वानपुर दरवाजा तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
06-हरीदास वार्ड	जनसंख्या 3066	
	उत्तर	नगर पालिका काम्पलैक्स से दक्षिण की ओर हवेली रोड पर दायी ओर के मकान लेकर श्री गणेश पुरोहित के मकान तक, यहां से सड़क पारकर अध्वरुव मंदिर गली में होकर श्री महादेव कुशवाहा के मकान तक यहां से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए श्री सुनील नामदेव एडवोकेट के मकान तक ,
	पूर्व	श्री सुनील नामदेव एडवोकेट के मकान से दक्षिण की ओर गली में दायी ओर के मकान लेते हुए गोपाल मंदिर को लेते हुये बरगद के पेड़ तक,
	दक्षिण	ताल दरवाजा बरगद के पेड़ से पश्चिम में श्री विनोद जैन के मकान तक,
	पश्चिम	श्री विनोद जैन के मकान से दले सैयद का मजार लेकर श्री दुर्जन चौरसिया के मकान तक, यहां से सड़क पारकर श्री शोभा नायक के मकान से पश्चिम की ओर मुरलीधर बजाज का मकान लेते हुए सकरे रास्ते से होकर श्री राजकुमार जैन के मकान तक यहां से पुरानी नजाई की ओर श्री रामकिशोर गोस्वामी के मकान लेते हुए भदौरा जी के मकान के सामने सड़क पर यहां से पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए झंडा बीड़ी कारखाना लेकर नगर पालिका काम्पलैक्स तक,

वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
07-धनुषधारी वार्ड	जनसंख्या 2493	
	उत्तर	श्री सुन्दर लाल सिंघई (जवाहर चौक) की दुकान से पूर्व की ओर श्री खुशाल चंद्र जैन के मकान (अरविन्द्र क्लॉथ स्टोर) तक,
	पूर्व	श्री खुशाल चंद्र जैन (अरविन्द्र क्लॉथ स्टोर) के मकान से पपौरा चौराहा श्री सीताराम नायक के मकान तक,
	दक्षिण	सीताराम नायक के मकान से पश्चिम की ओर श्री पीर मोहम्मद रंगसाज का मकान लेते हुए बायी ओर के मकान लेकर हुए श्री कालू सिंधी की दुकान तक,
	पश्चिम	श्री कालू सिंधी की दुकान से जवाहर चौक श्री सुन्दर लाल सिंघई की दुकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
08-गांधी वार्ड	जनसंख्या 3051	
	उत्तर	हिमांचल गली में श्री ब्रजपाल नामदेव के मकान से पूर्व की ओर श्री सुभाष एडवोकेट के मकान को लेते हुए श्री पवन मिठया की दुकान तक,
	पूर्व	श्री पवन मिठया की दुकान से कटरा बाजार श्री जे. पी. सोनी के मकान तक
	दक्षिण	श्री जे.पी. सोनी के मकान से पश्चिम की ओर धनुषधारी मंदिर लेते हुए भदौरा जी के मकान के सामने तक यहां से सड़क पारकर तक पुरानी नज्आई में श्री रामकिशोर गोस्वामी का मकान छोड़कर दायी ओर के मकान तैलंग गली लेकर वानपुर दरवाजा तक
	पश्चिम	वानपुर दरवाजा से बायी ओर के मकान सड़क पार कर लेकर (बौरी दरवाजा की लाईन छोड़कर)श्री प्यारे लाल रजक के मकान के पीछे गंदा नाला तक, गंदा नाला से पूर्व की ओर दायी ओर के मकान व नरैया मस्जिद को अंदर करते हुए गंदा नाला मीट मार्केट छोड़कर गली पार कर श्री रसीद खां आटा चक्की वालो का मकान लेते हुए हिमांचल गली में श्री ब्रजपाल नामदेव के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
09-बाबू प्रेमनारायण खरे वार्ड	जनसंख्या 2872	
	उत्तर	श्री राहुल साहू के मकान से पूर्व की ओर लखेरो के मंदिर के पास वाली गली श्री सुखनन्दन सोनी के मकान तक,
	पूर्व	श्री सुखनन्दन सोनी के मकान से होकर दायी ओर के मकान लेते हुए श्री रसीद खां की आटा चक्की के सामने से होते हुए मीट मार्केट अंदर करते हुए गंदा नाला तक,
	दक्षिण	गंदा नाला से पश्चिम की ओर श्री प्यारेलाल रजक के मकान(छोड़कर) के पीछे श्री जायसवाल के

	पश्चिम	बौरी दरवाजा श्री जायसवाल के मकान से दक्षिण की ओर श्री राकेश गिरी विधायक के सामने श्री राहुल साहू के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
10-ठाकुरदास वार्ड	जनसंख्या 2479	
	उत्तर	भान भवन (नूतन बिहार कालोनी) से पूर्व की ओर रौरईया दरवाजा दायी ओर के मकान लेते हुए श्री राकेश गिरी विधायक के मकान तक
	पूर्व	रौरईया दरवाजा श्री राकेश गिरी विधायक के मकान से दक्षिण की ओर बौरी दरवाजा तक
	दक्षिण	बौरी दरवाजा से पश्चिम की ओर महाराजपुरा तालाब तक
	पश्चिम	महाराजपुरा तालाब से उत्तर की ओर खुशीपुरा, गिरी समाज का मुक्ति धाम लेते हुए भान भवन तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
11-बाल्मीकी वार्ड	जनसंख्या 2703	
	उत्तर	कृषि उपज मंडी के नाला से सड़क पार करते हुए अम्बेडकर पार्क लेते हुए भसू का खिरक छात्रावास को घेरकर कुज बिहार कालोनी लेते हुए एम एल बी स्कूल को लेकर ढोंगा रोड भान भवन के सामने तक
	पूर्व	भान भवन के सामने से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए महाराजपुरा तालाब तक
	दक्षिण	महाराजपुरा तालाब से पश्चिम की ओर पालीटेक्निक व स्टेडियम लेते हुए भान भवन के सामने तक
	पश्चिम	भान भवन के सामने से (महाराजपुरा तालाब के पास से) खेतों में होकर खाद्य निगम कार्यालय घेरकर प्रधान मंत्री आवास, बीड़ी मजदूर कालोनी लेते हुए कृषि उपज मंडी के नाला तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
12-अम्बेडकर वार्ड	जनसंख्या 3131	
	उत्तर	अम्बेडकर पार्क से पुलिस लाइन को घेरते हुए श्री पूरन सिंह के सामने पी डब्ल्यू डी के क्वार्टर्स को लेते हुए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के बंगला तक
	पूर्व	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के बंगला से पुलिस विभाग के आर आई बंगला को लेते हुए पानी की टंकी वाली गली में होकर दायी ओर के मकान लेते हुए कुवर पुरा दरवाजा होकर श्री रामराजा सिंह के मकान (रौरईया दरवाजा) तक,
	दक्षिण	श्री रामराजा सिंह के मकान(रौरईया दरवाजा) से पश्चिम की ओर ढोंगा रोड एम एल बी स्कूल वाली गली तक
	पश्चिम	एम एल बी स्कूल वाली गली श्री नायक के मकान से उत्तर की ओर दायी ओर के मकान लेते हुए मंडी रोड पर अम्बेडकर पार्क तक

वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
13-कूरे माते रामआसरे वार्ड	जनसंख्या 3018	
	उत्तर	श्रमदान मार्ग में श्री कादिर खां के मकान से पूर्व की ओर मदारचिल्ला में दायी ओर के मकान रिसालदार के मकान को अंदर करते हुए शिवा इलैक्ट्रिकल्स दुकान तक
	पूर्व	शिवा इलैक्ट्रिकल्स दुकान से दक्षिण की ओर से जवाहर चौराहा लेकर हिमांचल गली श्री हल्कूराम अग्रवाल की दुकानों तक
	दक्षिण	श्री हल्कूराम अग्रवाल की दुकानों से पश्चिम की ओर हिमांचल गली में श्री सुनील होण्डा व श्री माधव अग्रवाल लखेरो का मंदिर लेते हुए सड़क पार कर श्री रामसेवक सोनी की दुकान तक
	पश्चिम	श्री रामसेवक सोनी की दुकान से पश्चिम की ओर दाहिनी ओर श्री भगवत सिंह के मकान से श्रमदान मार्ग की ओर श्री करीम वकील के मकान को छोड़ते हुए श्रमदान मार्ग श्री कादिर खां के मकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
14-लालबहादुर शास्त्री वार्ड	जनसंख्या 2825	
	उत्तर	श्री सलीम हाफिज (मोटे का पुरा) के मकान से पूर्व की ओर लल्ला मिर्च वालो का मकान लेते हुए फैशन प्वाइंट दुकान तक
	पूर्व	फैशन प्वाइंट दुकान से दक्षिण की ओर कर्माबाई मार्केट होते हुए शिवा इलैक्ट्रिकल्स दुकान तक
	दक्षिण	शिवा इलैक्ट्रिकल्स की दुकान से पश्चिम की ओर रिसालदार के मकान को बाहर करते हुए कादिर खां के मकान तक
	पश्चिम	श्री कादिर खां के मकान से उत्तर की ओर श्री अब्दुल शकूर मंझले के दायी ओर के मकान को लेते हुए अजीज खां के मकान तक यहां से सड़क पारकर श्री बालचन्द्र जैन का मकान लेकर उत्तर की ओर गली में होकर श्री सलीम हाफिज के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
15-जवाहर लाल नेहरू वार्ड	जनसंख्या 3230	
	उत्तर	मंसूरी क्यामगाह के सामने सड़क पार कर बाबूलाल कडा के मकान को लेकर रज्जाक खां के मकान तक श्री रज्जाक खां के मकान से पूर्व की ओर दायी ओर के मकान श्री हाजी फैज का मकान लेकर नईम खां के मकान तक
	पूर्व	नईम खां के मकान से दायी ओर के मकान लेकर इनायत खां के मकान तक, श्री इनायत खां के मकान से सड़क पार कर श्रमदान मार्ग में श्री याकूब खां (नगर पालिका) का मकान लेकर दायी ओर के मकान श्री करीम वकील का मकान लेते हुए माधव

		प्रसाद उपाध्याय का मकान लेते हुए तेलंग गली में दायी ओर के मकान राजमहल तक,
	दक्षिण	राजमहल से रौरईया श्री मनोज जैन के मकान मंदिर तक,
	पश्चिम	श्री मनोज जैन के मकान से उत्तर की ओर मंसूरी क्यामगाह तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
16-भगवान महावीर वार्ड	जनसंख्या 3107	
	उत्तर	श्री जगदीश प्रसाद गर्ग के मकान से पूर्व की ओर आर ई एस आफिस तक
	पूर्व	आर ई एस आफिस से दक्षिण की ओर गोल क्वार्टर्स लेते हुए श्री हरलाल साहू के मकान तक,
	दक्षिण	श्री हरलाल साहू के मकान से पश्चिम की ओर दायी ओर के मकान लेकर श्री नईम खां के मकान के सामने श्री नज्जू के मकान लेकर गली पार कर दायी ओर के मकान लेते हुए श्री रहीम खां (एस.बी. ई वाले) का मकान लेते हुए हाजी फैज मुहम्मद के मकान के सामने दायी ओर के मकान लेकर सकरे रास्ते में होकर श्री फारुख खां के मकान तक,,
	पश्चिम	कुंवरपुरा दरवाजा से इन्द्रा कालोनी सड़क की ओर श्री फारुख खां के मकान से उत्तर की ओर श्री जगदीश प्रसाद गर्ग के मकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
17-नेता जी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	जनसंख्या 3118	
	उत्तर	मंडी रोड संदीप ट्रेडर्स के गोदाम से शिवनगर कालोनी को लेते हुए नगर पालिका कार्यालय तक,
	पूर्व	नगर पालिका कार्यालय से दक्षिण की ओर जिला न्यायाधीश के बंगला तक,
	दक्षिण	जिला न्यायाधीश के बंगला से पश्चिम की ओर पी डब्ल्यू डी के क्वार्टर्स छोड़ते हुए सुभाषपुरम कालौनी लेकर पुलिस लाइन लेकर खेतों में होकर दायी ओर के मकान लेते हुए नापतौल कार्यालय अम्बेडकर पार्क तक,
	पश्चिम	अम्बेडकर पार्क नापतौल कार्यालय से मंडी रोड संदीप ट्रेडर्स के गोदाम तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
18-राजीव गांधी वार्ड	जनसंख्या 3248	
	उत्तर	महावीर पार्क से पूर्व की ओर सैल सागर चौराहा तक
	पूर्व	सैलसागर चौराहा से दक्षिण की ओर हवेली लेते हुए मोदी बुक डिपो की दुकान तक,
	दक्षिण	मोदी बुक डिपो से पश्चिम की ओर जवाहर चौक तक।

	पश्चिम	जवाहर चौक से उत्तर की ओर लोकमान्य चौराहा होते हुए महावीर पार्क तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
19-भगत सिंह वार्ड	जनसंख्या 3022	
	उत्तर	सैल सागर चौराहा श्री बालचंद्र जैन की दुकान से डा. खान का मकान लेते हुए श्री ओ.पी.मिश्रा के मकान से सड़क पारकर श्री हरीराम सिधी की दुकान लेते हुए जय स्तंभ के सामने श्री बफाती के मकान तक
	पूर्व	श्री शेख बफाती के मकान से कैलाशपति लाज लेते हुए कन्या स्कूल लेकर मानस मंच की दुकानों को पार्क के सामने गुरुद्वारा तक,
	दक्षिण	गुरुद्वारा से दायी ओर के मकान लेते हुए जडिया मार्ग में होकर श्री गुल्लू विलगैया के मकान के सामने से नायको का पुरा दायी ओर के मकान लेते हुए रामगढ़ वाले जैन के मकान तक
	पश्चिम	रामगढ़ वाले जैन के मकान से उत्तर की ओर श्री हरि विष्णु अवस्थी के मकान, राजेन्द्र पार्क, शिशुगंदिर स्कूल, श्रृवण कमर तिराहा, पो लेते हुए सैल सागर पर श्री बालचंद्र जैन की दुकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
20-नूर मोहम्मद वार्ड	जनसंख्या 3020	
	उत्तर	श्री राजेन्द्र सिंह के मकान से पूर्व की ओर श्री चतुर्वेदी के मकान पंडयाना लेते हुए श्री रसिक लाल शर्मा के मकान तक,
	पूर्व	श्री रसिक लाल शर्मा के मकान से दक्षिण की ओर जय स्तंभ के सामने श्री राजकुमार साहू के मकान तक,
	दक्षिण	जय स्तंभ के सामने श्री राजकुमार साहू के मकान से दायी ओर श्री तैय्यब बेग के मकान लेकर सैल सागर चौराहा की ओर श्री जब्बार खां के मकान तक,
	पश्चिम	श्री जब्बार खां के मकान से दायी ओर के मकान लेते हुए श्री भगतराम मक्कड़ के मकान तक, यहां से लक्कड़खाना लेकर दायी ओर के मकान लेते हुए श्री राजेन्द्र सिंह के मकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
21-जानकी बाग वार्ड	जनसंख्या 3092	
	उत्तर	राजेन्द्र अस्पताल के सामने पी डब्ल्यू डी से पूर्व की ओर कलेक्टर बंगला लेते हुए जेल के सामने तक
	पूर्व	जेल के सामने सैल सागर की ओर डा. बनर्जी का मकान छोड़ते हुए दायी ओर के मकान लेते हुए सैल सागर बंधान से पटला मोहल्ला में श्री कैप्टन व मुमताज के मकान लेकर हाजी इमामबख्श के मकान सामने के दायी ओर के मकान लेते हुए श्री जगमोहन शर्मा के मकान तक,

	दक्षिण	श्री जगमोहन शर्मा मकान से सैल सागर की ओर श्री जिब्राईल की दुकान तक,
	पश्चिम	सैल सागर चौराहा श्री जिब्राईल की दुकान से राजेन्द्र अस्पताल के सामने पी डब्ल्यू डी के बंगला तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
22-गुरुनानक वार्ड	जनसंख्या 2962	
	उत्तर	जेल के सामने श्री गोवर्धन सोनी के मकान से पूर्व की ओर पोस्ट आफिस कार्यालय लेते हुए राम जानकी मंदिर भगवंत क्लब के कोने तक,
	पूर्व	राम जानकी मंदिर भगवंत क्लब के कोने से दक्षिण की ओर श्री सुभाष सूरी के मकान तक
	दक्षिण	श्री सुभाष सूरी के मकान से पश्चिम की ओर बाबा बिहारीदास का मंदिर नगर पालिका का पुराना कार्यालय भवन लेकर श्री राकेश एडवोकेट के मकान से मौलवी अब्दुल सलीम के मकान तक,
	पश्चिम	मौलवी अब्दुल सलीम के मकान से उत्तर की ओर हाजी इमाम बख्श के मकान को लेते हुए सैल सागर बंधान दायी ओर के मकान, ईदगाह कालोनी में होकर डा. बनर्जी के मकान को लेते हुए श्री गोवर्धन सोनी के मकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
23- इन्दिरा गांधी वार्ड	जनसंख्या 2495	
	उत्तर	चकरा तिराहा से विनोद कुज की ओर दायी ओर के मकान लेते हुए चकरा मोहल्ला में बरिया के पेड़ तक
	पूर्व	बरिया के पेड़ से दक्षिण की ओर कब्रिस्तान छोड़कर दायी ओर के मकान लेते हुए प्रसाद कालोनी (झिर की बगिया) लेते हुए चौपुलिया तक
	दक्षिण	चौपुलिया से पश्चिम की ओर फ्रेन्ड्स कालोनी लेते हुए राजेन्द्र अस्पताल तक
	पश्चिम	राजेन्द्र अस्पताल नगर पालिका की दुकानों से उत्तर की ओर चकरा तिराहा तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
24-मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड	जनसंख्या 2842	
	उत्तर	रेलवे पुल से स्टेशन को अंदर लेते हुए छत्रसाल द्वार तक,
	पूर्व	छत्रसाल द्वार से दक्षिण की ओर बैकुण्ठी लेते हुए बड़े मजार होते हुए श्री भागीरथ तिवारी के मकान तक,
	दक्षिण	श्री भागीरथ तिवारी के मकान से पश्चिम की ओर जुगल निवास लेते हुए जानकी बाग मंदिर, साईं स्पोर्ट हॉस्टल चौपुलिया तक,

	पश्चिम	चौपुलिया से दक्षिण की ओर प्रसाद कालोनी (छोड़कर) के रास्ते से कब्रिस्तान को लेते हुए चकरा तिराहा से दायी ओर के मकान लेते हुए रेलवे पुल तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
25-संजय गांधी वार्ड	जनसंख्या 2620	
	उत्तर	श्री गोविन्द सिंह सिसौदिया के मकान से गंगा सेतु तक,
	पूर्व	गंगा सेतु से दक्षिण की ओर एमपीईबी कार्यालय के पास छोटी पुलिया भवानी सेतु तक,
	दक्षिण	छोटी पुलिया भवानी सेतु से पश्चिम की ओर पानी की टंकी तक,
	पश्चिम	होटल फोर्ट व्यू के पास पानी की टंकी से उत्तर की ओर किला व पुराना बस स्टैन्ड लेते हुए श्री गोविन्द सिंह सिसौदिया के मकान तक,
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
26-डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	जनसंख्या 2510	
	उत्तर	श्री जय सिंह यादव के मकान से परमेश्वरी दास कुशवाहा का मकान लेते हुए शंकरगढ़ स्थित वन विभाग उपमंडल कार्यालय तक वहां से पूर्व की ओर वर्मा सैल पेट्रोल पंप के बगल वाली गली तक,
	पूर्व	वर्मा सैल पेट्रोल पंप के बगल वाली गली से श्री मर्दन अहिरवार के मकान तक,
	दक्षिण	श्री मर्दन अहिरवार के मकान से हड़ा खेतों में होकर गंगा सेतु वन विभाग कार्यालय के सामने के मकानों तक
	पश्चिम	वन विभाग कार्यालय की ओर सड़क पारकर दायी ओर के मकान श्री मकुन्द सिंह ट्रेजरी बालो के मकान लेकर श्री रसिक लाल शर्मा के मकान के सामने तक, यहां से दायी ओर के मकान लेते हुए श्री जय सिंह यादव के मकान तक
वार्ड का नाम	क्षेत्रफल	
27-चन्द्रशेखर वार्ड	जनसंख्या 2493	
	उत्तर	छत्रसाल द्वार से शनि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पारकर स्टाप डैम के बंधान से होकर सुधासागर रोड पर श्री सिददीक खलीफा के प्लाट तक,

	पूर्व	श्री सिददीक खलीफा के प्लाट से उत्तर की ओर खेतों में होकर मर्दन अहिरवार के मकान तक,
	दक्षिण	मर्दन अहिरवार के मकान से पश्चिम में खेतों में होकर वर्मा शैल पेट्रोल पंप की बगल वाली पुलिया तक,
	पश्चिम	वर्मा शैल पेट्रोल पंप के बगल वाली गली पुलिया से उत्तर की ओर बस स्टैन्ड की ओर छत्रसाल द्वार तक,

हर्षिका सिंह, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 18th December 2019

No./ /DUDA/2019 In exercised of the powers conferred in sub-section (1) of section 29 of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961), I SMT. HARSHIKA SINGH, Collector, Tikamgarh Madhya Pradesh here by determine the extent of wards of Municipality Council Tikamgarh district. As schedule Below.

SCHEDULE

S.No (1)	Ward No. (2)	Ward Name (3)
01	01	Shaheed Narayan das Khare ward
02	02	Purani tehri Ward
03	03	Sardar Singh ward
04	04	Chaturbhuj ward
05	05	Shambhudayal Dikshit Ward
06	06	Haridas Ward
07	07	Dhanushdhari Ward
08	08	Gandhi Ward
09	09	Babu Premnarayan Ward
10	10	Thakurdas Ward
11	11	Balmiki Ward
12	12	Ambedkar Ward
13	13	Kuremate Ramasre Ward
14	14	Lalbahadur Shastri Ward
15	15	Jawaharlal Nehru Ward
16	16	Bhagwan Mahaveer Swami Ward
17	17	Neta ji Subhas Chandra bose Ward
18	18	Rajiv Gandhi Ward
19	19	Bhagat Singh Ward
20	20	Noor Muhammad Ward
21	21	Janki bag Ward
22	22	Guru Nanak Ward
23	23	Indra Gandhi Ward
24	24	Maulana Abdul Kalam Ajad Ward
25	25	Sanjay Gandhi Ward
26	26	Dr. Rajendra Prasad Ward
27	27	Chandra Shekhar Ward

Ward Name	Area	
01.SHAHEED NARAYAN KHARE WARD	Papulation- 3318	
	NORTH	From Kamal Setu towards cross the road in east the street going towards Gaushala including Talaiya and Adivasi Basti to Khange Hanuman Temple
	EAST	From Khange Hanuman Temple to Goga Ber Hanuman Temple on Sagar Road
	SOUTH	From Goga Ber to purani tehri including right hand side houses to best wear of Talab to Bhawani Setu
	WEST	From Bhawani Setu including right side houses infront of Kamal Setu
02. PURANI TEHRI WARD	Papulation- 3338	
	NORTH	Putti Lal Yadav's house taking the right hand side of West Wear, towards east, to the well of Hukum Chandra Advocate
	EAST	From the well of Hukum Chandra Advocate to the agricultural college encircling Mahendra Sagar
	SOUTH	From the agricultural college taking the right hand house to the water tank
	WEST	From the water tank taking the right houses to Bhavani Setu, from Bhavani Setu to the right hand houses to Putti Lal Yadav's house
03. SARDAR SINGH WARD	Papulation- 3310	
	NORTH	From Mr. Pratap Tiwari Advocate's house to the Chhota Pul
	EAST	From Chhota Pul to Hotel Fort View including Chitragupta Temple to Vivekananda Park

	SOUTH	The road below Vivekanand Park taking the right-hand house from the bottom of the pond to the right-hand house via the Papoura Chouraha to the house of Mr. Rakesh Tadaia taking right hand houses
	WEST	From Mr. Rakesh Tadaiah's house facing east encircling Mr. Gullu Bilgaiah's house, to Mr. Pratap Tiwari's house
04. CHATURBHUJ PATHAK WARD	Papulation- 2834	
	NORTH	From Dr. Ashok Kumar Clinic at Katra Chouraha to Papoura Chaouraha towards east
	EAST	From the house of Mr. Amar Singh at Papoura Chouraha towards south including Kenth ka Mandir to Bargad Tree
	SOUTH	From Bardag Tree towards north including house of Mr. Tripurari Lal Mishra, From Mr. Suresh Namdev street to Adhvaryu Mandir including Choupara right side houses to house Mr. Votu Seth
	WEST	From house of Mr. Votu Seth towards Katra Chouraha in south to Dr. Ashok Clinic
05. SHAMBHUDAYAL DIXIT WARD	Papulation- 2909	
	NORTH	Taking the house on the right hand side from Banpur Darwaja to Chhaki Baada in front of Mr. K P Soni's house
	EAST	Coming east on Haveli Road from Chhakki Bada and taking the right hand houses taking the Kamani Darwaza, taking house of Mr. Subhash Mama at Taldarwaja to Jariya's Hanuman temple
	SOUTH	From the temple of Jariya's Hanuman ji on Lalitpur Road, taking the irrigation colony towards the west,

		crossing the Banpur road, taking Muktidham and Kabristan, through the Karsdev Chabutra to Barai Bagh on the banks of Maharajpura pond
	WEST	Taking the right-hand house from Barai Bagh through the fields to Banpur Darwaza.
06. HARIDAS WARD	Papulation- 3066	
	NORTH	On Haweli road from south of Nagar Palika Complex taking the right hand houses to house of Mr. Ganesh Purohit, crossing the road to house of Mahadev Kushwaha through Adhvaryu Mandir Street, taking the right hand houses to the house of Advocate Suneel Namdev
	EAST	From the Sunil Namdev Advocate house towards south in street taking right hand houses including Gopal Mandir to Bargad Tree
	SOUTH	From Taldarwaja Bargad tree to Mr. Vinod Jain's house in West.
	WEST	From the house of Mr. Vinod Jain including Majar of Dale Saiyad to house of Mr. Durjan Chourasiya, crossing the road, from the house of Mr. Shobha Nayak including house of Murlidhar Bajaj in west to the house of Mr. Rajkumar Jain through narrow passage, taking Mr. Ramkishor Goswami house towards Purani Najai to the road in front of house of Mr. Bhadora, to Jhanda Bidi Karkhana including right hand side houses towards east to Nagar Palika Complex.
07. DHANUSHDHARI WARD	Papulation- 2493	
	NORTH	From the house of Mr. Khushal Chandra Jain towards the west to the house of Mr. Sundar Lal Singhai (Jawahar Chowk)
	EAST	From the house of Mr. Khushal Chandra Jain (Arvindra Cloth Store) to

		the house of Mr. Sitaram Nayak at Papoura Chouraha.
	SOUTH	From the house of Sitaram Nayak, taking the house of Mr. Peer Mohammad Rangasaj towards the east, taking the house on the left side, to the shop of Kalu Sindhi
	WEST	From Shri Kalu Sindhi Shop to Jawahar Chowk.
08. GANDHI WARD	Papulation- 3051	
	NORTH	In Himanchal Gali from the house of Mr. Brajpal Namdev including the house of Mr. Subhash Advocate towards east to shop of Mr. Pavan Mithya
	EAST	From Mr. Pawan Mithai's shop to Mr. J P Soni's house at Katra Bazar.
	SOUTH	From the house of J P Soni towards west including Dhanushdhari Mandir to front of Mr. Bhadora house, crossing the road, in Purani Najai excluding house of Mr. Ramkishor Goswami including right hand houses and telang ki Gali to Banpur Darwaja
	WEST	Including the left hand houses From Banpur Darwaja after crossing the road (leaving the line of Bouri Darwaja) to the house of Pyare lal Rajak behind Ganda Nala, from the Ganda Nala towards east encircling right hand houses and Naraiya Masjid excluding meat market of Ganda Nala, taking the house of Mr. Rasid Khan after crossing the road to the house of Mr. Brajpal Namdev
09. BABU PREMNARAYAN KHARE WARD	Papulation- 2872	
	NORTH	Towards east from the house of Mr. Rahul Sahu Near street Lakhero ka

		Mandir to house of Sukhnandan Soni,
	EAST	From the house of Mr. Sukhnandan Soni including the right hand houses passing through Mr. Rasid Khan Aata Chakki including Meat Market to Ganda Nala.
	SOUTH	Towards west from Ganda Nala behind the house of Mr. Pyare Lal Rajak (excluding) to the house of Mr. Jaisawal.
	WEST	From the house of Mr. Jaisawal at Bouri Darwaja towards south in front of Mr. Rakesh Giri house to house of Mr. Rahul Sahu
10. THAKURDAS WARD	Papulation- 2479	
	NORTH	Towards east from Bhan Bhawan (Nutan Bihar Colony), taking the right hand houses of Roraiya Darwaja to house of Mr. Rakesh Giri.
	EAST	From the house of Mr. Rakesh Giri at Roraiya Darwaja to Bouri Darwaja in south
	SOUTH	From Bouri Darwaja to Maharajpura Talab towards west
	WEST	Towards of from Maharajpura Talab including Khushipura and Muktidham of Giri Samaj to Bhan Bhawan.
11. BALMIKI WARD	Papulation- 2703	
	NORTH	After crossing the road from the Nala of Krishi Upaj Mandi, including Ambedkar Park, encircling Bhasu ka Khirak Chhatrawas, including Kunj Bihari Colony, and MLB School to front of Bhan Bhawan Dhonga road.
	EAST	From front of Bhan Bhawan, including right hand side houses, to Maharajpura Talab
	SOUTH	Taking Polytechnic and Stadium from Maharajpura Talab towards West to front of Bhan Bhawan
	WEST	From the front of Bhan Bhawan (near

		Maharajpura pond), through the fields, surrounded by the food office and taking the Pradhan Mantri Aawas, Bidi Mazdoor Colony, to the Nala of Krishi upaj Mandi
12. AMDEKAR WARD	Papulation- 3131	
	NORTH	From Ambedkar Park, encircling the police line, infront of Puran Singh, including P.W.D. Qwarters to the bungalow of Executive Engineer Public Works Department
	EAST	From the bungalow of Executive Engineer Public Works Department, including the R.I bungalow of Police Department from the street of water tank, taking right hand houses from Kunvarpura Darwaja to the house of Mr. Ramraja singh (Roraiya Darwaja).
	SOUTH	From the house of Mr. Ramraja singh (Roraiya Darwaja) towards west, to the MLB School Street Dhonga Road.
	WEST	In MLB School street, towards north from the house of Mr. Nayak taking the right hand side house to the Ambedkar Park at Mandi Road
13. KURE MATE RAMAASARE WARD	Papulation- 3018	
	NORTH	Towards east from the house of Mr. Kadir Khan at Shramdan Marg, including house of Rishaldar at Madar Chhalla to the shop of Shiva Electricals.
	EAST	Towards south from Shiva Electricals including Jawahar Chouraha to the shop of Halku Ram Agrawal in Himanchal Gali
	SOUTH	From the shop of Halku Ram Agrawal, towards west, in Himanchal Gali, including Mr. Honda, Madhav Agrawal Lakhero ka Mandir to shop of Mr. Ramsewak Soni after crossing the road
	WEST	From the shop of Mr. Ramsewak Soni,

		towards west, from the house of Bhagwat Singh towards Shramdan Marg to Mr. Kadir Khan house, excluding the house of Mr. Karim Bakil.
14. LALBAHADUR SHASTRI WARD	Papulation- 2825	
	NORTH	Towards east, from the house Mr. Saleem Hafij, including house of Lalla Mirch wale to Fashion Point shop.
	EAST	Towards south from Fashion Point shop, via Karmabai Market to Shiva Electricals shop
	SOUTH	Towards west from Shiva Electricals Shop to house of Mr. Kadir Khan, Excluding house of Rishaldar
	WEST	Towards north, from the house of Kadir Khan, including the house of right hand side of Mr. Abdul Sakur Manjhle to house of Ajeej Khan, then crossing the road, moving towards north taking house of Balchandra Jain to house of Mr. Saleem Hafij
15. JAWAHAR LAL NEHRU WARD	Papulation- 3230	
	NORTH	From the house of Babulal Kada (crossing the road from Mansuri Kyamagah) to the house of Mr. Rajjak Khan, towards east from the house of Rajjak Khan to the house of Naim Khan including the house of Haji Faij
	EAST	Taking the right hand side houses from the house of Mr. Naim Khan to the house of Inayat Khan, from the house of Inayat Khan, after crossing the road including the house of Yakub Khan on Sharmadan Marg, including the right side of Mr. Karim Bakil and house of Madhav Prasad Upadhayay in Tailang Gali to Rajmahal
	SOUTH	From Rajmahal to the house of Manoj Jain at Roraiya

	WEST	Towards north from the house of Manoj Jain, crossing the road from Mansuri Kyamagah, including house of Babulal Kada to House of Rajjak Khan
16. BHAGWAN MAHAVIR WARD	Papulation- 3107	
	NORTH	Towards east from the house of Mr. Jagdish Prasad Garg to RES Office
	EAST	Towards south from RES Office, including Gol Qwaters to the house of Harlal Sahu
	SOUTH	Towards west from the house of Harlal Sahu, taking right hand side houses, infront of house of Mr. Naim Khan, including house of Najju Khan, crossing the street including the right hand side house, including the house of Mr. Rahim Khan, taking the right hand side house infront of house of Haji Faij Mohammad, passing through narrow passage to house of Mr. Farukh Khan
	WEST	From kunvarpura Darwaja towards Indra colony road, towards north from house of Farukh Khan to House of Jagdish Prasad Garg
17. NETA JI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD	Papulation- 3118	
	NORTH	From the Godown Sandeep Traders on Mandi Road, including Shivr Nagar Colony, to Nagar Palika Office
	EAST	Towards south from Nagar Palika Office to the Bungalow of District Judge
	SOUTH	Towards west from the Bungalow of District Judge, excluding PWD Qwaters, including Subhampuram Colony, passing through Ground of Police lines including right hand side houses to Naaptol Office Ambedkar Park
	WEST	From Naaptol Office Ambedkar Park

		to Godown of Sandeep Traders
18. RAJEEV GANDHI WARD	Papulation- 3248	
	NORTH	Towards east from Mahavir Park to Sail Sagar Chouraha
	EAST	Towards south from Sail Sagar Chouraha to Modi Book Depot including Haweli
	SOUTH	Towards west from the Modi Book Depot to Jawahar Chouk
	WEST	Towards north from Jawahar Chouk via Lokmanya Chouraha to Mahavir Park
19. BHAGAT SINGH WARD	Papulation- 3022	
	NORTH	From shop of Balchandra Jain at Sail Sagar Chouraha, including the house of Dr. Khan, crossing the road from the house of Mr. O.P. Mishra, including shop of Hariram Sindhi, to the house of Mr.Bafati at Jai Stambh
	EAST	From the house of Mr.Bafati, taking Kailash Pati Lodge, Kanya School to shop of Manas Manch and Guru Dwara near Park.
	SOUTH	Taking the right hand side houses from Guru Dwara, via Jadiya Marg, in front of house of Mr.Gullu Bilgaiya, to Nayak Muhalla, taking right hand side houses to house of Ramgarh Wale Jain Sahab
	WEST	Towards north from house of Ramgarh Wale Jain Sahab, including house of Mr. HariVishnu Avasthi, Rajendra Park, Shishu Mandir School, including Shravan Kumar Tiraha, to shop of Balchandra Jain at Sail Sagar
20. NOOR MUHAMMAD WARD	Papulation- 3020	
	NORTH	Towards east from the house of Mr. Rajendra Singh, including house of Mr. Chaturvedi, Pandayana, to the house of

		Mr. Rasik Lal Sharma
	EAST	Towards south from the house of Mr. Rasik Lal Sharma to house of Mr. Rajkumar Sahu in front of Jai Stambh
	SOUTH	From house of Mr. Rajkumar Sahu in front of Jai Stambh, including house of Taiyab Beg, towards Sail Sagar Chouraha to the house of Mr. Jabbar Khan
	WEST	Including the right hand side houses from the house of Mr. Jabbar Khan to the house of Mr. Bhagatram Makkad, including Lakkadkhana and right hand side houses to the house of Mr. Rajendra Singh
21. JANAKI BAAG WARD	Population- 3092	
	NORTH	Towards east from Rajendra Hospital, to jail including Collector bungalow
	EAST	Towards Sail Sagar from Jail including right hand side houses (excluding the houses of Dr. Banarjee) from Sail Sagar Banks including house of Mr. Captain Mumtaj in Pathala muhalla, including right hand side houses from house of Haji Imambakhsha to house of Jagmohan Sharma
	SOUTH	From the house of Mr. Jagmohan Sharma, towards Sail Sagar, to the shop of Jibrail
	WEST	From the shop of Jibrail at Sail Sagar Chouraha to PWD Bungalow in front of Rajendra Hospital
22. GURUNANAK WARD	Population- 2962	
	NORTH	Towards east from the house of Mr. Govardhan Soni in front of Jail to the corner of Ram Janaki Mandir Bhagvant club including post office
	EAST	Towards south from the corner of Ram Janaki Mandir Bhagvant club to house of Mr. Subhash Suri

	SOUTH	Towards west from the house of Mr. Subhash Suri, including Baba Bihari Das Mandir Nagar Palika Old Office, from the house of Mr. Rakesh Advocate to the house of Abdul Saleem
	WEST	Towards north from the house of Abdul Saleem, including the house of Haji Imambaksha, right hand side houses of Sail Sagar, from Idgah colony including house of Dr. Banarjee, to the house of Mr. Govardhan Soni.
23. INDRAGANDHI WARD	Papulation- 2495	
	NORTH	From Chakara Tiraha towards Vinod Kunj, including right hand side houses to Tree of Bariya at Chakara
	EAST	Towards south from the tree of Bariya excluding Kabristan and including right hand side houses and Prasad colony to Chaupuliya.
	SOUTH	Towards west from Chaupuliya to Rajendra Hospital including Friends Colony
	WEST	Towards north from the shops of Nagar Palika at Rajendra Hospital to Chakara Tiraha
24. MAULANA ABUL KALAM AAJAD WARD	Papulation- 2842	
	NORTH	From Railway Bridge to Chhatrasal Gate including Railway Station
	EAST	Including Baikunthi towards south from Chhatrasal Gate to the house of Mr. Bhagirath Tiwari via Bada Majar
	SOUTH	Towards west from the house of Mr. Bhagirath Tiwari to Janaki Baag Mandir, Sai Sport Hostel Choupuliya including Jugal Niwas
	WEST	Towards south from Choupuliya via Prasad Colony (excluding), including

		kabristan and right hand side houses from Chakara Tiraha to Railway Bridge
25. SANJAY GANDHI WARD	Papulation- 2620	
	NORTH	From the house of Mr. Govindra singh Sisodiya to Ganga Setu
	EAST	Towards south from Ganga Setu to Bhawani Setu Chhoti Puliya near MPEB office
	SOUTH	Towards west from Chhoti Puliya Bhawani setu to over head water tank
	WEST	Towards north from over head water tank near Hotel Fort View to the house of Mr. Govindra Singh Sisodiya including Fort And old bus Stand
26. Dr.RAJENDRA PRASAD WARD	Papulation- 2510	
	NORTH	From the house of Mr. Jay Singh Yadav, including house of Parmeshwari Das Kushwaha to Shankargarh forest range office and to wards east from there to street in side of varma Sale petrol Pump
	EAST	From street in side of varma Sale petrol Pump to house of Mr. Mardan Ahirwar.
	SOUTH	From the house of Mr. Mardan Ahirwar, via Hada fields to houses infront District Forest Office near Ganga Setu
	WEST	Crossing the road towards district Forest office, from the house of Mr. Mukund singh to house of Mr. Rasik Lal Sharma, including right hand side houses from here to the house of Mr. Jay singh Yadav
27. CHANDRASHEKHAR WARD	Papulation- 2493	
	NORTH	After crossing the Chhatrashal Gate to Shani Mandir Road, from retaining

		wall of stop Dam to plot of Mr. Siddiq Khaleefa at Sudhasagar Road.
	EAST	Towards north from plot of Mr. Siddiq Khaleefa to the house of Mr. Mardan Ahirwar via fields.
	SOUTH	Towards west from the house of Mr. Mardan Ahirwar to the culvert near varma Petrol pump via fields
	WEST	Towards north from varma sale petrol pump culvert to Chhatrashal Gate towards bus Stand.

HARSHIKA SINGH, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्र. 63, एफ 1-36/2020/18-3 कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित नगर परिषद खिलचीपुर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 30/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 01-02-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

क्रमांक/80/जि.श.वि.अ./

राजगढ़, दिनांक 01.02.2020

क्रमांक/80/जि.श.वि.अ./2020 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, "मैं" निधि निवेदिता कलेक्टर जिला राजगढ़ नगर परिषद खिलचीपुर, जिला राजगढ़ के वार्डों का विभाजन/विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद् द्वारा अवधारित करती हूँ :-

अनुसूची		
क्रमांक	वार्ड नंबर	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)
1	1	हनुमानगढ़ी वार्ड
2	2	प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड
3	3	संत विनोबा वार्ड
4	4	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	5	मौलाना आजाद वार्ड
6	6	नेताजी सुभाष वार्ड
7	7	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
8	8	महाराणा प्रताप वार्ड
9	9	टैगोर वार्ड
10	10	अहिल्या देवी वार्ड
11	11	तिलक वार्ड
12	12	संजय गांधी वार्ड
13	13	सरदार पटेल वार्ड
14	14	महात्मा गांधी वार्ड
15	15	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

वार्ड की सीमाओं का विवरण

वार्ड का नाम	चौहददी
1. हनुमानगढ़ी वार्ड	जनसंख्या 1217
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र.3 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 2 की सीमा दक्षिण में - नगरीय क्षेत्र की सीमा पश्चिम में - नदी गाढ गंगा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 दीपगढ मार्ग-भ.क्र. 74 से 139-मंदिर हनुमान जी से मन्दिर महादेव जी तक। 2 खटीक गली-भ.क्र. 2 से 8 तक केशर बाई के मकान से बापू तक। 3 नीलगर गली-भ.क्र.1 से 24 तक रहीम भाह के मकान से इशाक मोहम्मद के मकान तक 4 छीपा गली-भ.क्र.1 से 39 तक श्री गठन लाल छीपा के मकान से राधेश्याम भार्मा के मकान तक। 5 मोमन गली-भ.क्र.1 से 38 तक शंकरलाल के मकान से मंदिर पंचायत छीपान तक।</p>
2. प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड	जनसंख्या 1415
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र. 3 की सीमा पूर्व में - पपड़ेल मार्ग दक्षिण में - नगरीय क्षेत्र की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 1 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 दीपगढ मार्ग - भ.क्र.1से 73 तक-रमजान खां के मकान से स्कूल भवन एवं दशहरा मैदान सहित। 2 माताजी गली-भ.क्र.1 से 49 तक जगन्नाथ गुप्ता से भूर जी साहू तक। 3 प्रजापत लाईन-भ.क्र.1 से 17(अ) तक आशिक कादरी से रूगनाथ बरजा तक।</p>
3. संत विनोबा वार्ड	जनसंख्या 1352
	<p>उत्तर में - पपड़ेल मार्ग पूर्व में - पपड़ेल मार्ग दक्षिण में - वार्ड क्र. 2 की सीमा तक पश्चिम में - वार्ड क्र. 1 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 सोमवारिया बरडी गली नं.1-भ.क्र.1 से 14 तक शाला भवन एवं चिकित्सालय भवन से नृसिंह मंदिर तक दोनो साईड। 2 सोमवारिया बरडी गली नं.2-भ.क्र.1 से 50 तक राधाकिशन साहू से रामचन्द साहू तक। 3 सोमवारिया बरडी गली नं.3-भ.क्र.1 से 13 तक पन्नालाल से कांता बाई कुम्हार तक। 4 सोमवारिया बरडी गली नं.4-भ.क्र.1 से 38 तक चन्दर लाल काछी से भंवरलाल जाटव तक। 5 सोमवारिया बरडी गली नं.5-भ.क्र.1 से 14 तक झंडु काछी से अर्जुन सेन तक।</p>
4. डॉ. अम्बेडकर वार्ड	जनसंख्या 1425
	<p>उत्तर में - नगरीय क्षेत्र की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 5 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्र. 14 की सीमा पश्चिम में - नगरीय क्षेत्र की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 सरदार पटेल मार्ग-भ.क्र.48 से 71 तक मन्दिर रामदेव जी से मन्दिर लालदासजी तक। 2 हरिजन बस्ती-भ.क्र.1 से 45 तक कैलाशचन्द के मकान से लालजी आदि के मकान तक। 3 हरिजन कालोनी-भ.क्र.1 से 22 तक दुलिया से हजारीलाल के मकान तक। 4 नाहरदा ओंकारेश्वर मार्ग-कालाजी बरडी गोपीलाल से संजय कालोनी भंवरबाई शिव खण्डेलवाल से लालदासजी मंदिर तक।</p>
5. मौलाना आजाद वार्ड	जनसंख्या 1421
	<p>उत्तर में - वार्ड की सीमा पूर्व में - नदी गाडगंगा दक्षिण में - वार्ड क्र.6 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 4 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 सुभाष मार्ग - भ.क्र.2 से 15 एवं 75 से 93 तक-रईस खां से गोपालदास खण्डेलवाल तक एवं गोपाल खण्डेलवाल से भेरुलाल साहू तक। 2 सरदार पटेल मार्ग-भ.क्र.1 से 3 तक नसीम बानो से रोडमल तक।</p>

	<p>3 सुभाष मार्ग गली नं.1-भ.क्र.1 से 23 तक-पानीबाई से अब्दुलहकीम तक। 4 सुभाष मार्ग गली नं.2-भ.क्र.1 से 13 तक-गंगाबाई से सुभान खां तक। 5 लक्ष्मीबाई मार्ग-भ.क्र.63 से 76 तक-शब्बीर हुसैन से फातमा बी तक। 6 नाहरदा ओकारे वर मार्ग-छेलबिहारी से एन.एच. के पूर्व दिशा की ओर होते नाहरदा बरडी सम्पूर्ण शमशान होते हुए पपडेल मार्ग तक।</p>
6. नेताजी सुभाष वार्ड	<p>जनसंख्या 1339</p> <p>उत्तर मे - वार्ड क्र. 5 की सीमा पूर्व मे - वार्ड क्र. 7 की सीमा दक्षिण मे - वार्ड क्र. 15 की सीमा पश्चिम मे- वार्ड क्र. 14 की सीमा</p> <p>इसमे निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 सुभाष मार्ग-भ.क्र.50 से 74 तक-कृष्णगोपाल जोशी से नाथु नीलगर तक। 2 महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग-भ.क्र. 1 से 14-शकुर खां के मकान से मांगीलाल माली तक। 3 महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग गली नं.1-भ.क्र.1 से 46 तक-चन्दाबाई के मकान से मीना देवी कसेरा तक 4 महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग गली नं.2-भ.क्र.1 से 15 तक-रुस्तम खां मकान से मुनीर खां के मकान तक 5 आजाद मार्ग-भ.क्र.1 से 13 तक एवं 35 से 56/3 तक-गीता बाई महाजन से खुदाबक्श गुलाब तक एवं श्रीनाथ, दामोदर से नीता बोहरा तक। 6 आजाद मार्ग गली नं.1- भ.क्र.1 से 9 तक-लाल मियां से युसुफ मोहम्मद के मकान तक। 7 आजाद मार्ग गली नं.2- भ.क्र.1 से 8 - कस्तुरी बाई से कदीर भाई तक। 8 आजाद मार्ग गली नं.3 - भ.क्र. 1 से 24 तक-एहमद खां के मकान से रोशन खां जमाल खां तक</p>
7. जवाहरलाल नेहरू वार्ड	<p>जनसंख्या 1129</p> <p>उत्तर मे - वार्ड क्र. 5 की सीमा पूर्व मे - नदी गाढ़ गंगा दक्षिण मे - वार्ड क्र. 8 की सीमा पश्चिम मे- वार्ड 6 की सीमा</p> <p>इसमे निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 सुभाष मार्ग - भ.क्र.16 से 46 तक-विजय खण्डेलवाल से साहू मन्दिर होते गनी मो.होते जगदीश गुप्ता के मकान तक। 2 रामवचानालय मार्ग-भ.क्र. 1 से 33 तक - प्रेमलता भार्मा के मकान से नारायण कसेरा हनुमान मन्दिर होते शियादाउदी बोहरा जमात मस्जिद मकान तक। 3 विक्रम क्लब मार्ग-भ.क्र.1 से 15/2 तक-मांगीलाल मुनीम जी से दोनो साइड रामनारायण टेलर तक 4 जवाहर मार्ग-भ.क्र.1 से 52-बालकृष्ण गुप्ता से मन्दिर बिहारी जी होते हुए सरदारबाई के मकान से काले खां के मकान तक। 5 जवाहर मार्ग गली नं.1 -भ.क्र.1 से 16 तक-बद्रीप्रसाद व्यास के मकान से लोचनसिंह जी के मकान होते हुए यादव लाल सिंघी तक। 6 टेगौर मार्ग -भ.क्र.1 से 5 तक-भंवरीबाई गुप्ता के मकान से दुकान भंवरलाल गुप्ता तक एवं मोहन सोनी से जगात भवन तक। 7 राजमहल मार्ग-भ.क्र.1 से 10/1 तक एवं 70 से 90 तक-बृजमोहन सराफ के मकान से कन्हैयालाल करोटिया तक एवं रामनाथ लुहार से मन्दिर गोवर्धन नाथजी तक। 8 राजमहल मार्ग गली नम्बर 1-भ.क्र.1 से 8 तक-चमनसिंह के मकान से बख्तावर सिंह जी तक। 9 राजमहल मार्ग गली नं.2-भ.क्र.1 से 12 तक-बल्देव महाजन से गिरिराज गुप्ता तक। 10 राजमहल मार्ग गली नं. 3-भ.क्र.1 से 7/4 तक-माताजी मण्ड से अनिता सिंघी तक। 11 राजमहल मार्ग गली नं. 6-भ.क्र.1 से 16 तक-रणछोडदास जी बागडी के मकान से छगनलाल लुहार तक।</p>
8. महाराणा प्रताप वार्ड	<p>जनसंख्या 1074</p> <p>उत्तर मे - वार्ड क्र. 11 की सीमा पूर्व मे - नदी गाढ़ गंगा दक्षिण मे - वार्ड क्र. 9 की सीमा पश्चिम मे- वार्ड क्र. 11 की सीमा</p> <p>इसमे निम्नलिखित शामिल है -</p> <p>1 खाण्डी पोल हनुमान जी मार्ग-भ.क्र.25 से 48 - हसन खां फकीर से सिद्धीक मोहम्मद होते कदीर खां से आलानवी के मकान से रुस्तम खां तक। 2 खाण्डी पोल हनुमान मार्ग गली नं.1-भ.क्र.1/1 से 37/3 तक-लक्ष्मीबाई सेन से जगदीश सेन तक 3 भोईपुरा मार्ग गली नं.1-भवन क्र.31 से 47 तक-जामा मस्जिद से हुसैना बानो के मकान तक।</p>

9. टैगोर वार्ड	जनसंख्या 1085
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र. 8 की सीमा पूर्व में - नदी गाड गंगा दक्षिण में - वार्ड क्र. 10 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 12 व 13 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 भोईपुरा मार्ग-भ.क्र.1 से 33 तक-खेमचन्द मेवाड़े से पशुचिकित्सालय होते हाफिज मोह.के मकान तक 2 भोईपुरा मार्ग गली नं.1- भ.क्र.1 से 30 तक-गोपीलाल भोई के मकान से मांगीलाल मेवाड़े तक। 3 पटवा बाजार मार्ग-भ.क्र.1 से 26 एवं 39 से 58 तक-बिट्टल पोखर से रामसुखी बाई होते जगदीश भण्डारी से चन्दाबाई पोखर के मकान तक। 4 विश्राम गृह मार्ग- भ.क्र.1 से अन्त तक भेरू कुम्हार के मकान से मण्डी होते एस.डी.एम.क्वार्टर होते देवीलाल वर्मा तक।
10. अहिल्या देवी वार्ड	जनसंख्या 1412
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र. 9 की सीमा पूर्व में - नदी गाडगंगा दक्षिण में - नगरीय क्षेत्र की सीमा पश्चिम में - नगरीय क्षेत्र की सीमा एवं वार्ड 14 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 राजगढ़ जीरापुर मार्ग - श्रीराम पेट्रोल पम्प से सम्पूर्ण गायत्री कालोनी क्षेत्र तहसील कार्यालय न्यायालय भवन क्षेत्र होते एन.एच. दक्षिण दिशा की ओर मोती महाराज होते दांगी के मकान तक एवं दांगी छात्रावास से विद्युत मण्डल एवं पुलिस लाइन तक। 2 राजगढ़ जीरापुर मार्ग - गायत्री मंदिर भासकीय क्वार्टर संतोष चौहान के क्वार्टर तक एवं मण्डी से नूरजहां के मकान तक। 3 गायत्री कालोनी की समस्त गलियां। 4 छापीहेड़ा रोड़ दोनो साइड।
11. तिलक वार्ड	जनसंख्या 1247
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र. 7 की सीमा पूर्व में - नदी गाड गंगा दक्षिण में - वार्ड क्र. 8 व 12 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 12 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 टैगोर मार्ग - भ.क्र.23 से 62 तक एवं 65 से 98 तक-गुर्जर गौड़ पंचायत से बद्रीलाल सोनी तक एवं चौधरी मेडिकल से मनोज भार्मा तक। 2 टैगोर मार्ग गली नं.1 - भ.क्र.1 से 5 तक-मूलचन्द के मकान से प्रभुलाल महाजन के मकान तक। 3 टैगोर मार्ग गली नं.2 - भ.क्र.1 से 8 तक-श्री बल्लभ गुप्ता के मकान से रेखा गुप्ता तक। 4 राजमहल मार्ग - भ.क्र.11 से 23 तक 40 से 69 तक-भरतलाल सिंधी से अधिकारी जी के मंदिर तक एवं श्री बल्लभ महाजन से लक्ष्मीनारायण सराफ तक। 5 राजमहल मार्ग गली नं.4-भ.क्र.1 से 16(अ) तक-मदन मोहन के मकान से हरिनारायण सोलंकी तक। 6 राजमहल मार्ग गली नं.5-भ.क्र.1 से 11 तक-दामोदर पुरोहित से श्याम सुन्दर शर्मा तक। 7 राजमहल मार्ग-भ.क्र. 24 से 39- राजमहल से दामोदरदास तक। 8 खाण्डीपोल हनुमानजी मार्ग-भ.क्र.1 से 24 तक-धर्मशाला से गीताबाई शंकरसिंह के मकान तक।
12. संजय गांधी वार्ड	जनसंख्या 1188
	<p>उत्तर में - वार्ड क्र. 7 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 11 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्र. 13 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 15 की सीमा</p> <p>इसमें निम्नलिखित शामिल है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 टैगोर मार्ग - भ.क्र.63 एवं 64-बिहारी बल्लभ व्यास से नरेन्द्र व्यास तक। 2 टैगोर मार्ग गली नं.3 - भ.क्र.1 से 4 तक-मानसिंह के मकान से भातिबाई तक। 3 टैगोर मार्ग गली नं.4 - भ.क्र.1 से 3/1 तक-रमेशचन्द्र के मकान से कैलाश सेन तक। 4 टैगोर मार्ग गली नं.5 - भ.क्र. 1 से 16 तक-सीताबाई के मकान से नानीबाई पंचौली तक एवं जुम्मीबाई से शंकरदयाल श्रीवास्तव तक। 5 पटवा बाजार मार्ग गली नं. 1-भ.क्र.1 से 9/1 तक-श्यामबिहारी सेन से बल्लभदास जोगी तक। 6 पटवा बाजार गली नं. 2-भ.क्र.1 से 17 तक-गोवर्धनलाल भार्मा से बृजमोहन सेन तक। 7 बड़ी गली-भ.क्र.1 से 94 तक-पुरुषोत्तम धोबी से भेरूलाल महाजन तक एवं बाबुलाल सिंधी से

	भंवरलाल बाबर होते हुए बद्रीलाल चौधरी तक। 8 बड़ी गली नं.1 - भ.क्र.1 से 21 तक-बालकृष्ण सराफ से होते मोतीलाल महाजन के मकान से नारायण लुहार होते पूनमचन्द माली तक।
13. सरदार पटेल वार्ड	जनसंख्या 1075
	उत्तर में - वार्ड क्र. 15 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 9 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्र. 10 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 14 की सीमा इसमें निम्नलिखित शामिल है - 1 क्षीर सागर मार्ग- भ.क्र.1 से 23-मांगीलाल जी साहू के मकान से पुनमचन्द वर्मा तक दोनों साईड रतनलाल जी वर्मा तक। 2 जय स्तम्भ मार्ग - भ.क्र.46 से 54 तक- रंजीतसिंह के मकान से लालचन्द जी घोसी तक। 3 सरदार पटेल मार्ग - पांचूबाई माली के मकान से दांगी के मकान तक एवं क्षीर सागर पुलिया से देशप्रेमी गली होते अस्पताल कालोनी, बिहारी कालोनी होते स्टेडियम तक। 4 पटवा बाजार गली नं. 3 - भ.क्र.1 से 16 तक-मांगीलाल जोगी से भेरूलाल महाजन तक 5 पटवा बाजार मार्ग- भ.क्र. 27 से 32 - नाथुलाल साहू से धापुबाई गुप्ता तक।
14. महात्मा गांधी वार्ड	जनसंख्या 1264
	उत्तर में - वार्ड क्र. 4 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 13 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्र. 10 की सीमा पश्चिम में - नगरीय क्षेत्र की सीमा इसमें निम्नलिखित शामिल है - 1 सरदार पटेल मार्ग - खाण्डी बाउडी रोड रामबाबू के मकान से फलौदी लॉज होते हुए प्यारेलाल मालाकार कालोनी होते शुभम गार्डन के पीछे होते काका कालोनी, पंचमुखी कालोनी नगर पंचायत कार्यालय तक। 2 सरदार पटेल मार्ग - ग्यारसी राम माली के मकान से रामकिशन गुप्ता की दुकान तक। 3 लक्ष्मीबाई मार्ग - भ.क्र.15 से 62 तक-मांगीलाल माली के मकान से राधेश्याम साहू के मकान तक एवं पुराने नगर पालिका कार्यालय से होते गजरीबाई बलाई तक। 4 आजाद मार्ग-भ.क्र.14 से 34 तक-पुरीलाल गंगाधर कुसुम्बिया से सुरेश वर्मा, मोहन मालाकार होते हुए केसरीमल से पन्नालाल तेली तक। 5 जय स्तम्भ मार्ग- भ.क्र.1 से 6 तक-कैलाश सेन की दुकान से बृजमोहन गुप्ता की दुकान तक।
15. महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	जनसंख्या 1245
	उत्तर में - वार्ड क्र. 6 की सीमा पूर्व में - वार्ड क्र. 12 की सीमा दक्षिण में - वार्ड क्र. 12 व 14 की सीमा पश्चिम में - वार्ड क्र. 13 की सीमा इसमें निम्नलिखित शामिल है - 1 जय स्तम्भ मार्ग - भ.क्र.7 से 45 एवं 55 से 77 तक-आयुर्वेदिक औषधालय से चौकी नगर पालिका तक एवं गोवर्धनलाल गुप्ता के मकान से जिनिंग फेक्ट्री तक। 2 नगर पालिका मार्ग - भ.क्र.1 से 42 तक - दामोदर दास महाजन से माली मन्दिर तक एवं मांगीलाल जी साहू से प्यारेलाल तक। 3 मोग्या गली - भ.क्र.1 से 20 तक - कृष्णाबाई साहू से स्थान देवीजी तक। 4 माली गली - भ.क्र.1 से 22 तक - रामसिंह माली से रमेशचन्द मालाकार तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 01 February 2020

No. 80 /DUDA/2020 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (No. 37 year 1961). "I" Nidhi Nivedita Collector Rajgarh (M.P.) here by extent of wards of Municipal Council Khilchipur, District-Rajgarh as determine the schedule below. :-

SCHEDULE		
S.N.	WARD NO.	WARD NAME
(1)	(2)	(3)
1	1	HANUMAN GADI WARD
2	2	PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI WARD
3	3	SANT VINOBA WARD
4	4	DR. AMBEDKAR WARD
5	5	MOLANA AZAD WARD
6	6	NETA JI SUBHASH WARD
7	7	JAWAHAR LAL NEHRU WARD
8	8	MAHARANA PRATAP WARD
9	9	TEGORE WARD
10	10	AHILYA DEVI WARD
11	11	TILAK WARD
12	12	SANJAY GANDHI WARD
13	13	SARDAR PATEL WARD
14	14	MAHATMA GANDHI WARD
15	15	MAHARANI LAXMI BAI WARD

Description of the Boundaries of Ward

Ward Name	Area
1. HANUMAN GADI WARD	Papulation - 1217
	North - Ward No. 3 Border East - Ward No. 2 Border South - Nagri area border West - River Gadganga It includes the following 1. Deepgadh Marg H.N. 74 to 139 Hanuman Mandir To Mandir Mahadev till 2. Khatik Gali H.N. 2 to 8 till Kesar Bai House to Bapulal 3. Nilagar Gali H.N. 1 to 24 Till Rahim Sah house to Ishak Mohammad House 4. Cheepa Gali H.N. 1 to 39 Till Shri Gathan lal Cheepa House to RadheshyamSharma House 5. Moman Gali H.N. 1 to 38 till Shankar Lal House to Mandir Panchayat Cheepa
2. PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI WARD	Papulation - 1415
	North - Ward No. 3 Border East - Papdel Marg South - Nagri area border West - Ward No. 1 Border It includes the following 1. Deepgadh Marg H.No. 1 to 73 till Ramjan Khan House to School Bulding& Dashara Medan 2. Mataji Gali H.No. 1 to 49 till Jagannath Gupta to Bhutu Ji Sahu 3. Prajapat Line H.No. 1 to 17(A) till Ashik Quadri to Rughnath Barja
3. SANT VINOBA WARD	Papulation - 1392
	North - Papdel Marg East - Papdel Marg South - Ward No. 2 Border West - Ward No. 1 Border It includes the following 1. Somwariya Badli Gali No. 1 H.N. 1 to 14 Shala Bhawan & Hospital Bulding to Nursih Mandir Dubul Side 2. Somwariya Badli Gali no. 2 H.N. 1 to 50 till Radhakishan Sahu to Ramchandra Sahu House 3. Somwariya Badli Gali no. 3 H.N. 1 to 13 till Pannalal to Kanta Bai Kumhar 4. Somwariya Badli Gali no. 4 H.N. 1 to 38 Chandarlal Kachi to Bhanwarlal Jatav 5. Somwariya Badli Gali no. 5 H.N. 1 to 14 Jhandu Kachi to Arjun Sen
4. DR. AMBEDKAR WARD	Papulation - 1425
	North - Town Area Border East - Ward No. 5 Border South - Ward No. 14 Border West - Town Area Border It includes the following 1. Sardar patel Marg - H.N. 48 to 71 till Mandir Ramdev ji toMandir Lal Das Ji 2. Harijan Basti - H.N. 1 to 45 till Kailash Chandra to Lal Ji other House

	3. Harijan Colony – H.N. 1 to 22 till Duliya to Hajari lal House 4. Naharda Ounkareshwar Marg- Kala ji Badli, Gopilal House to Sanjay Colony Bhanwari Bai, SHiv Khandelwal to Laldas Ji Mandir
5. MOLANA AZAD WARD	Population – 1421
	North – Ward Border East – River Gadganga South – Ward No. 6 Border West – Ward No. 4 Border It includes the following 1. Subhash Marg – H.N. 2 to 15 & 75 to 93 Rais Kha to Gopal Das Khandelwal & Gopal Khandelwal to Bherulal Sahu 2. Sardar patel Marg – H.N. 1 to 3 Nasim Bano to Rodmal House 3. Subhash Marg Gali No. 1 - H.N. 1 to 23 Pani Bai to Abdul Hakim House 4. Subhash Marg Gali No. 2 – H.N. 1 to 13 Ganga Bai to Subhan Khan House 5. Laxmi Bai Marg – H.N. 63 to 76 Shabbir Husain to Fatima Bee 6. Naharda Ounkareshwar Marg - Chelbihari to NH East Naharda Badli Sampurn Shamshan to Papdel Marg
6. NETA JI SUBHASH WARD	Population – 1339
	North – Ward No. 5 Border East – Ward No. 7 Border South – Ward No. 15 Border West – Ward No. 6 Border It includes the following 1. Subhash Marg - H.N. 50 to 74, Krishnagopal Joshi to Nathu Nilgar 2. Maharani Laxmi Bai Marg – H.No. 1 to 14 Shakur Khan to Mangilal Mali House 3. Maharani Laxmi Bai Marg Gali no. 1 - H.N. 1 to 46 Chanda Bai to Meena Devi Kasera House 4. Maharani Laxmi Bai Marg Gali no. 2 – H.N. 1 to 15 Rustam Khan to Munir Khan House 5. Azad Marg – H.N. 1 to 13 & 35 to 56/3 – Gita Bai Mahajan to Khudabaksh Gulab Hote huye Shrinath Damodar to Neeta Bohra Tak. 6. Azad Marge Gali no. 1 – H.N. 1 to 9 Lal Miya to Yusuf Mohammad House 7. Azad Marg Gali No. 2 – H.N. 1 to 8 Kasturi Bai to Kadeer Bhai House 8. Azad Marg Gali No. 3 – H.N. 1 to 24 Ahmad Khan to Roshan Khan, Jamal Khan House
7. JAWAHAR LAL NEHRU WARD	Population – 1129
	North – Ward No. 5 Border East – River Gadganga South – Ward No. 8 Border West – Ward No. 6 Border It includes the following 1. Subhash Marg – H.N. 16 to 46 Vijay Khandelwal to Sahu Mandir, Gani Mo., Jagdish Gupta House 2. Ramwachnalaya Marg H.N. 1 to 33 Premata Sharma to Narayan kasera, Hanuman Mandir & Siya daudi Bohra Jamat Masjid House 3. Vikram Club Marg H.N. 1 to 15/2 – Mangilal Munim ji to Ramnarayan Tailor house 4. Jawahar Marg – H.No. 52 Balkrishna Gupta, Mandir Bihari Ji to Sardar Bai House to Kalekhan House 5. Jawahar Marg Gali no. 1 – H.N. 1 to 16 Badriprasad Vyas to Lochan Singh House to Yadav Lal Singhi House

	6. Tegore Marg – H.N. 1 to 5 – Bhanwari Bai Gupta House to Bhanwarlal Gupta Shop & Mohan Soni to Jagat Bulding. 7. Rajmahal Marg – H.N. 1 to 10/1 till & 70 to 90 Brajmohan Saraf to Kanheyalal Karotiya House & Ramnath Luhar to Mandir Gordhan Nath 8. Rajmahal Marg Gali No. 1 – H.No. 1 to 8 Chaman Singh House to Bakhtawar Singh House 9. Rajmahal Marg Gali No. 2 – H.N. 1 to 12 till Baldev Mahajan to Giriraj Gupta House 10. Rajmahal Marg Gali No. 3 – H.N. 1 to 7/4 Mataji Mand to Anita Singhi 11. Rajmahal Marg Gali No. 6 – H.N. 1 to 16 Ranchode Das Bagdi To Chagan Lal Luhar House
8. MAHARANA PRATAP WARD	Population – 1074
	North – Ward No. 11 Border East – River Gadganga South – Ward No. 9 Border West – Ward No. 11 Border It includes the following 1. Khandi Pol Hanuman Ji Marg – H.N. 25 to 48 - Hasan Khan Fakir to Sidhik Mohammad hote huye Kadir Khan to Alimabi House to Rustam Khan 2. Khandi pol Hanuman Ji Marg Gali No. 1 – H.N. 1/1 to 37/3 - Laxmi bai Sen to Jagdish Sen 3. Bhoipura Marg gali No. 1 – H.N. 31 to 47 - Jama Masjid to Husena Bano House
9. TEGORE WARD	Population – 1085
	North – Ward No. 8 Border East – River Gadganga South – Ward No. 10 Border West – Ward No. 12 & 13 Border It includes the following 1. Bhoipura Marg – H.N. 1 to 33 – Khemchand Mewade to Pashu Hospital, Hafiz Moh. House 2. Bhoipura Marg Gali No. 1 – H.N. 1 to 30 - Gopilal Bhoi to Mangilal Mewade House 3. Patwa Bazar Marg – H.N. 1 to 26 & 39 to 58 - Bitthal Pokhar to Ramsukhi Bai, Jagdish Bhandari to Chanda Bai Pokhar House. 4. Vishram Grah Marg – H.N. 1 to End - Bherulal Kumhar & Mandi, SDM House to Devilal Verma House
10. AHILYA DEVI WARD	Population – 1412
	North – Ward No. 9 Border East – River Gadganga South – Nagriya Area Border West – Nagriya Area Border & Ward No. 14 Border It includes the following 1. Rajgarh-Zirapur Marg – Shriram Petrol Pump to Shampurna Gayatri Colony Area Tehsil Karyalaya to Nyayalaya bhawan to North NH & Moti Maharaj, Dangi Bhawan & Dangi Chatrawas to Vidhyut Mandal & Police Line. 2. Rajgarh-Zirapur Marg – Gayatri Mandir To Saskiya Quarter Santosh Chouhan Qurter to Mandi & Nurjaha House 3. Gayatri Colony ki Samast Galiya 4. Chhapiheda Naka Dono Side
11. TILAK WARD	Population – 1247
	North – Ward No. 7 Border East – River Gadganga

	<p>South - Ward No. 8 & 12 Border West - Ward No. 12 Border</p> <p>It includes the following</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tegore Marg - H.N. 23 to 62 & 65 to 98 Gurjar God Panchayat to Badrilal Soni & Choudhry Medical to Manoj Shurma House 2. Tegore Marg Gali No. 1 - H.No. 1 to 5 - Mulchand to prabhulal Mahajan House 3. Tegore Marg Gali No. 2 - H.No. 1 & 8 - Shri Ballabh Gupta to Rekha Gupta House 4. Rajmahal Marg - H.N. 11 to 23, 40 to 69 - Bharat lal Singhi to Adhikari Mandir & Shri Ballabh Mahajan to Laxminarayan Sarraf. 5. Rajmahal Marg Gali No. 4 - H.N. 1 to 16(A) - Madan Mohan to Harinarayan Solanki House 6. Rajmahal Marg Gali No. 5 - H.N. 1 to 11 - Damodar Purohit To Shyam Sundar Sharma 7. Rajmahal Marg - H.N. 24 to 39 - Rajmahal to Damodar Das. 8. Khandi Pol Hanuman Ji Marg - H.N. 1 to 24 - dharmshala to Shankar Singh till.
12. SANJAY GANDHI WARD	Population - 1188
	<p>North - Ward No. 7 Border East - Ward No. 11 Border South - Ward No. 13 Border West - Ward No. 15 Border</p> <p>It includes the following</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tegore Marg - H.N. 63 & 64 - Bihari Ballabh Vyas to Narendra Vyas 2. Tegore Marg Gali No. 3 - H.No. 1 to 4 - Maan singh To Shanti Bai House 3. Tegore Marg Gali No. 4 - H.No. 1 to 3/1 - Ramesh Chand to Kailash Sen House 4. Tegore Marg Gali No. 5 - H.No. 1 to 16 Seeta Bai to Nani Bai Pancholi House & Jummi Bai to Shankar Dayal Shrivastava 5. Patwa Bazar Marg Gali No. 1 - H.N. 1 to 9/1, Shyam Bihari Sen to Ballabh Das Joshi 6. Patwa Bazar Gali No. 2 - H.N. 1 to 17 Gordhan Lal Sharma Brajmohan Sen 7. Badi Gali - H.N. 1 to 94 - Purushottam Dhobi to Bherulal Mahajan & Babu lal Singh to Bhanwarlal Babar, Badrilal Choudhry 8. Badi Gali No. 1 - H.N. 1 to 21 - Balkrishna Saraf to Motilal Mahajan, Narayan Luhar to punam chand Mali House
13. SARDAR PATEL WARD	Population - 1075
	<p>North - Ward No. 15 Border East - Ward No. 9 Border South - Ward No. 10 Border West - Ward No. 14 Border</p> <p>It includes the following</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sheersagar Marg - H.N. 1 to 23 - Mangilal Sahu to Punamchand Verma House to side Ratan Lal Verma 2. Jay Stambh Marg - H.N. 46 to 54 - Ranjit Singh To Lal Chand Ghosi House 3. Sardar Patel Marg - Panchu bai Mali to Dangi House & Sheersagar Puliya to Desh Premi Gali & Hospital Colony, Bihari Colony & Stedium 4. Patwa Bazar Gali No. 3 - H.N. 1 to 16 Mangilal Joshi to Bherulal Mahajan 5. Patwa Bazar Marg - H.N. 27 to 32 Nathulal Sahu to Dhapu Bai Gupta

14. MAHATMA GANDHI WARD	Papulation – 1264
	<p>North – Ward No. 4 Border East – Ward No. 13 Border South – Ward No. 10 Border West – Nagriya Area Border</p> <p>It includes the following</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sardar Patel Marg – Khandi Bawdi Road Rambabu, Falodi Lodge to Pyarelal Mali Colony & Shubham Garden ke piche kaka colony, Panchmukhi colony Nagar Parishad Karyalay till. 2. Sardar Patel Marg – Gyarsi ram mali House to Ramkishan Gupta shop 3. Laxmi Bai Marg – H.N. 15 to 62 – Mangilal Mali to Radheshyam Sahu House & Old Nagar Palika to Gajri Bai balai House 4. Azad Marg – H.N. 14 to 34 – Purilal Gangadhar Kusumbia to Suresh Verma, Keshrimal to Pannalal Bhanwarlal Teli House. 5. Jay Stambh Marg - H.N. 1 to 6 – Kailsh Sen shop to Brajmohan Gupta to shop
15. MAHARANI LAXMI BAI WARD	Papulation - 1245
	<p>North – Ward No. 6 Border East – Ward No. 12 Border South – Ward No. 12 & 14 Border West – Ward No. 13 Border</p> <p>It includes the following</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jay Stambh Marg – H.N. 7 to 45 & 55 to 77 – Ayurvedik Aushdhalaya to Choki Nagar Palika & Gordhan lal Gupta House to Jining Factory 2. Nagar Palika Marg – H.N. 1 to 42 - Damodar das Mahajan To Mali Mandir & Mangilal Sahu to Pyarelal 3. Mogya Gali – H.N. 1 to 20 - Krishna Bai Sahu to Devi Sthan 4. Mali Gali - H.N. 1 to 22 – Ramsingh Mali to Ramesh Chand Malakar

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

NIDHI NIVEDITA, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्र. 64, एफ 1-34/2020/18-3 कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा प्रेषित नगर पालिका परिषद शुजालपुर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 48/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 31-01-2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, (शहरी विकास) जिला शाजापुर (म.प्र.)

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. 48 जिला शहरी विकास अभिकरण नगरपालिका परिसीमन प्रकाशन 2020— मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37, सन 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, वीरेन्द्रसिंह रावत कलेक्टर, जिला शाजापुर एतद्वारा नगरपालिका शुजालपुर जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है।

अनुसूची

स.क्रमांक. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	वार्ड का नाम (3)
1	1	अशोक वार्ड
2	2	जयेश्वर वार्ड
3	3	छत्रपति शिवाजी वार्ड
4	4	किदवाई वार्ड
5	5	महावीर वार्ड
6	6	तिलक वार्ड
7	7	दयानंद वार्ड
8	8	अम्बेडकर वार्ड
9	9	रानी दुर्गावती वार्ड
10	10	मारुति वार्ड
11	11	महात्मा गांधी वार्ड
12	12	प्रेमचंद वार्ड
13	13	डॉ. शंकरदयाल वार्ड
14	14	रामचंद्र चौबे वार्ड
15	15	जचाहर वार्ड
16	16	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
17	17	लक्ष्मीबाई वार्ड
18	18	प्रताप वार्ड
19	19	अरविन्द वार्ड
20	20	महाराज अग्रसेन वार्ड
21	21	मोती वार्ड
22	22	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
23	23	शहीद भगतसिंह वार्ड
24	24	सुभाष चंद्र वार्ड
25	25	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

वार्ड नं. 1 अशोक वार्ड (जनसंख्या-2217)

उत्तर — वार्ड नं. 3 की सीमापूर्व — मोहम्मद शाह की बाड़ी से हनुमान मंदिर

पूर्व — जमघड. नदी का नाला

दक्षिण — वार्ड नं. 2 की सीमा

पश्चिम — वार्ड नं. 2 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 1 में सम्मिलित है— बंजीपुरा हरिजन मोहल्ला मलकपुरा का भाग खंरा कुआ. हरिजन बस्ती इस प्रकार बंजीपुरा के मोहम्मद फकीर के मकान से समस्त बंजीपुरा की बसाहट अंदर लेते हुये वहां से खारा कुआ के मूलचंद अहीर के मकान, व सम्पूर्ण नाई बाखल को अंदर लेते हुये लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान तक वहां से संतय प्रकाश जी रमजानी तेली के मकान को अंदर लेकर मदनलाल तेली के मकान व वहां से सामने गली में मुडकर ताराचंद धोबी ताराचंद नेमा की बाखल

को अंदर लेकर नाले के सहारे मलकपुरा इकराम पान वाले का मकान हीरालाल हरिजन का मकान अंदर लेते हुये बंजीपुर पुलिया से मोहम्मद फकीर के मकान तक के बीच का भाग।

वार्ड नं 02 जयेश्वर वार्ड (जनसंख्या-1876)

उत्तर - शांतिलाल के मकान से कैलाश काका का मकान

पूर्व - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

दक्षिण - जमधड नदी

पश्चिम - वार्ड नं. 6 की सीमा

एरिया जो वार्ड 02 में सम्मिलित है- खाराकुआ का भाग जयेश्वर मार्ग, बनियासेरी, हलवाईसेरी का भाग, महाराज फूलकुंवर मार्ग का भाग व किला, इस प्रकार सेन्डू पहलवान की बाखल को अंदर लेते हुये नन्हे खॉ पिंजारे के मकान से चिरौंजीलाल पटवारी के मकान तक वहां से खारे कुए के राजमल जी कोठेवाले कोठे अंदर लेते हुये मदनसिंह सर्राफ के मकान से शांतिलाल सूरजमल के मकान तक तथा सामने के मकान यादव रमेश राजपूत भंवरलाल दर्जी राधेलाल यादव अंदर लेते हुये वहा से गेंदमल बोरवाले, कैलाश काका के मकान को अंदर लेकर मोतीलाल सर्राफ के मकान नए भवन तक व वहां से जयेश्वर मार्ग पर धनराज नेमा के मकान वाली लाईन से विश्वास राव के मकान राजा भैया के मकान तक की लाईन अंदर लेते हुये समस्त किला क्षेत्र अंदर लेकर सेन्डू पहलवान की बाखल के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 3 छत्रपति शिवाजी वार्ड (जनसंख्या-1850)

उत्तर - वार्ड क्रमांक 4 की सीमा

पूर्व - भंवर जी से नन्हे खॉ मलकपुरा के मकान तक

दक्षिण - वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

पश्चिम - वार्ड नं. 5 व 2 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 3 में सम्मिलित है- मलकपुरा का भाग कुम्हार वाडी गली हलवाई सेरी का भाग गस्तीपुरा का भाग युसूफ मेहर अली मार्ग का भाग इस प्रकार मंगल खॉ, शेर खॉ के मकान से बशीर सुपरवाईजर का मकान व सुबान खॉ दारुगर के मकान को अंदर लेते हुये, इसी गली के जगन्नाथ नेमा छोगमल नेमा सत्यप्रकाश जी सक्सेना नाथूदास महाराज के मंदिर को अंदर लेते हुये उसी गली के पूर्व की ओर मुडकर फुन्दीलाल के मकान तक व युसूफ मेहरअली मार्ग पर रमजान खॉ वकील साहब के मकान को अंदर लेते हुये गस्तीपुरा रोड से भंवरजी के मकान तक व वहां से रिंग रोड पर तालाब वाला मंदिर नन्हे खॉ चपरासी मलकपुरा के मकान को अंदर लेते हुये मंगल खॉ के मकान तक के बीच का एरिया।

वार्ड नं. 4 किदवई वार्ड (जनसंख्या-2349)

उत्तर - भीमपुरा मस्जिद से अब्दुल रशीद का बीच का एरिया।

पूर्व - वार्ड नं. 3 की सीमा

दक्षिण- भोलू सुतार के मकान से सिंधी की दुकान तक।

पश्चिम - चांद बैग की हवेली से मालगुजार साहब का नेहरा

एरिया जो वार्ड नं. 4 में सम्मिलित है- युसूफ मेहरअली मार्ग का भाग गस्तीपुरा का भाग भीमपुरा कन्या शाला मार्ग का भाग इस प्रकार युसूफ मेहरअली मार्ग के भोलू सुतार के मकान से उत्तर की ओर मुडकर स्वरमजान खॉ वकील साहब के नये मकान से उत्तर की ओर मुडकर हयातगुल पठान के मकान व डॉ. खान के मकान भीमपुरा मस्जिद को अंदर लेते हुये शिवाजी राव देशमुख के नेहरे के अहमद खॉ के मकान व चांद बैग की हवेली अंदर लेते हुये इसी गली के पूर्व की ओर मुडकर नसीर मिस्त्री के मकान से धन्ना जी के मकान तक वहां से भोलू सुतार के मकान तक के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 5 महावीर वार्ड (जनसंख्या-1898)

उत्तर - वार्ड क्र 8 की सीमा।

पूर्व - वार्ड नं. 3 की सीमा

दक्षिण - वार्ड नं. 2, 6 व 7 की सीमा

पश्चिम - कन्या शाला मार्ग व वार्ड नं. 7 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 5 में सम्मिलित है- फदालीपुरा का सम्पूर्ण भाग काजीपुरा स्वामी विवेकानंद मार्ग का भाग कन्या शाला मार्ग का भाग ओसवालसेरी का भाग छोटे बाजार का भाग बड़ा बाजार का भाग इस प्रकार अवतिबाई भंवरलाल के मकान से कन्हैयालाल अहिर का मकान तक व वहां से मुडकर हजारीलाल होटल वाले के मकान से उत्तर की ओर मुडकर काजीपुरा मस्जिद अंदर लेते हुये इसी लाईन के मकान गंगाप्रसाद नंदकिशोर को अंदर लेते हुये सामने सम्मी ड्रायवर के मकान को अंदर लेते हुये देवा माली के मकान युसूफ मेहर अली मार्ग के मकान तक व वहां से पूर्व की ओर मुडकर एवं हेमराज सुतार चिमुबाई हकिम खॉ तेली व गली के सहारे गप्पु पहलवान के मकान से रोड कास कर सोनी का मकान तथा मोती मस्जिद रोड कास कर सोनी के मकान से बाबू जैन नेमा का मकान हकिम जी का बाड़ा अंदर लेकर धनराज नेमा की दुकान से शायर चबुतरा से अवतिबाई भंवरलाल तक का बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 6 तिलक वार्ड (जनसंख्या-1991)

उत्तर - गणेश मंदिर से राजा भैया के मकान तक

पूर्व - वार्ड नं. 2 की सीमा

दक्षिण - नदी

पश्चिम - वार्ड नं. 7 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 6 में सम्मिलित है- देवी मंदिर रोड तम्बोलीपुरा लखेरवाडी का भाग डाबरीपुरा का भाग एवं टिले की बसाहट इस प्रकार छोटे बाजार में गणेश मंदिर से प्रारम्भ होकर इसी लाईन के मकान बाबूलाल सोनी लड्डू गुरु जैन मंदिर के पास की बसाहट जामा मस्जिद क्षेत्र की बसाहट राजा भैया वाकनकर का मकान अंदर लेकर सम्पूर्ण टिला क्षेत्र की बसाहट अंदर लेकर आत्माराम पटवारी से कुंवर जी चौधरी के मकान तथा पश्चिम की ओर मुडकर रामप्रसाद वैद्य दांडेकर वकील सा. मंदिर वाली गली के मकान अंदर लेते हुये इसी गली के सहारे मकान बसीर मास्टर दिल मोहम्मद के मकानों को अंदर लेते हुये लखेरवाडी तक तथा वहा से मुडकर देवी मंदिर रोड के पश्चिमी मकानों की बसाहट अंदर लेते हुये सम्पूर्ण तम्बोलीपुरा की बसाहट अंदर लेकर गणेश मंदिर तक के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 7 दयानंद वार्ड (जनसंख्या-2355)

उत्तर - डॉ. दवे की दुकान से नूरपुरा के कल्लू पान वाले के मकान तक नूरपुरे का सम्पूर्ण एरिया।

पूर्व - हनुमान मंदिर से रामसिंह चौधरी तक

दक्षिण - जमघड़ नदी

पश्चिम - वार्ड नं. 8 व 11 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 7 की सीमा में सम्मिलित है- मरेठीपुरा डाबरीपुरा का भाग त्रिपोलिया बाजार का भाग नूरपुरा का सम्पूर्ण भाग व बडा बाजार का भाग इस प्रकार हनुमान मंदिर से प्रारम्भ होकर रामसिंह चौधरी के मकान को अंदर लेते हुये सम्पूर्ण मरेठीपुरा की बसाहट अंदर लेकर सत्यनारायण मंदिर मार्ग पर रामनारायण दर्जी के मकान से श्रीमती विद्यादेवी श्रीवास्तव के बंद रिक्त पडे मकान को अन्दर लेते हुये सामने गली के मकान माखन दर्जी लक्ष्मण माली मनोहरसिंह के मकान रखबदास जी के निवास वाले मकान को अंदर लेते हुये त्रिपोलिया बाजार के मकानों को अंदर लेकर केशरीमल मोची के मकान से रोड कास कर शबीर जुते वाले बालकृष्ण बेरागी के मकान से डॉ. दवे की दुकान तथा वहा से बडा बाजार का भाग अंदर लेते हुये पचौर रोड पर इब्राहिम खों के मकान से पूर्व की ओर मुडकर राजमल दर्जी का बाडा तथा वहां से गोरे सा. का मकान तथा हनुमान मंदिर के बीच की समस्त बसाहट।

वार्ड नं. 8 अम्बेडकर वार्ड (जनसंख्या-2077)

उत्तर - उगली जोड

पूर्व - वार्ड नं. 5,7 की सीमा

दक्षिण - वार्ड 7 की सीमा

पश्चिम - वार्ड 9 की सीमा

डॉ. युसूफ खों के मकान से दाण्डेकर मार्ग होते हुये रामदयाल के मकान को लेते हुये मुल्ला जी इब्राहीम भाई के मकान से काजीपुरा होते हुये किका भाई के मकान को लेते हुये अजगर अली हसन अली का मकान को लेते हुये सोनी जी वकील सा. के मकान पितला माता मंदिर होकर कन्याशाला मार्ग युसुफ कुरेशी व पितल टंकी के सामने कन्याशाला स्कूल सम्पूर्ण तहसील परिसर को लेते हुये शा.बा.उ.मा.वि. को लेते हुए पचौर रोड के दोनों साईट के मकान कृषि भूमि को लेते हुये उगली जोड तक दोनों साईट के मकान को लेते हुये वापस निलेश नेमा की दुकान से रायपुर रोड के दोनों साईट के मकान लेते हुये ईदगाह बाउण्ड्री के पास अरविन्द्र कुषवाह के मकान होते हुये देवेन्द्र परमार की होटल से सब्जी मण्डी गेट से होते हुये दशरथ बागरी के मकान को लेते हुये याकुब भाई साईकल वाले की दुकान लेते हुये हास्पीटल एरिये को लेते हुये प्रमोद नेमा किराने वाले बागरी पुरा में डॉ. युसुफ खान के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 09 रानी दुर्गावती वार्ड (जनसंख्या-2217)

उत्तर - रायपुर रोड

पूर्व - ईदगाह ऐरिया

दक्षिण - वार्ड 10 की सीमा

पश्चिम - कृषि भूमि

शीतला माता मंदिर के पास सुभाषसिंह के मकान को लेकर सब्जी मण्डी मार्ग मंडी गेट कास कर विष्णुप्रसाद राठौर के मकान होते हुये उत्तर की ओर राजू भाई टाल वाले से पश्चिम की ओर कांकड का सम्पूर्ण एरिया चैनसिंह के मकान से दोनों तरफ के मकान लेते हुये जैल रोड के सामने राम मंदिर होते हुये जैल रोड मार्ग से शीतला माता मंदिर तक सुभाषसिंह के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया तथा पुराने पुलिस थाने से उपजैल रोड की बाँये हाथ की मेन पट्टी तथा शमशान घाट की सम्पूर्ण बसाहट का एरिया।

वार्ड नं. 10 मारुति वार्ड (जनसंख्या-2292)

उत्तर - वार्ड क. 9 की सीमा

पूर्व - फोरलेन रोड

दक्षिण - वार्ड 11 की सीमा

पश्चिम - कृषि भूमि

एरिया जो वार्ड नं. 10 में सम्मिलित है- गोपालपुरा रायकनपुरा काली मंदिर मार्ग पचौर रोड का मेन एरिया तथा गोपालपुरा की सम्पूर्ण बसाहट अंदर लेकर चोधरी के मकान से सुरेन्द्रसिंह ठाकुर तथा गोपाल गुरु के मकान वहां से नगर पालिका की कालोनी अंदर लेकर धनसिंह मेवाड़ा वकील सा. के मकान अंदर लेकर हनुमान मंदिर रोड पर बाबू गोली वाले की दुकान अंदर लेकर पचौर रोड पर महावीर धर्मशाला काली देवी मंदिर युवराज क्लब तक का एरिया।

वार्ड नं. 11 महात्मा गांधी वार्ड (जनसंख्या-2250)

उत्तर - वार्ड 10 की सीमा

पूर्व - वार्ड नं. 7 की सीमा

दक्षिण - वार्ड नं. 12 की सीमा

पश्चिम - कृषि भूमि की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 11 में सम्मिलित है- वाल्मिकीपुरा नाका नं. 4 का एरिया बस स्टेण्ड स्लाटर हाउस बसाहट हरिजन बस्ती, हनुमान मंदिर रोड पर गीताबाई हरिजन के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर जसमत ठेकेदार के मकान अंदर लेकर वहा से शांतिलाल के मकान को अंदर लेकर वहा से मनोहर जाटव के मकान वाली लाईन तथा सामने की लाईन अंदर लेकर मकान शंकर चपरासी भगवानसिंह कुशवाह प्रेमनारायण माली की बाड़ी अंदर लेकर सम्पूर्ण स्लाटर हाउस की बसाहट बस स्टेण्ड अंदर लेकर असगर की टाल तथा नदी के पूल को पार कर डांक बंगले की सामने की बसाहट नाका नं. 4 की बसाहट कन्हैयालाल पेट्रोल पंप से मुड़कर वाल्मिकीपुरा में गंदे नाले के सहारे के मकानों को लेते हुए पंचौर रोड पर मूलचंद अहिर की चाय दुकान अंदर लेकर रोड कास कर गीताबाई हरिजन के मकान के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 12 प्रेमचंद वार्ड (जनसंख्या-1972)

उत्तर- जमघड नदी

पूर्व- पूर्व वार्ड 13 की सीमा

दक्षिण- फोरलेन रोड

पश्चिम- डाक बंगला एरिया

अकोदिया नाके के पास नगर पालिका द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि की बसाहट (डाक बंगला की बसाहट अंदर लेकर) जटार्षकर रोड प्रतिकालय से राम मंदिर बजरंग अखाड़े के गेट से सम्पूर्ण महेशपुरा क्षेत्र जमघड नदी के किनारे होते हुए जल यंत्रालय का सम्पूर्ण एरिये को लेते हुए स्कालर एकेडमी स्कूल को लेते हुए वापस कच्चा रोड तुलसीनगर का सम्पूर्ण एरिया कान्वेन्ट स्कूल जनपद कार्यालय एस.डी.एम. बंगला पशु चिकित्सालय विधायक कार्यालय होते हुए फोरलेन एम.जी. मार्ग होते हुए वापिस अकोदिया नाका के पास प्रतिकालय तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 13 डॉ. शंकरदयाल शर्मा वार्ड (जनसंख्या-1932)

उत्तर- गंदा नाला वार्ड 12 की सीमा

पूर्व- पूर्व वार्ड 15 की सीमा

दक्षिण- फोरलेन रोड

पश्चिम- वार्ड 12 की सीमा

गोवर्धन जयसवाल के मकान से संतोष आटा चक्की वाले के मकान को लेते हुए प्रेमनगर मार्ग होते हुए गुरुकृपा स्कूल गंदा नाला तक प्रेमनगर एरिया राठौर कालोनी विद्यानगर का सम्पूर्ण एरिया लेते हुए ब्रम्हपुरी का सम्पूर्ण एरिया कान्वेन्ट स्कूल के पिछे होते हुए प्रभुलाल जी की बाड़ी को लेते हुए जगदीश सेन वाजपेयी जी के मकान से होते हुए कन्या शाला से गोवर्धन जायसवाल होटल तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 14 रामचन्द्र चौबे वार्ड (जनसंख्या-2353)

उत्तर- विद्युत कालोनी (टावर कार्यालय) से आई.डी.बी.आई बैंक तक

पूर्व- वार्ड क्रमांक 15 की सीमा

दक्षिण- रेल्वे लाईन

पश्चिम- कृषि भूमि

एरिया जो वार्ड 14 में सम्मिलित है— महात्मा गांधी मार्ग का भाग विद्युत कालोनी बी.टी.आई. कालोनी ब्रजनगर गांधी कालोनी चित्रांश नगर जगन्नाथपुरी इस प्रकार मथूरालाल चक्की वाले के मकान से पूर्व की ओर आई.डी.बी.आई बैंक एवं पेट्रोल पम्प को अंदर लेते हुये पेट्रोल पम्प के पीछे का सम्पूर्ण एरिया, ब्रजनगर की बसाहट रेल्वे लाईन की बसाहट गांधी कालोनी चित्रांश नगर गली नं. 1,2 जगन्नाथपुरी कालेज परिसर से विद्युत कालोनी तक का बीच का एरिया।

वार्ड नं. 15 जवाहर वार्ड (जनसंख्या-2309)

उत्तर— फोरलेन मार्ग एम.जी. मार्ग

पूर्व— आष्टा रोड

दक्षिण— रेल्वे लाईन

पश्चिम— वार्ड क. 14 की सीमा

फोरलेन रोड एम.जी.मार्ग पर मनमोहन किराना स्टोर्स से मूलचंद लान्डी वाले के मकान को लेते हुए दाहिने हाथ पर मुड़कर पश्चिम दिशा की ओर कंधी मोहल्ला रोड के दोनों ओर की सम्पूर्ण बसाहट तक व रामचरण ठाकुर के मकान से गोतम हार्डवेयर से एम.जी. मार्ग बस स्टेण्ड एरिया अम्बिका बाजार एरिया होते हुये डॉ. नगीना की गली आस पास का एरिया होते हुये एम.जी. मार्ग पर हरी राठौर के मकान तक वही कार्नर से शंकर नगर मार्ग होते हुये नरेन्द्र जाधव से सम्पूर्ण शंकर नगर एरिया होते हुये रेल्वे लाईन बस स्टेण्ड के पीछे से पुनः रामचरण ठाकुर के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 16 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड (जनसंख्या-2227)

उत्तर— रेल्वे लाईन

पूर्व— वार्ड 25 की सीमा

दक्षिण— कृषि भूमि

पश्चिम— कमलिया फाटक बाय पास रोड

रेल्वे फाटक के पास से सीधे अमरसिंह भोई के मकान से सिधे पीछे की रेल्वे लाईन की सीमा को लेते हुये शांतीबाई सोनी के मकान से होते हुये खीची सा. की कालोनी का सम्पूर्ण एरिया होते हुये कमलिया फाटक से कृषि भूमि एवं सिद्धनाथ कालोनी की बाउण्ड्री से होते हुये प्रमोद बापूलाल हरिजन के मकान से खलील भाई ड्रायवर के मकान को लेते हुये राजेन्द्र परमार के मकान से रम्भाबाई के मकान से कृष्ण नगर मेन रोड होते हुये वापस अमरसिंह भोई के मकान से रेल्वे गेट तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 17 लक्ष्मीबाई वार्ड (जनसंख्या-2119)

उत्तर— नाला व कृषि भूमि

पूर्व— वार्ड नं. 18 की सीमा

दक्षिण— म.गां. मार्ग मेन रोड

पश्चिम— वार्ड 13 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 17 में सम्मिलित है— महात्मा गांधी मार्ग का भाग एवं हरिजन बस्ती पंजाबी मोहल्ला भगतसिंह मार्ग का भाग इस प्रकार वार्ड क्रमांक 17 के नाले के उपरी बसाहट से प्रारम्भ होकर मकान प्रहलादसिंह परमार से इसी लाईन के मकानों को अंदर लेकर पचौर रोड पर पाटीदार होटल तक तथा वहा से पूर्व की ओर मुड़कर शुक्ला की दुकान वीर आटो मोबाइल्स जोगेन्द्रसिंह छाबडा का मकान अंदर लेकर समस्त हरिजन बस्ती की बसाहट अंदर लेकर जटाशंकर रोड की बसाहट भंवरजी परमार का कुआ अंदर लेकर नाले की बसाहट के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 18 प्रताप वार्ड (जनसंख्या-1875)

उत्तर— वार्ड 19 की सीमा

पूर्व— वार्ड नं. 20 की सीमा

दक्षिण— रेलवे लाईन

पश्चिम— वार्ड 17 की सीमा

एरिया जो वार्ड 18 में सम्मिलित है— महात्मा गांधी मार्ग अन्तर्गत पुलिस चौकी व उसके पीछे का एरिया विष्णु वाटिका के सामने से जूना पीठा रोड की दोनों पट्टियों को लेते हुए खुराना प्लायवुड के सामने से पोस्ट ऑफिस को लेते हुए रोड के बाँयी ओर नवनीत रजपाल के मकान से बाबू भाई वेल्लिंग वाले के मकान तक का एरिया एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का भाग कस्तुरबा मार्ग का भाग पंजाबी मोहल्ले का भाग रेल्वे कालोनी का उत्तरी भाग इस प्रकार रेल्वे कालोनी के उत्तरी भाग में निर्मित मकानों को लेकर लोकनिर्माण विभागइसी रोड के मकान महादेव अग्रवाल राम भरोसे अग्रवाल जानीमल सिन्धी से इसी लाईन के मकान योगेन्द्र जैन से नेमा होटल तक वहां से वापस रोड कास कर ब्रजमोहनदास जी के मकान से चिरोन्जी धोबी से चौबे स्कूल गुरुद्वारे के सामने एवं चंगीराम के मकान से फूलवाले माली के मकान तक तथा वहा से सामने मदन दाल वाले का मकान से कच्छी सेठ की दुकान से भार्गव बिल्लिंग तथा पीछे की ओर की लक्ष्मीबाई मार्ग एवं कस्तुरबा मार्ग की बसाहट अंदर लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय को अन्दर लेकर पीछे की ओर निर्मित आवास ग्रह जो उत्तर दिशा की ओर निर्मित है के बीच का एरिया।

वार्ड नं. 19 अरविंद वार्ड (जनसंख्या-1756)**उत्तर-** जमघड नदी**पूर्व-** वार्ड 20 व 21 की सीमा**दक्षिण-** वार्ड नं. 21 की सीमा**पश्चिम-** वार्ड नं. 18 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 19 में सम्मिलित है- लालबहादुर शास्त्री मार्ग का भाग पटेल मार्ग का भाग लोहिया मार्ग का भाग आईल मील के पीछे की गलियां इस प्रकार जैन मंदिर से प्रारम्भ होकर रीतेश एण्ड कम्पनी के मकान को अंदर लेकर रोड कास कर सामने के मकानों को अंदर लेकर वहां से रोड अम्बार खाने के मकान एवं भण्डारी के मकान से रोड कास कर शिवहरे मैनेजर के मकान से राम मंदिर अंदर लेते हुए वहां हनुमान मंदिर तक व नदी के किनारे किनारे की बसाहट आईल मिल की गलियां पावर हाउस को अन्दर लेकर इन्दरमल जैन के मकान से सरस्वती जीनिंग फैक्ट्री अंदर लेकर डा. शास्त्री के भवन से जैन के मकान तक व वहां से उसी रास्ते वापस आकर नवनीत पटेल के भवन से कांछी समाज की धर्मशाला अंदर लेकर वहां से जैन मंदिर तक के बीच का समस्त एरिया तथा पंजाबी मोहल्ला चौबे स्कूल के पास हरीष शाह पिता नानजी भाई शाह के मकान से प्रारंभ होकर सीधे हाथ के मेन रोड पर आनंद पिता गोविन्दराव का मकान लेते हुए श्री नारायण प्रसाद पिता श्रीनारायण श्रीवास्तव के मकान से पुनः बॉयी ओर मुड़ते हुए रोड के दुसरी ओर श्री अजीत मया का मकान लेते हुए सरस्वती विष्णु वाटिका चौबे स्कूल के पास स्थित सम्पूर्ण मकान तक का एरिया।

वार्ड नं. 20 महाराज अग्रसेन वार्ड (जनसंख्या-1751)**उत्तर-** वार्ड 19 की सीमा**पूर्व-** वार्ड क. 21 की सीमा**दक्षिण-** रेल्वे लाईन**पश्चिम-** वार्ड नं. 18 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 20 में सम्मिलित है- महात्मा गांधी मार्ग का भाग राम मनोहर लोहिया का भाग रामचंद्र का मार्ग भाग उपाध्याय मार्ग का भाग तिलक पथ भांजी भाई मार्ग का भाग इस प्रकार डॉ. रामप्रसाद शास्त्री के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर पुराना टेलीफोन कार्यालय वहा से सामने नजमी बूट हाउस से पालीवाल का मकान भारतीय स्टेट बैंक से सामने चौबे जी का मकान से विष्णु हरिशकर की दुकान से पालीवाल की दुकान तथा वहा से रोड कास कर बागमल ताराचंद जी के गोदाम से इसी लाईन के मकान अंदर लेकर आबकारी कार्यालय से विक्रमसिंह खत्री चंदुमामा (टेम्पो चौराहा दुकान) तक तथा वहा से डॉ. रामप्रसाद शास्त्री के मकान के बीच का समस्त एरिया एवं लोहिया मार्ग पर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एक्सिस बैंक मेन रोड से पश्चिम की ओर मुड़कर भूपेन्द्र सिंह के मकान तक तथा वहां से गली में अन्दर मुड़कर श्रीकृष्ण धर्मशाला के पीछे की गलियों की बसाहट अन्दर लेते हुए सी.पी. नाहर के मकान तक।

वार्ड नं. 21 मोती वार्ड (जनसंख्या-1810)**उत्तर-** वार्ड क. 19 की सीमा**पूर्व-** वार्ड क. 22 की सीमा**दक्षिण-** रेल्वे लाईन**पश्चिम-** वार्ड नं. 20 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 21 में सम्मिलित है- तिलक पथ का भाग गणेश मंदिर गली नं. 1,2,3 का भाग मार्केटिंग का एरिया इस प्रकार पुराने शारदा स्कूल के पास रामचन्द्र हरिजन के मकान से प्रारम्भ होकर मकान सेव वाले के पास मकान से पूर्व की ओर की बसाहट अंदर लेकर भज्जू जाट के मकान पर व मार्केटिंग के सामने जगन्नाथ दातारसिंह के मकान से रामप्रसाद गूजर के मकानों की लाईन अंदर लेकर अड़्डा तार फैसिंग अंदर लेकर दक्षिण की ओर मुड़कर गली नं. 3 के मकानों को अंदर लेकर इसी लाईन के मकानों को अंदर लेकर रामचन्द्र हरिजन के मकान के बीच का समस्त एरिया व वेयर हाउस रोड मस्जिद के पीछे खारी कुण्डी के पास श्री गोविन्द सिंह पिता हरगोविन्द अग्रवाल (आटा चक्की) से प्रारंभ होकर श्री अशोक पिता नारायण सिंह के मकान तक एवं पुनः उसी गली में मुड़कर श्री ओमप्रकाश सोलंकी के मकान से प्रारंभ होकर सुल्तान पिता अल्लानुर के मकान तक का क्षेत्र।

वार्ड नं. 22 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (जनसंख्या-1904)**उत्तर-** वार्ड 21 की सीमा**पूर्व-** ग्राम भीलखेडी की भूमि**दक्षिण-** रेल्वे लाईन**पश्चिम-** वार्ड नं. 21 की सीमा

एरिया जो वार्ड 22 में सम्मिलित है- शमशान रोड की बसाहट गणेश मंदिर गली नम्बर 1,2,3 का कुछ भाग किदवई मार्ग का भाग वेयर हाउस रोड का भाग भांजी भाई मार्ग का भाग इस प्रकार शमशान रोड पर गोपीलाल मंदरूप के मकान से प्रारम्भ होकर अड़्डा तार फैसिंग के सहारे की बसाहट अंदर लेकर वहां से गुलाबसिंह ठेकेदार के मकान अंदर लेते हुए दोनों

गलियों के मकानों को अंदर लेकर लक्ष्मीनारायण टेलर के मकान शिव मंदिर रोड को अंदर लेकर रोड कास कर नगीन चन्द्र जैन के मकान को अंदर लेते हुए इसी रोड पर सोनारसिंह के मकान तक के बीच का समस्त एरिया।

वार्ड नं. 23 शहीद भगतसिंह वार्ड (जनसंख्या-1855)

उत्तर- रेल्वे लाईन

पूर्व- कृषि भूमि भूगोर

दक्षिण- वार्ड 24 की सीमा

पश्चिम- आष्टा रोड

रेल्वे फाटक रेल्वे कालोनी से होते हुए आष्टा मार्ग सम्पूर्ण रेल्वे कालोनी संजय देवमुख के मकान से चन्द्रषेखर पटेल खन्ना जी से होते हुए राघवगंज स्कूल मार्ग राठौर कालोनी से चिन्दू पत्रकार की आनन्द कॉलोनी देव श्री कॉलोनी आषीर्वाद कॉलोनी आदि लेते हुए रेल्वे गोडाउन से रेल्वे स्टेशन से फाटक तक का एरिया।

वार्ड नं. 24 सुभाषचन्द्र वार्ड (जनसंख्या-1845)

उत्तर- वार्ड 23 की सीमा

पूर्व- कृषि भूमि भूगोर

दक्षिण- कृषि भूमि

पश्चिम- आष्टा रोड

नंद किशोर साईकल की दुकान से जैन सा. के मकान से होते हुए भंवरसिंह ठाकुर के मकान से सीधे राघवगंज स्कूल होते हुए सुनिल बिलवान के मकान से मुकेश मीणा के मकान से होकर कैलाश मीणा की कृषि भूमि होते हुए शिवाजी मंदिर शासकीय शौचालय रो अयोध्या बस्ती का सम्पूर्ण एरिया लेते हुए नगर पालिका सीमा बोर्ड से रोड कास कर दशहरा मैदान बायपास (पाण्डुरंग कॉलोनी) की सम्पूर्ण बसाहट को लेते हुए पुनः फ्रीगंज की ओर श्री शिवसदन भवन के सामने मातृछाया के दक्षिण वाले रोड पर नाथूसिंह पिता भवानी सिंह के मकान तक का एरिया लेते हुए रोड कास कर गायत्री मंदिर होते हुए नंदकिशोर की दुकान तक का सम्पूर्ण एरिया।

वार्ड नं. 25 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (जनसंख्या-2145)

उत्तर- रेल्वे फाटक

पूर्व- आष्टा रोड

दक्षिण- नाथूसिंह पिता भवानी सिंह के मकान वाली गली

पश्चिम - वार्ड क. 16 कृष्णनगर कालोनी सीमा

रेल्वे गेट के पास असरफ भाई मैकेनिक की दुकान से विजय वाटिका लेते हुए विजेन्द्रसिंह सिसोदिया के मकान से ओम खत्री व हीरालाल पटेल की दुकान लेते हुए सिद्धनाथ कालोनी पंचवटी कालोनी विक्रम मालवीय के मकान को लेते हुए जलील भाई के खाली प्लॉट से व प्रभुलाल पिता नारायणसिंह के मकान लेते हुए कृष्णनगर से लगा हुआ सिद्धि किसान स्टोर्स को लेते हुए असरफ भाई मैकेनिक की दुकान तक का सम्पूर्ण एरिया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

वीरेन्द्रसिंह रावत, कलेक्टर.

Shajapur, the 31st January 2020

No. 48 District Urban Development Agency Municipal Delimitation Publication 2020- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Madhya Pradesh Municipal Act 1961 (Serial No. 37, 1961), I Dr. Virendra Singh Rawat, Collector dist. Shajapur, the State Government Municipal Corporation of Shajapur District of Shajapur for the year 2011 population. On the basis of the concept of the number of wards and their limits, the concept is determined according to the schedule given below.

SCHEDULE

Sr. No.	Ward No.	Name of Ward
(1)	(2)	(3)
1	1	Ashok Ward
2	2	Jayeshwar Ward
3	3	Chhatrapati shivaji Ward
4	4	Kidawai Ward
5	5	Mahaveer Ward
6	6	Tilak Ward
7	7	Dayanand Ward
8	8	Ambedkar Ward
9	9	Rani Durgawati Ward
10	10	Maruti Ward
11	11	Mahatma Gandhi Ward
12	12	Premchand Ward
13	13	Dr. Shankardayal Ward
14	14	Ramchandra choubhe Ward
15	15	Jawahar Ward
16	16	Dr. Rajendra Prasad Ward
17	17	Laxmibai Ward
18	18	Pratap Ward
19	19	Arvind Ward
20	20	Maharaj Agrasen Ward
21	21	Moti Ward
22	22	Chandra Shekhar Azad Ward
23	23	Shahid Bhagat Singh Ward
24	24	Subhash Chandra Ward
25	25	Sardar Vallabh Bhai patel Ward

Ward No.01 Ashok ward (Population-2217)

North - Ward No.03 in its eastern line-from wadi of Fakir to Hanuman Temple

South-Boundary of ward no 02

West -Boundary of ward no 3

The are which is included in ward no 01 Banjipura Harijan mohalla and part of Malakpura Khara kua. Harijan living area then from the house of Mohammad Fakir of Banjipura to all Banjipura living residence taking inside and from there Khara kua's Mulchand ahir's house and all Barbers living inside area going to the house of Laxminarayan soni and from the Mr Satyaprakash Ramjani Teli's house to inside Madanlal teli's house and from their in the front street turning to Tarachand dhobi and Tarachand Nema Bakhal inside to near by Nalla Malakpura Ikram Panwala's house Heeralal Harijan house taking inside Banjipura pulia to Mohammad Shah's house and Its middle area

Ward No.02 Jayeshwar ward (Population-1876)**Nort - the house of Mr Shantilal to Kailash kaka****East - Boundary of ward no 01****South-Jamdhad River****West -Boundary of ward no 6**

The area which is included in ward no 02 Is a part of Khara kua, Jayeswar way Baniya seri, halwai seri, part of maharaj way and Kila . This send wrestler's Bakhal taking in Nane khan Pinjara's house and from its house to Mr Chironjilal Patwari's house and from their Khara kua Rajmal ji kothewal's kotha taking inside Mr Madan singh saraf house and from here Mr Shantilal ,Swagmal house and front house Mr Yadav Ramesh Rajput, Bhanwar lal tailor, Radhelal Yadav taking inside and from there Geudemal Berewale and Kailash kaka's house to inside taking Mr Motilal saraf's new house and from their Mr Jayesver marg and Dhanraj Nema's house street and from their Vishwas rao's house Raja bhaiya's house taking inside all kila area taking it to Sendu Pehlwan's bakhal and all middle area .

Ward No.03 Chhatrapati Shivaji Ward (Population-1850)**Nort - Boundary of Ward no 04****East - Bhawarji to Nanekhan Malakpura's house****South-Boudnary of Ward no 01****West -Boundary of Ward no 01 and 02**

The area which is included in ward no 03 the part of Malakpura, Kumarwadi street and Halwai seri part and Gastipura's and Khara kua and Usuf mehar Ali marg part thus from Mangal khan's house to Basheer supervisor house and Suban khan Darugar 's house taking inside the same street Jagannath Nema and Chhogmal Nema Staya Prakash Saxena and from Nathudas Maharaj Temple Taking inside in the same street to the eastern side turning to the house of Fundilal and Usuf Mehar ali marg on it Ramjan khan Advocate house taking inside to Gastipura road from here to Bhanwarji's house and from there on the Ring road pond Temple Nanne khan peon residing in Malakpura house taking in to Mangal khan's house and the middle area .

Ward No.04 Kidwai Ward (Population-2349)**Nort - Bheempura Mosque to Malgujar nehra****East - Boudary of Ward no03****South- Bholu Carpenter house to Sindhi shop****West - Chand baig haveli to Malgujar nehra**

The Area which is included in Ward no 04 usuf Mehar ali marg part of Gastipura part of Bheempura girls school marg ther from the marg of usuf mehar ali marg the house of bholu carpenter to the north and turning to Hayatgul pathan house and Dr.khan's house Bheempur mosque taking inside it Shivaji rao desh mukh nehra and from Ahmad khan's house and haveli of Chand baig taking inside to the same street eastern part turning from Naseer carpenter's house to the house of Dhannaji and from there Bholu carpenter's house and all is middle area.

Ward No.05 Mahaveer Ward (Population-1898)**North - Boundary of Ward no 04 and 08****East - Boudary of Ward no03****South-Boundary of 2.6 and 7****West -Girls School marg to Boundary of Ward 07**

The area which is included in ward no 05 Fadaleepura and Kajipura swami vevekanand marg and the part of girls school and part of oswal seri part . part of chhota market and big market . thus from the part of Awanti bai Bhanwarlal house to Kanhiyalal Aheer house and from there turning from Hajari lal hotel wala's house and from its house to north turning kajipura mosque taking inside the same line the house of Ganga Prasad Nand kishor taking inside the same line front house or driver house Taking inside Deva mali house usuf mehar ali marg from Jayhind marg to in front of Malgujar sahab nera, house of Premnayan Malviy to including house of Anwar Bhai to Sindhi kirana Stores turn to Sharif Kirna Stores turning left to control to Balaji Darrbar (Hanuman Mandir) to street of Komal Bai house to house of Sidhulal Rajput and turn to left house of Saeed Bhai from house of Ansari from turn to Man road at house of Dr. Ayyub Khan's area then the house and from there to the east turning Hemraj carpenter Chimu bhai Hakeem khan teli and by the side of street and from the house of gappu wrestler house and from here

crossing road from soni house Babu jain nema house Hakeemji wada taking inside the shop of Dh. nraj nema and from Shayar cabutra plate form to Awantilal Bhanwarlal and all its middle area.

Ward No.06 Tilak Ward (Population-1991)

North - Ganesh Temple to Raja bhaiya house

East - Boudary of ward no02

South-River

West -Boudary of Ward no 07

Area which is included in ward no 6 Devi temple road Tambolipura and lakher wadri part and Dabripura part and living area of Teela and thus from Starting small market Ganesh temple on the same line the house of Babulal soni Laddu guru near jain temple living area jama masque area and the house of Raja bhaia Wakankar house taking inside the whole Teela area living inside from Atma ram patwari to Kunwarji Choudhary house and to the west and taking a turn Ram Prasad vaidya dandekar advocate temple street house taking inside in the same street side the house of Baseer mater Dil mohammad taking in the house to the lakherwari and from there turning Devi temple road to the western house living area taking inside the whole Tambolipura living area taking inside to the Ganesh temple and all its middle area.

Ward No.07 Dayanand Ward (Population-2355)

South - the shop of Dr. Dave to the house no.22

East - Hanuman Temple to Ram singh choudhary

South-Jamdhad River

West -Boudary of Ward no 08 and 11

The area which is included in the boundary of ward no.07 The part of Marathipura and Dabripura and the part of Tripolia market and Noorpura and tripolya Market under Pachor Four lane Road to Yadav tea Staal to meat Market Shop including Behind Nagra Palika Office house of Yashin Baba to Amin cycle to the corner of Salim Bhai Penter including house of Kuresh Bi Beli Khan to house of Badurddin Bend wala and left turn of Sharif Khan S/o Amir Khan house including Noor Bhai Mirchi wala and again turn from Noorpura Shani Maharaj house till Salim Painter and all area. is a part and part of big market and thus from beginning of Hanuman temple and taking in ram singh choudhary house taking inside the whole marathipura living area taking inside on the Satyanarayan temple marg from the house of ramnarayan talilor house and from here to Suraj Prasad patwari's house taking inside the front street house of makhan tailor laxman mali manohar singh house Rakhadasji residence house taking inside to the Tirpoliya market house to kesrimal mochi house and from here crossing road shabbir shoes balkrishan bailragi house to Dr Dave shop (medical Stores) and from their big market starts taking inside on the Pachor road and from Ibrahim's house to the east turning Rajmal Tailor and from their Gore sahib house and Hanuman temple and living area.

Ward No.08 Ambedkar Ward (Population-2077)

North - Ugli joining area

East - Boundary of Ward no 05 and 07

South-Boundary of Ward no 07

West -Boudary of Ward no 09

From the house of Dr Yousuf khan house Whaya Dandekar marg taking Ramdayal house and from mullaji Ibrahim house going to kazipura and taking keeka bhai's house and taking Azgar ali hasan house and from soni ji Advocate house crossing shitala mata mandir Whaya girls school marg and infront of shital tanki and girls school and taking the whole Tehsil compound government boys school taking it to pachor road both side houses and taking agricultural land taking it to ugli joint and taking both side houses returing to Nilesh nema house and shop and from here taking Both sides houses of Raipur road near Idgah boundary Crossing Arvind kushwah house and from Devendra parmar hotel and Vegetable market gate crossing and taking dashrat bagri's house taking the shop of yakub bhai cycle wala's shop to the hospital all area to praomad nema's kirana shop in the bagripura to the whole area of Dr yousuf khan's house

Ward No.09 Rani Durgawati ward (Population-2217)**North - raipur road****East - Idgah area****South-Boundary of ward no 10****West -Agricultural land**

Beside Sheetal maa madir from the house of Subhas singh to Vishnu Prasad rathore's residence after crossing mandi gate of vegetable market then toward's raju bhai tallwala's in north then towards west direction including full kankad area from the house of chain singh covering from both side to ram mandir in front of jail road and back to Sheela maa mandir Shubash singh house and Main line of Old Police Station to left side of Sub Jail Road including complete inhabitant area of Shamshan Ghat.

Ward No.10 Maruti Ward (Population-2292)**North - Boundary of Ward no 09****East - Four lane road****South-Boundary of Ward no 11****West -Agricultural land**

The area which is included in ward no 10 starting from Jail compound and Residential area of gopalpura kali mandir marg pachor road Thus from police station inhabitant area on the same road the house of Dayaram patwari and ram Kishan taking inside Jail compound and from the turning the whole Gopalpura 's living area taking inside from Choudhary's house from here Surendra singh thakur and to the house of Gopal guru and from there colony of Municipality colony taking inside Dhan singh mewada house taking inside Hanuman mandir road on it Babu goli wala's shop in to pachor road to Mahavir dharma shala kali mandir temple and from yovraj club middle area.

Ward No.11 Mahatma Gandhi ward (Population-2250)**North - Boundary of ward no 10****East - boundary of Ward no 07****South-Boundary of Ward no 12****West -Boundary of Agricultural land**

The area which is included in ward no 11 Valmikpura area Naka-no 04 area bus stand house living area Harijan area on the road of Hanuman mandir from Geeta bai harijan's house to the north turning Jasmat Thekedar's house inside and from there Shantilal's house taking inside and from there manohar jatawa's house line and front line inside Shankar peon's house Bhagwan singh kushwah prem narayan mali's badi taking inside the whole slaughter house living area bus stand taking inside Azgar's tall and river Bridge crossing rest house front living area and Naka no 04 living area turning to Kanhiyalal petrol pump turning to municipality occupied land and its living area rest house living area taking in vallikipura by the side of Dirty Nala's whole house of Noorpura living area and from Chunnihawster men to pachor road and Mulchand aheer's tea stall taking inside crossing the road the whole area of Geeta bai's house and between all area.

Ward No.12 Premchand Ward (Population-1972)**North - Jamdhad river****East - Boundary of Ward no 13****South-Four lane road****West -Dak Bangla Area**

Beside Akodia Naka & Dak Bangla area from Jatashankar road waiting room to ram mandir bajran akheke's gate covering the whole area of Mahesh pura moving on the banks of Jamdhad river including the whole area of water treatment plant also including the area of scholar's academy school and back to muddy road Tulsinagar whole area convent school, block office, SDM banglow, animal hospital, MLA office passing four lane Mg road and back to Akodia naka waiting room whole area

Ward No.13 Dr Shankar Dayal Sharma Ward (Population-1932)**North- Boundary of Ward no 12 dirty water****East - Boundary of Ward no 15**

South-Four lane road**West -Boundary of ward no 12**

From the house of Gowardhan Jaiswal to shantosh flour mill including it and passing to prem nagar Gurukripa school Dirty water including the whole area of prem nagar rathore colony vildhya nagar Brahmapuri colony's full area from the back of convent school including the Prabhulal ji garden passing from the house of jagdish sen vajpai .girls school to the Gowardhan jaiswals hotel whole area .

Ward No.14 Ramchandra Chaubey Ward (Population-2353)**North -MPEB Colony to Mohan prakash house****East - Boundary of Ward no 15****South-Railway line****West Agricultral land**

Part of mg raod MPEB, colony BTI colony ,brajnagar, Gandhi colony ,chitransh nagar, jagnnathpuri in the east of mathuralal Flour mill and including petrol pump mohan prakash singh house moving towards north total kangi mohalla part of braj nagar, Railway line ,Gandhi colony, chitransh nagar ,colony no 1,2 jagnnathpuri, collage area to MPEB Colony centred area.

Ward No.15 Jawahar Ward(Population-2309)**North Four lane raod ,MG road****East - Ashta road****South-Railway line****West -Boundary of Ward no 14**

At Four lane M G Road from Manhohan Kirana Stores to house of Mulchandra Londry wala to turnig of Right side to west Direction to Kanghi Mohalla Road including both side of total area.From the house of Ramcharan thakur ,Gautam hardware to mg road bus stand area Ambika market ,Dr Nagina's neighbor ,colonies to Hari rathor's house on MG road from that corner including Shankar colony passing from the house to Narendra jadhav to total area of Shankar colony railway line Busstant back to Ramcharan thakur;s residence whole area .

Ward No.16 Dr Rajendra Prasad Ward (Population-2227)**North - Railway line****East - Boundary of Ward no 15****South-Agricultural land****West -Bypass raod Kamliya gate**

Beside railway crossing to straight to the house of Amar singh Bhoi's house straight back railway line boundary to Shanti bai soni house passing form kheechi saa colony full area from kamliya gate agricultural land and the boundary of siddnath colony to pramod babulal harijan house including the house of driver khalil bhai from the house of rajendra parmar to rambha bai's house passing from krishana nagar man road and back to the residence of Amar singh bhoi to railway crossing whole area.

Ward No.17 Laxmi bai Ward (Population-2119)**North Agricultural land****East - Boundary of Ward no 18****South-MG main road****West -Boundary of ward no 13**

MG raod old pitha raod harijan colony,Panjabi colony part of bhagat singh road in this way the upper living of ward 11 beginning from there including house in the line of prahlad singh paramar to patidar hotel at pachor road from there in east including shukla's shop veer auto mobile Jogendra singh chhabda house police station from here to house of Trilok singh Panjabi moving in north babu bhai welding and from there crossing the road virumal sindhi to Panjabi dharamshala and frant house vichitra singh house to west including kanji house whole harijan colony including residence of Jatashankar road well of bhanwerji parmar and the whole area upto dirty water area.

Ward No.18 Pratap Ward (Population-1875)**North Boundary of Ward no 19****East - Boundary of ward no 20**

South-Railway line**West -Boundary of ward no 17**

The area which included in ward no 18 Under the Mahatma Gandhi Marg Police Choki and behind area in front of Shishu watika to both side of Juna Pitha Road including Khuran plywood in front of Post Office from left side of Road to house of Navneet Rajpal to house of Babu Bhai Welding wale the part of mahatama Gandhi marg and sardar vallabh bhai patel marg and the part of kastruba marg and panjai mohalla and north part of railway colony thus the constructed houses in railway colony north part and taking all there Build up house and PWD department road house and Mahadev agrawal and Rambhrose agrwal an Janimal sindhi to the same line from the house of yogendra jain to nema hotel and from their again crossing the road Brijmohan das hoise to Chironji dhobi and from their chobey school Gurudwara and from Chanjiram house to phool wale mali house and from their in front madan Dal wala's house to kachhi seth shop to Bhargav bullding and it laxmi bai marg and kasturba marg living area taking inside PWD office takng inside its behind built up house which is construted in the north direction and its between area.

Ward No.19 Arvind Ward(Population-1756)**North Jamdhad river****East - Boundary of Ward no 20 and 21****South- Boundary of Ward no 21****West -Boundary of Ward no 18**

The area which is included in ward no 19 the part of Lal Bahadur Shastri marg part of patel marg, Lohiya marg part and the street of behind oil mill and thus from starting Jain mandir reetish and company's house taking inside and from there the house of Ambarkhane crossing the raod and from shivhare house manager's house to ram mandir taking inside to hanuman temple and at the bank of river living area and the street of oil mill and power house and taking in and from indermal jain to sarsvati jeening factory to Dr Shastri house and from here and coming from there from Navneet patel house to kanchi society dharamshalal taking inside jain mandir complete middle area and near by Panjabi mohalla, Chobe School Hari Shah s/o Nanji Bhai Shah to on the left side road including house of Anand Rao S/o Govind Rao to shree Narayn Prashd S/O Shree Narayan Shriwastav than left turn to road to behind side and house of Ajit maya including Saraswati Shishu Vatika Chobe School around whole area.

Ward No.20 Maharaj Agrasen Ward (Population-1751)**Nouth -Boundary of ward no 19****East - Boundary of ward no 21****South-Railway line****West -Boundary of ward no 18**

The area which is included in ward no 20 the part of mahatma Gandhi marg rammanohar lohiya marg ramchandra marg and updhya marg's part and tilak path bhanji bhai marg's part and thus from Dr Prasad shastri house to the north and truning to old telephone office and from there front area and from nazmi boot house to palilwal house and bhartiya state bank's front and from choudeyji's house and from Vishnu hari Shankar shop to paliwal shop and from ther crossing the road to bagmal tarachand ji's godown on the same line hose taking inside to Custom office and from here vikram singh khatri (chandumama) tempu chouraha shop and from there Dr ramprasad Shastri house and complet middle area and turn to west direction from Omprakash Agrawal Axix bank Main road to house of Bhupendra singh than turn to street of Shrikrishna DharmShala back side street till house of C P Nahar.

Ward No.21 Moti Ward (Population-1810)**North Boundary of Ward no 16****East - Boundary of ward no 22****South-Railway line****West -Boundary of ward no 20**

The area which is included in ward no 21 the part of tilak path ganesh mandir street no 1,2,3 and its part the area of marketing and thus old sharda school near ramchandra harijan's house from starting the house of apple seller to the eastern side living inside area and on the bhajju jat house and from here to front part of marketing society and from the house of jagannath singh datar house to ramprasad gujar house lines taking inside adda wire fancing taking in to the southern area turnig street no 03 house and on the same line houses taking in the complete middle area of ramchandra harijan starting to shree Govind singh S/o

Hargovind Agrawal (Floor Mill) house till shree Ashok S/o Narayan singh and again turning back to the same street from house of Omprakash Solaki to house of Sultal S/o Allanur.

Ward No.22 Chandra Shaker Azad Ward (Population-1904)

North Boundary of Ward no 21

East - Village Bheelkhedi land

South-Railway line

West -Boundary of Ward no 21

The area which is included in the ward no 22 Funeral road living area to ganesh temple street no 1,2,3 and its same part and the part of kidwai marg and ware house road and the part of bhanjibhai and thus on the funeral road and from Gopilal mandroop house and starting from here to Adda wire fancing and by the side to living area taking inside it the house of Gulabsingh sing contractor house taking inside the both sides of the streets. Laxminarayan tailor house and shiv temple road taking in crossing the road out and taking nageen Chandra jain house on the same road to the house of sonar singh and its complete middle area.

Ward No.23 Shaheed Bhagat singh Ward (Population-1855)

North Railway line

East - Agricultural land Bhugor

South-Boundary of Ward no 24

West -Asta road

From the area of railway gate colony to Asta road complete railway colony and from the house of sanjay deshmukh crossing Chandra shekher patel khanna ji to ragahav ganj school road and rathore colony to chintu newspaper man and its Anand colony taking to railway station gate and its complete area.

Ward No.24 Shubhas Ward (Population-1845)

North -Boundary of Ward no 23

East - Agricultral land Bhugor

South- Agricultral land

West -Asta road

It is from Nandkishore cycle shop to Jain sir crossing Bhawarsingh thakur house and from here to raghav colony school crossing sunil bilwan house and mukesh meena's house to kelash menaa agricultural land crossing to shivaji mandir Govt toilet living and taking its complete area to asta road and coming back to the northern area Gyatri mandir road and to Nandkishor shop and its complete area. From Nagar palika boundry bord crossing the main road complete inhabitant area of Pandurang Coloney, coming back to freeganj in front of Shree Shiv Sadan south of Matra Chhaya till the area including the house of Nathu singh S/o Bhavani Singh again acrossing the road including Gayatri Mandir till the Shop of Nandkishor

Ward No.25 Sardar Ballabh bhai patel Ward (Population-2145)

North -Railway gate

East - Asta road

South- Bypass road

West -Boundary of ward no 16

Krishana nagar colony it is near railway gate from Asraf bhai mechanic shop crossing vijay gardan taking to vijendra singh sisodiya house to om khatri and heralal patel shop taking it to siddhnath colony and panchwati colony and taking to the house of vikram malviya and from zaleel bhai vacant plot and prabhulal father narayan singh house taking it to Krishna nagar closed to sindhee kirana stores taking it to Asraf bhai mechanical shop and its complete area.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

VIRENDRA SINGH RAWAT, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्र. 65, एफ 1-46/2020/18-3 कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रेषित नगर पालिका परिषद् विदिशा के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 748/2019, दिनांक 01-11-2019 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, (शहरी विकास) जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश)

विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर 2019

क्रं. 748/2019 — मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मैं कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर जिला विदिशा एतद् द्वारा नगरपालिका परिषद् विदिशा जिला विदिशा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता है।

संख्या क्रं. (1)	अनुसूची वार्ड क्रं. (2)	वार्ड का नाम (3)
1	1	बैस वार्ड
2	2	रानी दुर्गावती वार्ड
3	3	कस्तूरबा वार्ड
4	4	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5	5	सरोजनी नायडू वार्ड
6	6	महाराणा प्रताप वार्ड
7	7	चाणक्य वार्ड
8	8	इन्द्रा वार्ड
9	9	बीजा मण्डल वार्ड
10	10	वेत्रवती वार्ड
11	11	नाना साहब पेशवा वार्ड
12	12	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
13	13	बालाजी वार्ड
14	14	महाकवि कालीदास वार्ड
15	15	छत्रपति शिवाजी वार्ड
16	16	महावीर स्वामी वार्ड
17	17	संत तुलसी वार्ड

18	48	दुर्गा वार्ड
19	19	विवेकानंद वार्ड
20	20	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
21	21	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
22	22	रामकृष्ण परमहंस वार्ड
23	23	गुरुनानक वार्ड
24	24	श्रद्धानंद वार्ड
25	25	मुंशील प्रेमचंद वार्ड
26	26	डॉ. राधा कृष्ण वार्ड
27	27	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
28	28	टैगोर वार्ड
29	29	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
30	30	चन्द्रगुप्त वार्ड
31	31	शहीद भगतसिंह वार्ड
32	32	संत विनोबा वार्ड
33	33	मिर्जापुर वार्ड
34	34	सम्राट अशोक वार्ड
35	35	राजीव नगर वार्ड
36	36	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
37	37	गांधी वार्ड
38	38	रसखान वार्ड
39	39	टीलाखेडी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर.

वार्ड क्रं. - 01 बैस वार्ड, (जनसंख्या-4505)

उत्तर- ग्राम ढोलखेडी

पूर्व- राजस्व ग्राम चक्क जीवाजीपुर दाऊदपुरा की सीमा बेतवा नदी से होते हुए शमसान घाट डेनिस कालोनी नौलखी लेते हेण्डपंप तक.

दक्षिण- घाट पिपरिया से छीरखेडा रोड से बैरासिया रोड से खामबाबा का टीला लेते हुए गणेशपुरा बैस नगर तक.

पश्चिम- वार्ड नं. 02 की सीमा जानकी नगर तक.

वार्ड क्रं. - 02 रानी दुर्गावती वार्ड, (जनसंख्या-4029)

उत्तर- चिडौल वाली माता शीत दुग्ध केन्द्र तक.

पूर्व- जानकी नगर से महलघाट वाटर वर्क्स गुठान तक.

दक्षिण- गुठान के सामने जगदीश के मकान से पप्पू कुशवाह तक.

पश्चिम- चौरसिया किराना से लाल मियां पठान लेते हुए मस्जिद तक.

वार्ड क्रं. - 03 कस्तूरबा वार्ड, (जनसंख्या-4590)

उत्तर- चन्द्रकांत के मकान होते हुए दौलतराम कुशवाह रामलीला तिराहे तक अयोध्या नगर राजपूत कालोनी के सामने तक.

पूर्व- नीलकण्डेश्वर मंदिर के सामने संतोषी माता मंदिर गली नं. 01, 02 मोहनगिरी पुलिस चौकी गली नं. 03 माँ अन्नपूर्णा मंदिर तक.

दक्षिण- गोपिका बल्लभ शर्मा से लेते हुए मोहनगिरी नाला मार्ग से शिव मंदिर तुलसीराम रैकवार तक.

पश्चिम- कामता प्रसाद शर्मा से शिक्षक कालोनी रोड माँ हास्पिटल रोड से प्रीतम बाल्मिकी के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 04 जबाहरलाल नेहरू वार्ड, (जनसंख्या-4235)

उत्तर— शिक्षक कालोनी रोड पर आलोक चतुर्वेदी के मकान से मोहनगिरी रामदयाल पंथी के मकान को लेते हुए शंकर टीला से लीलाबाई के मकान को लेते हुए ब्राइट केरियर स्कूल के पीछे का हिस्सा अरिहन्त बिहार के भूपेन्द्रसिंह के मकान तक. मोहनगिरी गली नं. 3, गली 4 के भीतरी हिस्से को लेते हुए।

पूर्व— शिक्षक कालोनी रोड पर ब्राइट केरियर स्कूल के ऋषभ जैन के मकान तक एवं अरिहन्त बिहार का फेस-1 कार्पोरेशन बैंक को लेते हुए छोटेलाल कुशवाह से फेस-4 को अन्दर करते हुए।

दक्षिण— गल्ला मण्डी पर प्रेमबाई कुशवाह के मकान को लेते हुए मायादेवी अहिरवार के मकान को लेते हुए शंकर टीला का सम्पूर्ण हिस्सा तक.

पश्चिम— अरिहन्त विहार में फेस-3 में तपेश जैन के मकान से पवन विद्रोही के मकान तक. एवं अरिहन्त विहार को फेस द्वितीय एवं फेस-2 तक सम्पूर्ण भाग को लेते हुए।

वार्ड क्रं. — 05 सरोजनी नायडू वार्ड, (जनसंख्या-3705)

उत्तर— मोहनगिरी धनपाल कुशवाह के मकान से रघुवीर राय का मकान लेते हुए दिनेश बाल्मिकी रोड क्रॉस कर कस्तूरबा हाई स्कूल लेते हुए गल्ला मण्डी गेट को लेते हुए लुहांगी मोहल्ले जसपाल बाल्मिकी के मकान तक.

पूर्व— लुहांगी मोहल्ला जसपाल बाल्मिकी के मकान को लेते हुए गल्ला मण्डी बाऊण्डी दीवानसिंह मकान लेते हुए बरईपुरा गल्ला मण्डी गेट तक मुन्नीबाई के मकान से महेश भारती के मकान तक.

दक्षिण— गल्ला मण्डी गेट से लुहांगीपुरा में देवेन्द्र शर्मा को शामिल करते हुए प्रतापभानू शर्मा जी के मकान तक.

पश्चिम— वीर हकीकत राय मार्ग प्रतापभानू शर्मा जी का मकान लेते हुए रोड क्रॉस कर मोहरबाई राजपूत बरईपुरा शिव मंदिर के सामने का क्षेत्र लेते हुए केरोसिन पम्प को शामिल करते हुए माँ अस्पताल रोड मोहनगिरी महामाई मंदिर को शामिल करते हुए धनपाल कुशवाह के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 06 महाराणा प्रताप वार्ड, (जनसंख्या-4468)

उत्तर— संध्या बाल मंदिर से होते हुए बरईपुरा गणेश मंदिर सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए माता मंदिर बरईपुरा चौराहे तक.

पूर्व— सी.सी. रोड बरईपुरा गली से बंदा बैरागी मार्ग से व्यास जी के मकान एवं आंगनबाड़ी गली नं. 1,2,3 किशोरी के मकान तक.

दक्षिण— भूपेन्द्र रघुवंशी के मकान से मुल्लोबाई से जगदीश प्रसाद नामदेव को लेते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र

पश्चिम— जगदीश कुशवाह के मकान से होते हुए मानचंद्र से मौंजीराम लोधी के मकान तक.

वार्ड क्रं.—07 चाणक्य वार्ड, (जनसंख्या-4626)

उत्तर— काछी मोहल्ला के भूपेन्द्र रघुवंशी के मकान को लेते हुए सम्पूर्ण काछीपुरा मोहल्ला लवकुश मार्ग पप्पू कुशवाह का मकान लेते हुए शिवदयाल व्यास के मकान तक.

पूर्व— बरईपुरा चौराहे से शिवमंदिर लेते हुए रणधीरसिंह दांगी के मकान को लेते हुए राजमल जैन के मकान को लेते हुए वीरसिंह रघुवंशी के मकान एवं बरईपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र तक.

दक्षिण— बरईपुरा चौराहे से शिवमंदिर को लेते हुए बन्दा बैरागी मार्ग पथ पर तेजवाल भवन एवं लक्ष्मी सदन को लेते हुए भूपेन्द्र रघुवंशी तक.

पश्चिम— जतरापुरा रोड पर दौल डिपो के पास वाली गली के पास वीरसिंह रघुवंशी के मकान को लेते हुए कुशवाह बगीचा को लेते हुए मर्दनसिंह कुशवाह के मकान तक.

वार्ड क्रं. —08 इन्द्रा वार्ड, (जनसंख्या—3832)

उत्तर— राघवजी कालोनी रोड पर ओमप्रकाश नामदेव के मकान को लेते हुए राघवजी कालोनी के क्षेत्र में राजपूत धर्मशाला तक.

पूर्व— जतरापुरा रोड पर लखन विश्वकर्मा के मकान को लेते हुए शर्मा की डेरी बंधन गार्डन को लेते हुए ओमप्रकाश के मकान तक.

दक्षिण— नगतला व वैशाली नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र

पश्चिम— रीठा फाटक रोड पर कैलाशनारायण शर्मा मांगलिक भवन से संजय उद्योग को लेते हुए लल्लूलाल वकील साहब के मकान तक.

वार्ड क्रं.— 09 बीजा मण्डल वार्ड, (जनसंख्या—4275)

उत्तर— नारायणसिंह कुशवाह के मकान से भोईपुरा को शामिल कर बुन्देलसिंह हलवाई तक.

पूर्व— बुन्देलसिंह हलवाई के मकान से इमली मस्जिद, विजय मंदिर को लेते इमाम वाडा तक.

दक्षिण— इमाम बाडे से राजकुमार शर्मा के मकान को शामिल कर नारायणसिंह के मकान तक.

पश्चिम— रायपुरा स्कूल के सामने डिपो, माली का बगीचा लेते हुए पुतली घाट से रायपुरा नई बस्ती का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए रोड क्रॉस कर नारायणसिंह कुशवाह तक.

वार्ड क्रं. – 10 वेत्रवती वार्ड, (जनसंख्या-4039)

उत्तर- बिठ्ठल नगर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय लेते हुए सम्पूर्ण मुखर्जी नगर का ए.बी.सी. सेक्टर मुखर्जी नगर की आखरी सीमा तक.

पूर्व- प्रेमनारायण शर्मा के माकन से पुलिस चौकी से अमूल दूध डेयरी को लेते हुए संतोष गुर्जर के मकान तक का सम्पूर्ण भीतरी क्षेत्र जिसमें अनूपम मेघा सिटी, शंकर नगर, शास्त्री नगर साईं श्रद्धा।

दक्षिण- स्टेडियम से रेल्वे लाईन के किनारे जिला अस्पताल नई कलेक्ट्रेट भगतसिंह कालोनी को सम्मिलित करते हुए पीलिया नाले तक.

पश्चिम- पीलिया नाले से अमराई ढाबे को सम्मिलित करते हुए बिठ्ठल नगर तक.

वार्ड क्रं. – 11 नाना साहब पेशवा वार्ड, (जनसंख्या-4456)

उत्तर- बांसकुली गुलाबसिंह रघुवंशी के मका से श्री ब्रजेन्द्र जी पाण्डे के मकान को लेते हुए श्री रुद्रप्रताप जी के मकान को लेते हुए धर्मचंद मेहरा जी मकान तक.

पूर्व- रामप्यारीबाई के मकान से शिवाजी चौक निरंजन वर्मा जी के मकान को लेते हुए रोड क्रॉस मेहरा जी का मकान शामिल करते हुए गुलाबसिंह जी के मकान तक.

दक्षिण- नीमताल पर श्रीमती रामकलीबाई सोलंकी के मकान से हनुमान मंदिर सॉकल कुआ लेते हुए शहनाई गार्डन लेते हुए गुलाब वाटिका तक.

पश्चिम- गुलाब वाटिका से मानस शिशु मंदिर वाली गली से सम्राट गार्डन का पीछे का भाग से पटेल गार्डन के सामने तक, भीतरी भाग लेते हुए राजेन्द्र नेमा की शांति स्वीट्स राजमल मढवईया का मकान लेते हुए सौपरिया रोड पर दायां भाग लेते धर्मेन्द्र शर्मा का मकान लेते हुए स्कन्ध माता मंदिर लेते हुए रामप्यारीबाई सोलंकी के मकान तक.

वार्ड क्रं. - 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, (जनसंख्या-3858)

उत्तर- विदिशा-अशोक नगर मार्ग पर उमेश सैनी के भवन से रायपुरा स्कूल मार्ग पर मनोज भवन एवं लड्डाजी का मकान चामुण्डा गली का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए कन्या शाला चौपडा को शामिल करते हुए पुराना होमगार्ड आफिस नगरपालिका दुकानें (पेढी चौराहे) श्री राम मंदिर लेते हुए रायसेन गेट नाग मंदिर लेते हुए नगरपालिका औषधालय श्री हनुमान मंदिर तक.

पूर्व- श्री हनुमान मंदिर से गणेश मंदिर होते हुए कमल जडिया के भवन एवं बालाजी एन्क्लेव का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए डण्डापुरा रोड पर चिन्तामणी मंदिर के सामने काजी हाउस को लेते हुए डण्डापुरा रोड पर वीरेन्द्र कुशवाह पूर्व पार्श्व के भवन तक.

दक्षिण- सिंधी कालोनी मार्ग पर वीरेन्द्र कुशवाह के मकान से गौराजी मंदिर, मदन साहू आटा चक्की लेते हुए पअेल गार्डन एवं विदिशा अशोक नगर रोड पर हरीशंकर कुशवाह के मकान तक.

पश्चिम- विदिशा अशोक नगर मार्ग पर हरीशंकर कुशवाह के मकान से जितेन्द्र तिवारी की दुकान एवं रायपुरा स्कूल के समक्ष रमेश सैनी के भवन तक.

वार्ड क्रं. - 13 बालाजी वार्ड, (जनसंख्या-4251)

उत्तर- साहू की आटा चक्की से विजय मंदिर के सामने होते हुए संतोष आचार्य के मकान तक.

पूर्व- संतोष आचार्य के मकान से हनुमान मंदिर को शामिल करते हुए परशुराम चौक तक.

दक्षिण- परशुराम चौक से लक्ष्मीबाई मार्ग होते हुए ज्ञान जाट के सामने तक.

पश्चिम- ज्ञान जाट के मकान से संतोष आचार्य के मकान के सामने होते हुए साहू की चक्की तक.

वार्ड क्रं. — 14 महाकवि कालीदास वार्ड, (जनसंख्या-4725)

उत्तर— चंदा ठाकुर के मकान से शुरू करते हुए कालीदास मार्ग लेते हुए नगरपालिका के सुलभ शौचालय तक.

पूर्व— रमेश बाल्मिकी की झोपडी से खाई, जय स्तम्भ रोड, कृष्णादेवी श्रीवास्तव के मकान घाटी को लेते हुए वाराहारी कुएं के एवं बैस दरवाजा रोड पास पर ओसवाल मंदिर को लेते हुए मनोज पंजवानी की दुकान तक.

दक्षिण— मनोज पंजवानी की किराना दुकान से मिश्राजी की गली को लेते हुए धर्माधिकारी चौराहा, हनुमान जी मंदिर को लेते हुए मनमोहन यादव के मकान तक.

पश्चिम— मनमोहन यादव के मकान से नगरपालिका सुलभ शौचालय को लेते हुए एवं काजी महल को शामिल करते हुए राधाकृष्ण मंदिर से बैस दरवाजा रोड पास कर मो. खालिद मियाँ के मकान से चंदा ठाकुर के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 15 छत्रपति शिवाजी वार्ड, (जनसंख्या-4324)

उत्तर— नाई मोहल्ला (तोपपुरा) में श्री कैलाश यादव के मकान को लेते हुए श्री भुज्जीलाल कुशवाह के मकान को लेते हुए बोहरा गली कजड़ापुरा, शामिल कर बोहरा गली से बंदा बैरागी मार्ग पर श्री संतोष गुप्ता के भवन को लेते हुए वैशाली नगर गेट को क्रॉस कर विजय शर्मा के मकान के आगे डीपी के पास तक.

पूर्व— चर्मशोधन केन्द्र से अम्बेडकर भवन प्राथमिक शाला, रंगियापुरा को लेते हुए बीजासन माता मंदिर के सामने हल्केराम अहिरवार के भवन तक.

दक्षिण— हल्केराम अहिरवार के मकान से नाला क्रॉस करते हुए सोनकर भवन बड़े बालाजी मंदिर को लेते हुए डॉ. आचार्य क्लीनिक से रोड क्रॉस कर बजरिया वाचनालय तक.

पश्चिम— बजरिया वाचनालय से जय काम्पलेक्स लेते हुए गोवर्धन साहू के मकान को लेकर बाबूलाल यादव के मकान से पुरानी कलारी को शामिल कर गीतांजली स्कूल के सामने सेन के मकान होते हुए रोड क्रॉस कर कैलाश यादव के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 16 महावीर स्वामी वार्ड, (जनसंख्या-4091)

उत्तर— प्रशांत आचार्य के मकान से संतोष, मंगल दांगी के सामने होते हुए कृष्णाबाई के मकान के सामने मकान से मुड़कर जय स्तम्भ पार्क होकर सरस्वतीबाई के मकान तक.

पूर्व— सरस्वती श्रीवास्तव के मकान से झूलनपीर मस्जिद होते हुए पवन सोनी की दुकान तक.

दक्षिण— पवन सोनी की दुकान से गिरीश जैन की दुकान तक.

पश्चिम— गिरीश जैन की दुकान से श्री हनुमान मंदिर के सामने होते हुए नाग मंदिर के सामने से मुड़कर परशुराम चौक के सामने का हिस्सा लेते हुए प्रशांत आचार्य के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 17 संत तुलसी वार्ड, (जनसंख्या-3989)

उत्तर— बजरिया में मुकेश राजपूत की दुकान होते हुए प्रेमबाबू अग्रवाल का मकान शामिल कर चौरसिया का मकान लेते हुए नाला क्रास कर बीजासन मंदिर को शामिल कर अम्बेडकर भवन तक.

पूर्व— अम्बेडकर भवन के सामने अब्दुल हमीद गौरी के मकान के पीछे गली को शामिल कर पूरनचंद मौग्र एडवोकेट के मकान को लेते हुए नाला क्रास कर लीलाधर प्रजापति का मकान लेकर निकास रोड पर (चार्ली पान के बगल में) राजेश जैन के प्लॉट तक.

दक्षिण— सावरकर पथ राजेश जैन के प्लॉट से मोनिका आप्टीकल्स तोताराम सिंधी की दुकान तिलक चौक पर किशन सिंधी की दुकान को शामिल करते हुए बड़ा बाजार में पन्नालाल भैयालाल सराफ की दुकान तक.

पश्चिम— पन्नालाल भैयालाल सराफ की दुकान से पवन लश्करी के भवन को शामिल कर लोहा बाजार में नामदेव समाज के मंदिर को लेते हुए गढीवाला कुआँ शामिल कर डॉ. पीतलिया की क्लीनिक को शामिल कर झूलनपीर मजार को लेते हुए मुकेश राजपूत की दुकान तक.

वार्ड क्रं. — 18 दुर्गा वार्ड, (जनसंख्या-4022)

उत्तर— ढलकपुरा रोड लेते हुए सोनी किराना स्टोर से होते हुए रंगियापुरा कुआ तक कुआ से होते अरविन्द जैन मकान तक के मकान से दुर्गा चौक तलैया दाहिने हाथ का भाग लेते हुए दुर्गा जी मंदिर तलैया के सामने श्यामबाबू श्रीवास्तव मकान तक.

पूर्व— दुर्गा मार्ग तलैया श्यामबाबू श्रीवास्तव से दुर्गा चौक तलैया मार्ग लेते हुए पुरानी नगर पालिका भवन सावरकर पथ तक.

दक्षिण— पुरानी नगर पालिका भवन से निकास रोड हैदर अली रायल मार्केट अवधनारायण अग्रवाल ब्रज स्वीट्स को लेते हुए रामबाबू हरिबाबू साहू के मकान कुम्हार गली तक.

पश्चिम— कुम्हार गली रामबाबू हरिबाबू साहू को लेते हुए मांगीलाल जाटव को लेते हुए ढलकपुरा में अन्ना बैलिंग नाला पुलिया कुम्हार गली ढलकपुरा रोड तक.

वार्ड क्रं. — 19 विवेकानंद वार्ड, (जनसंख्या-3687)

उत्तर— रंगियापुरा चौराहा पर न.पा. की दुकानों से बन्दा बैरागी मार्ग पर हनुमान मंदिर को शामिल करते हुए बरईपुरा चौराहा पर देवी जी के मंदिर तक. रोड क्रॉस कर फूलसिंह दांगी के मकान तक.

पूर्व— बरईपुरा चौराहा पर देवी जी के मंदिर से वीर हकीकत राय मार्ग पर श्वेताम्बर जैन मंदिर (कच्छी समाज) को शामिल करते हुए अतुल शाह का मकान व सावरकर पथ पर हकीमउद्दीन बोहरा के मकान तक.

दक्षिण— सावरकर पथ पर हकीमउद्दीन बोहरा के मकान से गुजराती टेलर्स को होते हुए सिटी पुलिस थाना कोतवाली तक.

पश्चिम— सिटी पुलिस थाना कोतवाली से तलैया मोहल्ला चौराहा पर देवी जी के मंदिर तक. फिर रोड क्रॉस कर अनिल शर्मा जी के मकान से खुमानसिंह रघुवंशी कालोनी में कैलाशचंद्र जैन के मकान गुलशन अरोरा रघुवीरसिंह ठाकुर व सलीम भाई पेढी वालों के मकान को लेते हुए रघुवीर प्रसाद शर्मा का मकान तक.

वार्ड क्रं. — 20 स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड, (जनसंख्या-4025)

उत्तर— गल्ला मण्डी लेते हुए मण्डी अन्त तक.

पूर्व— गल्ला मण्डी गेट से प्रारम्भ कर रोड क्रॉस कर मेहरवानसिंह की डेयरी को लेते हुए काली मंदिर होते हुए सुरेश पाल के मकान तक.

दक्षिण— सुरेश पाल के मकान से हरिजन छात्रावास होते हुए फुल्लू कुशवाह का मकान लेते हुए सुलभ काम्पलेक्स तक.

पश्चिम— सुलभ काम्पलेक्स से बाबूलाल अहिरवार के मकान को लेकर जाजू साडी सेन्टर के सामने की लाईन लेते हुए वकी साहब का खण्डहर लेते हुए रोड क्रॉस कर मजीद खॉ रूई दुकान से ऊपर लुहांगी पानी की टंकी महाराजसिंह यादव का मकान लेते हुए स्कूल को शामिल करते हुए, के.आर. साहू के मकान को शामिल करते हुए गल्ला मण्डी गेट तक.

वार्ड क्रं. — 21 डॉ. अम्बेडकर वार्ड, (जनसंख्या-4697)

उत्तर— मण्डी गेट के सामने अजीतसिंह दांगी के मकान से गिरधर गार्डन वाली लाईन होते हुए खरीफाटक रेलवे गेट तक.

पूर्व— मिठठु सौमत के मकान को लेते हुए अरिहन्त विहार फेस-1 में चैतन्य हास्पिटल का क्षेत्र लेते हुए, खरीफाटक गेट से श्री हनुमान मंदिर पारस महल को शामिल करते हुए काली मस्जिद के पास मेन रोड पर भैयालाल सराफ के मकान से बांये तरफ की लाईन लेते हुए रेलवे क्वाटर तक.

दक्षिण— खरीफाटक रोड पर भैयालाल सराफ के मकान से हरिसिंह एण्ड कंपनी के मकान को लेते हुए स्वागत भोजनालय सम्मिलित करते हुए स्टेशन पर आबकारी कार्यालय से रेलवे क्वाटर तक., शरद लॉज रेलवे क्वाटर्स से सिटी सेन्टर तक. भैयालाल सराफ के मकान से खरी फाटक रोड को क्रॉस कर गोवर्धन खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए गली में पीछे गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए एवं खेडापति माता मंदिर को छोड़ते हुए गली से दांये तरफ की लाईन लेते हुए नरेन्द्र शर्मा के मकान तक.

पश्चिम— लड़डा एजेन्सी रोड पर नरेन्द्र शर्मा के मकान से परसराम रैकवार के मकान को शामिल करते हुए अजीत जैन मकान तक फिर गली क्रॉस कर काछी मोहल्ला सुलभ काम्पलेक्स के सामने विजयसिंह कुशवाह हरिजन छात्रावास गणेशगंज मार्ग पर बी.एल. सुमन एवं एजाजुद्दीन के मकान को लेते हुए कमलेश राठौर, नारायणसिंह कुशवाह काछी मोहल्ला में एम.पी. शर्मा के मकान के सामने राजेश जैन के मकान, कलाबाई रैकवार, तखतसिंह लोधी के प्लॉट को लेते हुए, गल्ला मण्डी रोड को क्रॉस कर डॉ. सरस जैन के मकान को शामिल करते हुए गल्ला मण्डी गेट पर अजीतसिंह दांगी के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 22 रामकृष्ण परमहंस वार्ड, (जनसंख्या—3824)

उत्तर— वीर हकीकत राय मार्ग पर परिणय गार्डन के सामने स्थित प्रकाश जैन के मकान से गीतादेवी के मकान से होते हुए बाबूलाल जैन जीवनलाल पटवारी का मकान सम्मिलित करते हुए कृष्ण कुमार अग्रवाल लुहांगीपुरा के मकान तक.

पूर्व— अनन्दीलाल अहिरवार के मकान से गणेशगंज मार्ग पर डालचंद अहिरवार के मकान को लेते हुए जाजू साडी सेन्टर तक फिर रोड क्रॉस कर मनमोहन कोठारी का मकान शामिल कर रोड क्रॉस निरंजन पाटनी का मकान भगत जी सराफ का मकान सम्मिलित करते हुए सेठ राजेन्द्र कुमार जैन सेठ सितावराय लक्ष्मीचंद जैन के मकान तक फिर रोड क्रॉस कर माधवगंज चौराहे पर जैन मंदिर शामिल करते हुए विजय जैन आशीर्वाद भोजनलाय के मकान तक.

दक्षिण— अस्पताल रोड पर बसंत जैन सराफ हिना कलेक्शन के मकान से परमानंद गंगवानी की दुकान लेते हुए पलोड पेट्रोल पम्प तक.

पश्चिम— अस्पताल रोड क्रॉस पर कश्मीरी होटल के सामने नगर पालिका की शॉपिक काम्पलेक्स को लेते हुए वेयर हाउस गोदाम से रोड क्रॉस पर अग्रवाल धर्मशाला का पिछला हिस्सा सम्मिलित करते हुए बडकुल भवन डोली भवन से रोड क्रॉस कर साबरकर पथ पर भगत जी सराफ के मकान से वीर हकीकत राय मार्ग पर फूलसिंह दांगी वकील का मकान लेते हुए प्रकाश जैन के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 23 गुरुनानक वार्ड, (जनसंख्या-4515)

उत्तर— डण्डापुरा विदिशा स्थित नगरपालिका गैरेज से श्री कैलाश रघुवंशी (गजार वाले) का मकान लेते हुए रोड क्रॉस कर मजार सम्मिलित करते हुए श्री आलोक जौहरी के मकान तक, आलोक जौहरी से श्री महेश पाण्डे का मकान लेते हुए श्री सुबोध श्रीवास्तव के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर भैंसासुर बाबा के पास अनिल मेहरा जी मकान से शीतला माता मंदिर गली में दाहिने हाथ वाला हिस्सा लेते हुए दुधिया भैरो मंदिर से बटेश्वर महादेव मंदिर तक बटेश्वर महोदव मंदिर से डॉ. एस.जी.एस. खरे तक के मकान तक फिर रोड क्रॉस कर चौरसिया अस्पताल, श्री दीपसिंह रघुवंशी का मकान, श्री-दीपसिंह रघुवंशी के मकान से रोड क्रॉस कर श्री मनीष अग्रवाल का मकान शामिल करते हुए रोड क्रॉस पूर्व विधायक जी श्री गुरुचरणसिंह जी का मकान लेते हुए फिर रोड क्रॉस कर मूडी टेलर, न्यू विजय टाकीज शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर गुरुद्वारे को सम्मिलित करते हुए साबरकर बाल विहार तक.

पूर्व— साबरकर बालविहार के गेट से न.पा. दुकानों को शामिल करते हुए साहू के मकान को लेते हुए अस्पताल रोड पर कश्मीरी होटल तक.

दक्षिण— अस्पताल रोड सिटी सेंटर के पास पोस्ट आफिस, मानक की लस्सी से दाहिने हाथ वाले भवनों को लेते हुए म.प्र. विधुत मण्डल शामिल करते हुए बडजात्या शिशु मंदिर तक का रेलवे लाईन किनारे तक का क्षेत्र.

पश्चिम— अस्पताल रोड पर बडजात्या शिशु मंदिर के सामने जिला चिकित्सालय को शामिल करते हुए नीमताल, गांधी चौक पर मिश्रा भवन, श्री संतोष श्रीवास्तव माया का मकान शामिल करते हुए श्री रमेश विश्वकर्मा के मकान तक एवं रोड क्रॉस कर डॉ. एस.जी.एस. खरे से विदिशा फोटो स्टूडियो के पास रामप्रसाद चावरिया, शांतिबाई अहिरवार हरीजन बस्ती का सम्पूर्ण भीतरी क्षेत्र लेते हुए मानसिंह तक. शिवाजी चौक पर रोड क्रॉस कर मुन्नालाल कुशवाह की होटल से दाहिने हाथ के भवनों को लेते हुए न.पा. ट्रेक्टर गैरेज तक.

वार्ड क्रं. — 24 श्रद्धानंद वार्ड, (जनसंख्या—3851)

उत्तर— बडा बाजार में मूलचंद जैन कि दुकान से राज ज्वेलर्स रोड क्रॉस कर तखतसिंह चैनसिंह सर्राफ व वहाँ से तिलक जी की दुकान को शामिल करते हुए श्री रामसहाय वर्मा खादी भण्डार से साबरकर पथ पर बंसल ट्रेडिंग से पोस्ट आफिस लेते हुए श्री चौधरी प्रकाश सर्राफ के मकान तक.

पूर्व— साबरकर पथ पर चौधरी प्रकाश के मकान से अप्पू साईकिल तक.

दक्षिण— साबरकर बाल विहार के सामने अप्पू साईकिल से आज्ञाराम अरोरा व श्री अशोक ताम्रकार के मकान को शामिल करते हुए श्री महेन्द्र पाल जोगेन्द्र पाल अरोरा के मकान तक व रोड क्रॉस कर श्री महेन्द्र जैन के मकान व श्री गुरुचरणसिंह जी के प्लॉट श्री राम मार्केट को शामिल करते हुए गली में मजार व राजेन्द्र राय के मकान से श्री जगदीश दुबे के मकान तक व संजीव अरोरा से निकास में बनी ठनी की दुकान से व बनी की दुकान से भैंस डेरी श्री ओमप्रकाश अरोरा तक व वहाँ से श्री रज्जनलाल दुबे के मकान तक व रोड क्रॉस कर विश्वकर्मा मंदिर से कुलदीप घेंघट का मकान व रोड क्रॉस कर राजीव जैन हेमनत पचौरी के मकान को शामिल करते हुए दुर्गा माता मंदिर से बलवीरसिंह राठौर के मकान को लेते हुए शांतिलाल नेमा तक व गली में बालकदास की तलैया में नवीन वर्मा से महिला कल्याण केन्द्र को शामिल करते हुए राजीव जैन के मकान तक.

पश्चिम— बडा बाजार में मूलचंद जैन कि दुकान से आर्य समाज मंदिर को शामिल करते हुए रामेश्वर शर्मा के मकान तक व वहाँ से नरेन्द्र सोनी हरेन्द्र सोनी का मकान रोड क्रॉस कर गणेश मंदिर व रोड क्रॉस कर शीतला माता मंदिर से श्री यशपालसिंह सेंगर के मकान को शामिल करते हुए बटेश्वर मंदिर तक व वहाँ से गली में बालकदास कि तलैया में देवेन्द्र सक्सेना के मकान से राजेश सोनी तक व नर्वदाप्रसाद मिश्रा के मकान को लेते हुए विष्णु पलिया का मकान व कागदीपुरा रोड पर विदिशा स्टूडियो व पास वाली गली में प्यारेलाल बडोदिया के मकान तक बंद गली तक के कुछ भाग के मकान.

वार्ड क्रं. - 25 मुंशी प्रेमचंद वार्ड, (जनसंख्या-4127)

उत्तर— स्मृति उद्यान से बस स्टेण्ड को शामिल करते हुए गांधी चौक तक.

पूर्व— गांधी चौक से रानी दुर्गावती उद्यान लेते हुए रेलवे फाटक तक.

दक्षिण— रेलवे फाटक से भारतीय विद्या मंदिर को शामिल करते हुए वात्सल्य स्कूल को लेकर रोड क्रॉस कर झूलेलाल कालोनी को लेते हुए शहर की बाहरी सीमा तक.

पश्चिम— पीरिया नाले से रेलवे लाइन के सहारे मुड़कर इन्द्रा काम्पलेक्स के पीछे का क्षेत्र से होते हुए स्मृति उद्यान तक.

वार्ड क्रं. - 26 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड, (जनसंख्या-4595)

उत्तर— एस.एस.एल. जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पीछे से विश्राम गृह होते हुए होमगार्ड ऑफिस तक.

पूर्व— होमगार्ड ऑफिस से सुल्तानसिंह ठाकुर का मकान छोड़ते हुए सुशीला साहू के मकान के सामने से मुड़कर जिला जेल को शामिल कर नाले तक.

दक्षिण— नाले सहारे शहर की बाहरी सीमा तक.

पश्चिम— शहर की बाहरी सीमा से भारती विद्या मंदिर के सामने एस.एस.एल. जैन कॉलेज तक.

वार्ड क्रं. – 27 लालबहादुर शास्त्री वार्ड, (जनसंख्या-4689)

उत्तर— सौंठिया फाटक से सामने जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल से रामद्वारा, जिला अभिभाषक कार्यालय, ए.डी.एम. बंगले को लेते हुए गायत्री मंदिर के सामने गोपाल नेमा के काम्पलेक्स तक.

पूर्व— गायत्री मंदिर के सामने गोपाल स्वीट्स वाले श्री गोपाल नेमा के काम्पलेक्स से राजीव नगर रोड पर एक लाईन लेते हुए दीपक कपूरी के मकान तक. एवं राजीव नगर रोड क्रॉस डॉ. एम.के. जैन मकान से कटियार लॉज लेते हुए दुर्गा नगर मेन रोड पर श्री प्रेमनारायण शर्मा के मकान से दुर्गा मंदिर लेते हुए पूरनपुरा चौराहे स्थित सुधीर सेंगर के मकान तक.

दक्षिण— पूरनपुरा चौराहा पर सुधीर सेंगर के मकान से फोरेस्ट डिपो ईको सेन्टर रोड दांयी लाईन लेते हुए बलराम साहू, छत्रपाल शर्मा, थापा की दुकान एवं प्रकाश जोशी वकील के मकान को लेते हुए रोड क्रॉस कर होमगार्ड आफिस से जिला पंचायत कार्यालय को लेते हुए रोड क्रॉस कर वीरेन्द्र रघुवंशी वकील के मकान को लेते हुए पुलिस लाईन के सामने शांति निकेतन हायर सेकेण्ड्री स्कूल तक.

पश्चिम— शांति निकेतन हायर सेकेण्ड्री स्कूल से पंजाब नेशनल बैंक लेते हुए जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल तक.

वार्ड क्रं. — 28 टैगोर वार्ड, (जनसंख्या-4220)

उत्तर— सौंठिया रेलवे फाटक से रेलवे लाइन को लेते हुए रेलवे प्लेटफार्म 02 को सम्मिलित करते हुए बी.टी.आई. रोड पर रेलवे क्वार्टर तक.

पूर्व— रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रं. 02 के रेलवे क्वार्टर बी.टी.आई. रोड के पास मुले के मकान धोबी प्रेस वाले की गुमठी से गजराजसिंह रघुवंशी के मकान को लेते हुए विकास पचौरी के मकान को शामिल कर समाधान बिल्डिंग एवं खुली भूमि का आस-पास का क्षेत्र शामिल कर मनीष धोबी की गुमठी के सामने की लाइन को लेते हुए सी.एम. हाउस अतीत विश्वकर्मा एवं किरण गर्ल्स हॉस्टल को लेते हुए बी.टी.आई. रोड क्रॉस कर इण्डिया काफी हाउस को लेते हुए दीपक बाजपेयी के मकान को सम्मिलित करते हुए चिरंजीवी नर्सिंग होम तक.

दक्षिण— जिला शिक्षा कार्यालय से डाइट भवन को लेते हुए चन्द्रशेखर आजाद मार्ग क्रॉस कर एस.ए.टी.आई. गेट (सुरक्षा चौकी वाला) तक

पश्चिम— दुर्गा नगर चौराहे की तरफ दुर्गानगर रोड क्रॉस पर सरोज गायकवाड के मकान से डॉ. स्वर्णकार के मकान को सम्मिलित करते हुए राजीव नगर रोड पर नारायणप्रसाद शर्मा के मकान तक. चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर रामजी मिठाई वाले की दुकान तक. चन्द्रशेखर आजाद मार्ग क्रॉस कर गायत्री मंदिर के पास गुप्ता होटल की दुकान को सम्मिलित करते हुए ओव्हर ब्रिज के पास कुशवाह की होटल एवं अदालत को लेते हुए सौंठिया रेलवे फाटक तक.

वार्ड क्रं. — 29 चंद्रशेखर आजाद वार्ड, (जनसंख्या-3730)

उत्तर— अप रेलवे लाइन से चित्रगुप्त धर्मशाला को लेते हुए मछली मार्केट को शामिल कर खरीफाटक रेलवे गेट से जितेन्द्र रोहित के मकान को लेते हुए रेलवे क्वार्टर व दांय हाथ की लाई को शामिल करते हुए कमल टी स्टाल वाले के मकान के आस-पास का क्षेत्र शामिल कर मालवीय की किराने की दुकान तक.

पूर्व— खरीफाटक रेलवे गेट से दांय हाथ की लाइन में साहू का मकान एवं महेन्द्र रघुवंशी के मकान को लेते हुए महेन्द्र यादव के मकान से करैयाखेडा रोड पर नगरपालिका की दुकानों तक.

दक्षिण— चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर करैयाखेडा रोड के पास नगरपालिका दुकानों को लेते हुए अहमदपुरा चौराहा के पास मोदी किराना स्टोर्स को लेते हुए जीवन्ती हास्पिटल के पास नरेन्द्र जैन के मकान तक.

पश्चिम— नरेन्द्र जैन के मकान से केदारनाथ के मकान तक. रोड क्रॉस पर उपाध्याय के मकान से समाधान बिल्डिंग को लेते हुए बी.टी.आई. रोड पर गजराजसिंह रघुवंशी के मकान तक. बी.टी.आई. रोड पर गजराजसिंह रघुवंशी के मकान से गुप्ता जी गुंजन स्टेशनरी दुकान को सम्मिलित करते हुए मुले के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 30 चंद्रगुप्त वार्ड, (जनसंख्या-4678)

उत्तर— श्री जितेन्द्र रोहित की दुकान को लेते हुए एवं मंटू श्री गम्भीरसिंह के मकान को लेते हुए श्री जगदीश प्रसाद शर्मा का मकान लेते हुए शंकर जी की मंदिर तक खरी फाटक बाहर बस्ती।

पूर्व— विक्रमसिंह रघुवंशी के मकान को लेते हुए श्री खिलानसिंह लोधी के मकान डेरी को लेते हुए मुक्तांगन कालोनी तक रेल्वे पटरी के किनारे वाली बस्ती लेते हुए मुक्तांगन कालोनी तक.

दक्षिण— श्री रत्तिचंद जैन के मकान को लेते हुए श्री सुरेश भावसार की होटल लेते हुए श्री नारायणसिंह लोधी के मकान को लेते हुए रेल्वे पटरी तक सुभाष नगर गली रेल्वे पटरी तक ऊषा इण्डस्ट्रीज एवं कान्वेंट स्कूल आकृति उद्योग इण्डस्ट्रीज एरिया का कुछ भाग सम्मिलित करते हुए टंझयर की दुकान तक.

पश्चिम— श्री कस्तूरचंद जैन पीली बिल्डिंग मकान को लेते हुए श्री भावसार होटर लेते हुए पीतल मील चौराहा सागर रोड तक.

वार्ड क्रं. — 31 शहीद भगतसिंह वार्ड, (जनसंख्या-4155)

उत्तर— तोरणसिंह दांगी के मकान को लेते हुए मिश्रीलाल तिवारी के मकान को लेते हुए विश्वकर्मा के मकान को लेते हुए तक.

पूर्व— तखतसिंह लोधी के मकान को लेते हुए डॉ. पांचाल के मकान को लेते हुए महारानी अवंतीबाई की प्रतिमा को लेते हुए अण्डर ब्रिज तक.

दक्षिण— सागर रोड मुख्य मार्ग लेते हुए नेमा की दुकान शामिल करते हुए बाबू यादव को लेते हुए अप रेलवे लाईन तक का सम्पूर्ण भाग एवं आस-पास का भाग सम्पूर्ण गलियाँ

पश्चिम— देवीसिंह रघुवंशी के मकान को लेते हुए अण्डर ब्रिज के सामने के मकान को लेते हुए उषा मालवीय के मकान तक एवं विजय डेरी तक.

वार्ड क्रं. — 32 संत विनोवा वार्ड, (जनसंख्या-4831)

उत्तर— मुकेश गुप्ता उषा इण्डस्ट्रीज को लेते हुए बंटी नगर रोड राधा कृषि यंत्र लेते बंटी नगर मोड से पार्वती पुरम का गेट लेते हुए विमल साहू के मकान लेते हुए नाले तक.

पूर्व— दुर्गा जी के मंदिर लेते हुए श्री रामकिशन सूर्यवंशी का मकान लेते हुए पार्वती पुरम के आस-पास का क्षेत्र गली नं. 1,2,3 को सम्मिलित कर साहू के मकान तक ग्राम तमोरिया के पश्चिमी भाग से तार फेंसिंग वाले खेत तक.

दक्षिण— नाले के पास जमनाप्रसाद साहू के मकान को लेते हुए शनि मंदिर को लेते हुए दीवनसिंह पंथी के मकान तक.

पश्चिम— आचार्य कालोनी को लेते हुए नारायणसिंह चिढार का मकान से हर्ष विहार कालोनी लेते हुए जसवंत रघुवंशी के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 33 मिर्जापुर वार्ड, (जनसंख्या-3692)

उत्तर— चौकसे नगर को शामिल करते हुए एवं नई मण्डी को शामिल करते हुए उदय नगर कालोनी फेस-1 एवं फेस-2 रेल्वे लाईन वर्षाना स्कूल का सम्पूर्ण क्षेत्र तक.

पूर्व— धतूरिया की पुलिया लेते हुए इण्डियन पेट्रोल पंप को शामिल करते हुए मिर्जापुर की बस्ती एवं आदिवासी मोहल्ला लेते हुए सागर मेन रोड तक.

दक्षिण— गोपाल दांगी के मकान को लेते हुए संकट मोचन मंदिर शामिल कर सागर मेन रोड के मुख्य मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र ज्ञान ज्योति स्कूल तक.

पश्चिम— सागर मेन रोड के दायां हाथ का सम्पूर्ण भाग तक.

वार्ड क्रं. — 34 सम्राट अशोक वार्ड, (जनसंख्या-4895)

उत्तर— ब्रजेश अहिरवार के मकान से पी.एच.ई. आफिस लेते हुए वकील कालोनी मिर्ची फैक्ट्री तक.

पूर्व— वकील कालोनी से मिर्ची फैक्ट्री लेते हुए करैयाखेडा मार्ग तक.

दक्षिण— अग्रवाल के मकान से आर.के.एम. स्कूल लेते हुए अयोध्या बस्ती, वकील कालोनी से मिर्ची फैक्ट्री तक.

पश्चिम— अग्रवाल के मकान से एफ.सी.आई. लेते हुए अहमदपुर चौराहा सुलभ काम्पलेक्स से ब्रजेश अहिरवा के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 35 राजीव नगर वार्ड, (जनसंख्या-3910)

उत्तर— राजीव सिलाकारी के मकान से अय्यपा मंदिर, विद्या सागर बी.एड. कालेज तक.

पूर्व— विद्यासागर कालेज के रामचंद्र मिशन आश्रम तक.

दक्षिण— श्रीराम चंद्र मिशन आश्रम से इंद्रप्रस्थ कालोनी को लेते हुए विजय नगर टॉवर वाली गली से अहमदपुर रोड रमेश जैन के मकान तक.

पश्चिम— रमेशचंद जैन के मकान से अहमदपुर मेन रोड पर राजीव सिलाकारी के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 36 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, (जनसंख्या-4875)

उत्तर— चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर एस.ए.टी.आई. गेट से अहमदपुर तिराहा स्थित सेन्ट्रल बैंक एस.ए.टी.आई. शाखा से कलेक्टर बंगले सर्किट हाउस के कार्नर तक दुर्गा नगर मेन रोड से विदिशा स्टूडियो वालो का मकान लेते हुए माया सक्सैना के मकान को शामिल पट्टन कर के मकान के पास एस.ए.टी.आई. के पीछे के गेट तक का भाग.

पूर्व— अहमदपुर तिराहा स्थित बैंक एस.ए.टी.आई. शाखा से अहमदपुर रोड के दांयी तरफ की पंक्ति लेते हुए संजू रैकवार देवी मढिया के पास तक एवं अहमदपुर रोड क्रास करते हुए सामने सुलोचना विश्वकर्मा के मकान से बी.एल. चौकसे पूर्व ठेकेदार के मकान से खेत तक एवं जैन वेयर हाउस पोल फैक्ट्री एम.पी.ई.बी. क्वार्टर लेते हुए म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी से साईं मंदिर लेते हुए वाह्य सीमा तक.

दक्षिण— वाह्य सीमा से अहमदपुर रोड क्रास करते हुए एच.आर.डी. महाविद्यालय लेते हुए खाली खेत तक. फिर रोड क्रास कर पूरनपुरा गली नं. 03 की दांयी श्री खिलानसिंह कुशवाह का मकान लेते हुए दुर्गानगर मेन रोड पर श्री योगेन्द्रसिंह सेंगर के मकान तक.

पश्चिम— योगेन्द्रसिंह सेंगर के मकान से दुर्गा नगर मेन रोड तक. डॉ. माया सक्सैना के मकान तक एवं डॉ. माया सक्सैना के मकान से कृष्णा कालोनी में श्रीमती सरला सोनी के मकान तक एवं एस.ए.टी.आई. बाउण्ड्री लेते हुए चन्द्रशेखर आजाद मार्ग स्थित एस.ए.टी.आई. गेट तक.

वार्ड क्रं. — 37 गांधी वार्ड, (जनसंख्या-4596)

उत्तर— दुर्गा नगर मेन रोड पर चौधरी मसरत अली के मकान से भगवती प्रसाद खरे के मकान को लेते हुए पूरनपुरा चौराहे से श्री हनुमान मंदिर को लेते हुए महेन्द्रसिंह यादव हेड साहब के मकान से पुलिया तक.

पूर्व— अहमदपुरा रोड पर रघुनन्दन ठेकेदार के मकान को लेते हुए जिंद बाबा के मंदिर एवं टावर को लेते हुए कृषि भूमि तक.

दक्षिण— जिंद बाबा के मंदिर से टीलाखेडी रोड के सामने नाले की सीमा एवं कृषि भूमि को लेते हुए बालाजीपुरम की पुलिया तक.

पश्चिम— बालाजीपुरम की पुलिया से श्री हनुमान मंदिर होते हुए एकता कालोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए सोनीराम अहिरवार के मकान से चौधरी मसरत अली के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 38 रसखान वार्ड, (जनसंख्या-4663)

उत्तर— सुशीला साहू के मकान से लेकर सुल्तानसिंह ठाकुर के मकान तक. मनोहर कुंज से लेकर हल्के नामदेव के मकान को लेकर उमाशंकर नामदेव के मकान को लेकर पूरन चौकसे के मकान तक.

पूर्व— सुल्तानसिंह ठाकुर के मकान को लेकर देशी शराब, वन विभाग लालधाऊ पुलिया तक द्वारकापुरी गेट से लेकर बालमुकुंद कुशवाह चाय की दुकान तक नरेन्द्र शाक्य के मकान से लेकर राज बिहारी के प्लाट तक.

दक्षिण— पूरनपुरा पुलिया से लेकर राज बिहारी के प्लाट को लेते हुए नाथूराम रैकवारत तक.

पश्चिम— नाले के सहारे रामसिंह आदिवासी के मकान को लेते हुए सुशीला साहू के मकान को लेकर श्रीवास्तव जी के मकान तक. हिम्मतसिंह जाटव के मकान तक.

वार्ड क्रं. — 39 टीलाखेडी, (जनसंख्या-4154)

उत्तर— मनोहर कुंज से लेकर हल्के नामदेव के मकान को लेकर उमाशंकर नामदेव के मकान को लेकर पूरन चौकसे के मकान को लेकर रेवडी वाले के मकान तक. एवं मालवीय जी के मकान को लेकर द्वारकापुरी के गेट तक.

पूर्व— द्वारकापुरी गेट से लेकर बालमुकुंद कुशवाह चाय वाले दुकान से लेकर नरेन्द्र शाक्य के मकान से लेकर राज बिहारी के प्लाट तक.

दक्षिण— राज बिहारी के प्लाट से लेकर नाथूराम रैकवार के घर को लेते हुए.

पश्चिम— श्रीवास्तव जी के मकान को लेकर हिम्मतसिंह जाटव एवं एस.एन. मिश्रा तक के मकान को लेकर रघुवीर के मकान तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर.

Vidisha, the 01st November 2019

No. 748 Utilization of Powers Conferred By Sub-Section (1) of section 29 of Madhya Pradesh Municipal Act, 1961 (No. 37 of 1961) Kaushalendra Vikram Singh, Collector, District Vidisha Etdwara, Municipal Council Vidisha, Determine the Limitation of wards of District Vidisha as per the schedule given below :-

SCHEDULE

S.No (1)	Ward No (2)	Ward Name (3)
1	1	BAIS WARD
2	2	RANI DURGABATI WARD
3	3	KASTURBA WARD
4	4	JAWAHARLAL NEHRU WARD
5	5	SAROJNI NAIDU WARD
6	6	MAHARANA PRATAP WARD
7	7	CHANAKYA WARD
8	8	INDRA WARD
9	9	BEEJA MANDAL WARD
10	10	BETRAWATI WARD
11	11	NANA SAHAB PESHWA WARD
12	12	MAHARANI LAXMI BAI WARD
13	13	BALAJI WARD
14	14	MAHAKAVI KALIDAS WARD
15	15	CHATRAPATI SHIVAJI WARD
16	16	MAHAVEER SWAMI WARD
17	17	SANT TULSI WARD
18	18	DURGA WARD
19	19	VIVEKANAND WARD
20	20	SWAMI DYANAND SARSWATI WARD
21	21	DR. AMBEDKAR WARD
22	22	RAMKRISHAN PARAMHANSH WARD
23	23	GURUNANAK WARD
24	24	SHRIDHA NAND WARD
25	25	MUNSHIL PREMCHAND WARD
26	26	DR. RADHAKRISHAN WARD
27	27	LALBAHADUR SHASTRI WARD
28	28	TEGOR WARD
29	29	CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD

30	30	CHANDRA GUPT WARD
31	31	SAHEED BHAGATSINGH WARD
32	32	SANT BINOBHA WARD
33	33	MIRJAPUR WARD
34	34	SAMRAT ASHOKA WARD
35	35	RAJEEV NAGAR WARD
36	36	DR. RAJENDRA PRASHAD WARD
37	37	GANDHI WARD
38	38	RASHKHAN WARD
39	39	TEELAKHEDI WARD

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

KAUSHALENDRA VIKRAM SINGH, Collector.

Ward No: 01 - Bais Ward, (Population - 4505)

North: Dholkhedi Village.

East: Revenue village Chak, JiwajiPur Daudpur border, along river betwa to Funeral Ground Denis colony including Naulakhi upto handpump.

South: Ghat Pipariya to Chhirkheda road to Berasia road including Khaambaba mound upto Ganeshpura Bais Nagar.

West: Ward number 02 upto Janki Nagar.

Ward No: 02 - Rani Durgawati Ward, (Population - 4029)

North: Chidhol wali mata upto cold milk centre.

East: From Janki Nagar to Mahal ghat water works Guthan.

South: From Jagdish's house to Pappu Kushwah's house in front of Guthan.

West: Including Chourasia Kirana to Llaal Miayan Pathan upto the Mosque.

Ward No: 03 - Kasturba Ward, (Population - 4590)

North: Including house of Chandrakant upto Daulatram Kushwah trijunction in front of Ayodhya Nagar Rajput colony.

East: In front of Neelkantheswar temple, Santoshi mata mandir, Street number 1,2, Mohangiri Police post, Street no. 03 upto Maa Annapurna temple.

South: Including Gopika Ballabh Sharma to Mohangiri brook way upto Shiv temple Tulsiram Raikwar.

West: From Kamta Prasad Sharma to Teachers colony road. Maa hospital road upto Pritam Balmiki's house.

Ward No: 04 - Jawaharlal Nehru Ward, (Population - 4235)

North: Alok Chaturvedi's house on Teachers colony road to Mohangiri Ramdayal Panthi's house including Shankar teela to Leelabai's house behind Bright Career School including a part of Arihant Vihar upto Bhupendra Singh's house also including inner side of Mohangiri Street number 03 and 04.

East: Bright Career School on Teachers colony road upto Rishabh Jain's house and Arihant Vihar phase-01 including Cooperation bank, Chootelaal Khushwah's house and phase-04.

South: Including Preemai Kushwah's house at Galla Mandi, Mayabai Ahirwar's house and entire Shankar Tila area.

West: From Tapes Jain's house to Pawan Vidhrohi's house in Arihant Vihar phase-03 and entire Arihant Vihar phase-02

Ward No: 05 - Sarojni Yaydu Ward, (Population - 3705)

North: From Mohangiri Dhanpal Kushwah's house upto Janpaal Balmiki's house Luhangi Mohalla including Raghuveer Rai's house, Dinesh Balmiki's house, Kasturba High School crossing the road, Galla mandi gate.

East: From Janpaal Balmiki's house Luhangi Mohalla upto Baraipura Galla Mandi Gate including the boundary of Galla Mandi, Diwan Singh's House; from Munnibai's house to Mahesh Bahrati's house.

South: From Galla Mandi Gate to Pratapbhanu Sharmaji's house including Devendra Sharma's house in Lohangipura.

West: Pratapbhanu Sharmaji's house on Veer Haqiqat Rai road to Dhanpal Kushwaha's house including Mohanbai Rajput's house, frontal area of Baraipura Shiv mandir crossing the road, also including Kerosen Pump, Mohangiri Mahamai mandir Maa Hospital road.

Ward No: 06 - Maharana pratap Ward, (Population - 4468)

North: From Sandhiya Bal Mandir including complete area of Baraipura Ganesh mandir upto Mata Mandir Baraipura square.

East: From the CC road Baraipura lane to Banda Bairagi marg upto the house of Vyas ji and Aaganwadi street no. 1,2,3, house of Kishori.

South: From the house of Bhupendra Raghuwanshi to Mullobai's house, complete area including Jagdish Prasad Namdev's house.

West: From the house of Manchand upto house of Mauziram Lodhi including Jagdish Kushwah's house.

Ward No: 07 - Chanakya Ward Ward, (Population - 4626)

North: From the house of Bhupendra Raghuwanshi of Kachhi Mohall includig area of Kachhipura mohalla Luv Kush marg house of Pappu Kushwah upto house of Shivdayal Vyas.

East: From Shiv Mandir of Baraipura square including house of Randheer Singh Dangi and house of Rajmal Jain including house of Veersingh Raghuwanshi upto complete area Baraipura.

South: From Shiv Mandir of Baraipura square including Tejwal Bhawan of Banda Bairagi marg and Laxmi Sadan upto house of Bhupendra Raghuwanshi.

West: From Veersingh Raghuwanshi's house on Jatrapura road near Doul Depot lane including Kushwaha Garden upto house of Mardan Singh Kushwaha.

Ward No. – 8 Indra Ward (Population 3822)

North- From the house of Omprakash Namdev on Raghavji colony road upto Rajput dharmshala in Raghvji colony area.

East –House of Lakhan Kumar on Jatrapura road ,Sharma dalry and Bandhan Garden upto Omprakash's house.

South- Whole area of Nagala and Vashali Nagar

West – Kailash Narayan Sharma marriage hall on Reetha crossing road to Sanjay Udhyog upto lawyer Lallalal Jain's house.

Ward No. 9 Bijamandal ward population – 4275

North – From Narayan Singh Kushwah's house upto Bundel Singh halwai's house including Bhoipura.

East- From Bundel Singh halwai's house upto Imam Bada including Imli mosque and Vijay temple.

South- From Imam Bada upto house of Narayan Singh including house of Rajkumar Sharma.

West- Depot in front of Raipura School , Mali ka Bagicha , entire area of Raipura New Basti from Patli ghat to the house of Narayan singh Kushwah across the road.

Ward No: 10 - Vetarvati Ward, (Population - 4039)

North: From Vitthal Nagar to entire Mukharji Nagar sector-A, B, C including office Ofchief Medical Officer.

East: From Premnarayan Sharma's hosue including police post to complete inner area upto Santosh Gujar's house including Amul milk dairy , Anupam Mega City, Shankar Nagar, Shastri Nagar, Sai Shraddha.

South: From Stadium to Pilia Nala including District Hospital Collectorate, Bhagat Singh Colony along railway line.

West: From Pilia Nala to Vitthal Nagar including Amrai dhaba.

Ward No: 11 - Nana Sahab Peshwa Ward, (Population - 4456)

North: From Banskuli Gulab Singh's house to Mr. Bijendra Pandey's house including Shri Rudra Pratap's house upto Dharmachandra Mehra's house.

East: Rampyaribai's house to Gulab Singh's house including shivaji square, Niranjan Verma's house , Mehraji's house.

South: From Mrs. Ramkali Bai Solanki house at Neemtal to Gulab Vatika including Hanuman temple, Sankal Kuan.

West: From Gulab Vatika to Manas Shishu Mandir street to back part of Samrat Garden upto front of Patel Garden , Rajendra Nema's Shanti Sweets. Rajmal Madhwaiya's house, Right side of Saupariya Road including Dharmendra Sharma's house , Mata temple upto Rampyaribai Solanki's house.

Ward No: 12 - Maharani Laxmibai Ward, (Population - 3858)

North: From building of Umesh Saini at Vidisha - Ashok Nagar road to building of Manoj at Raipura school road and Laddaji's house, entire Chamunda street, Girls School square , old Home Guard Office, Municipality shops (pedi square) , Shri Ram temple, municipality dispensary upto Shri Hanuman temple.

East: From Shri Hanuman mandir to Ganesh Mandir including Kamar Jadiya's building and Balaji Enclave entire area including Chintamadi temple Kaji House including building of Ex-Corporator Virendra Kushwaha at dandapura road.

South: From Virendra Kushwaha's house at Sindi Colony road to Goraji Temple including Madan Sagar flour mill upto Pal Garden and at Harishankar Kushwaha house at Vidisha -Ashok Nagar road.

West: From Harishankar Kushwaha's house at Vidisha -Ashok Nagar road to Jitendra Tiwari's shop and Ramesh Saini's building infront of Raipura Shool.

Ward No: 13 - Balaji Ward, (Population - 4251)

North: From Sahu Flour Mill to Santosh Acharya's house in front of Vijay temple.

East: From Santosh Acharya's house to Hanuman temple upto Parshuram square.

South: From Parshuram square to Laxmibai road upto front of Gyan Jat's house.

West: From Gyan Jat's house upto sahu aata chakki in front of Acharya's house.

Ward No. 14 Mahakavi kalidas ward (Population – 4725)

North- From the house of Chanda Thakur including Kalidas marg upto the Sulbh Souchalaya of Nagar Palika .

East- From the hut of Ramesh Balmiki Jai Stambh road upto the valley, Krishna Devi Shrivastva's house near Woradwari Kuan and Bais Darwaza road upto the shop of Manoj Panjwani.

South- From the General Store shop of Manoj Panjwani up to the street of Mishra ji including Dharmadhikari square, including Hanuman mandir upto the house of Manmohan Yadav.

West - From the house of Manmohan Yadav including Nagarpalika Sulabh Shouchalaya and Kazi Mahal including Radha Kiran Mandir near to the Bhoi Darwaza from Moh. Khalid Miya's house up to the house of Chanda Thakur

Ward no. 15 Chatrapati shivaji ward (Population 4324)

North- Including the house of Shri Kaushal Yadav in Nai moholla (Toppura) including the house of Bhujjilal Kushwah to Bohra street Kajdappura including bohra street to including the house of Shri Santosh Gupta on Banda Beragi marg, house of Vijay Sharma across the road upto the DP.

East – From Charmashodhan Kendra to Ambedkar Bhawan primary school including Ragaipura in front of Vijasan Mata temple up to the house of Halke Ram Ahirwar.

South- From the house of Halke Ram Ahirwar. Sonkar Bhawan, Bade Balaji mandir across the road, from doctor Acharya's clinic up to Bajriya Vachnalay across the road.

West- From Bajariya Vachnalay to Jay Complex including the house of Govardhan Sahu, from the house of Babulal Yadav, Purani Kalari , from the house of Sen in front of Gitanjali School up to the house of Kaushal Yadav across the road.

Ward No-16 Mahaveer Swami ward population-4091

North- From the house of Prasant Acharya upto the house of Saraswati Bai crossing Jai Stambh park passing by Santosh & Mangal Dangi's house and turning from Krishna Bai's house

East – From the house of Sarsawati Shrivastav, passing by Jhulanpeer Mosque up to the shop of Pawan Soni.

South – From the house of Pawan Soni up to shop of Girish Jain,.

West – From the shop of Girish Jain up to the house of prashant acharya , passing by Hanuman mandir, turning from in front of Nag mandir including front part of Parshuram square.

Ward no 17 Shant tulsi ward (Population 3989)

North – From Bajariya passing by the shop of Mukesh Rajpur up to the ambika bhavan including the house of Chorasiya by crossing the nala including Beejasan Mandir

East – From front of Ambika Bhavan up to the plot of rajesh jain nikasha road including the street behind the house of Abdul Hamid Gouri including the house of advocate Puranchandra Moray ,house prajapati across the nala.

South – From the plot of Rajesh Jain Swarnkar road to Monika Optical, shop of Totaram Sindhi Tilak Chowk including the shop of Krishan Sindhi up to the shop of Pannalal Bhaiya Lal Saraf at Bada bazaar.

West – From the shop of Pannalal Bhaiya Lal Saraf including the house Of Pawan Laskari including the temple of Namdev Samaj at Lal Mazaar including Gadhiwala kuan including clinic of doctor Pitliya including Jhulanpeer Mazar up to the shop of Mukesh Rajput

Ward No: 18 - Durga Ward, (Population - 4022)

North: Along the Dalakpura Road passing by Soni Kirana Store including Rangiyapura kuan upto the house of Arvind Jain, right side of Durga chowk Talaiya upto Shyam Babu Shrivastava's house infront of durga temple.

East: From Shyam Babu Shrivastava's house Durga marg Talaiya to Nagar Palika Bhawan along Savarkar path Durga Chowk Talaiya Marg.

South: From old Nagar Palika Bhawan to Nikasa road, Haider Ali royal market including Avadhnarayan Agrawal, Braj Sweets upto Rambabu Haribabu Sahu's house Kumhar lane.

West: From Rambabu Haribabu Sahu's house Kumhar lane including .Mangilal Jatav with Dalakpura including Anna Building Nala Puliya upto Kumhar lane Dalakpura road.

Ward No: 19 - Vivekanand Ward, (Population - 3687)

North: Rangiyapura chouraha Nagar Palika shops to Banda Bairagi marg including Hanuman mandir upto Baraipura square Deviji temple.

East: From Baraipura square Deviji temple to Veer Hakikat Rai marg including Swetambar Jain Mandir (Kachi Samaj) upto Hakeemuddin Bohra house on Savarkar path including Atul Shah's House.

South: From Hakeemuddin Bohra house on Savarkar path to Gujrati tailors upto the Police Thana Kotwali.

West: From City Police Thana Kotwali to Taliya Mohalla square upto Deviji Temple then cross the road from Anil Sharma Ji's house to Khuman Singh Raghuwanshi colony , Kailash Chand Jain house, Gulshan Arora, Raghuveer Singh Thakur , Sameem Bhai Pediwale's house upto Raghuveer Prasad Sharma house.

Ward No: 20 - Swami dayanand saraswati Ward, (Population - 4025)

North: From Galla Mandi upto the end of mandi.

East: Starting from Galla Mandi Gate , Mehawaan Singh Dairy across the road, Kali mandir upto Suresh Pal's house.

South: From Suresh Pal's house to Harijan Chhatravas including Fullu Kushwah's house upto Sulabh Complex.

West: From Sulabh Complex to Babulal Ahirwar house, front line of Jaju Sari Centretake including Wakil Sahab ka Khandar, Masjid Khan cotton shop to upper Luhangi water tank including Maharaj Singh Yadav's house , school, K.R. Sahu's house upto Galla Mandi Gate.

Ward No: 21 - Dr. Ambedkar Ward, (Population - 4697)

North: Infront of mandi gate from ajeet singh dangi house to girdhar garden line including upto khari phatak railway gate.

East: From mitthu somat house including chaitany hospital arihant vihar Phase-1, From khari fatak railway gate including hanuman mandir paras mahal from house of bhaiyalal sarraf main road kali masjid including left side of railway to railway quarter.

South: On khari fatak raod from bhaiyalal sarraf house to nari singh and company house including swagat bhojnalaya with station along excise department to railway quarter. from sharad lodge railway quarters upto city centre from bhaiyalal sarraf house to khari fatak raod, then cross the road including the house off govardhan khandelwal reaving off the line of gupta house along khedapati maata mandir take the right line upto the narandra sharma house.

West: On ladda agency road, from narendr sharma house to parasram raikwar house upto the ajeet jain house then cross the line, infront kacchi mohalla sulabh complex vijay singh kushwaha harion hostel on ganesh ganj marge including B.L. suman and ezazuddin house with kamlesh rathore, narayan singh kushwaha kacchi mohalla inside m.p. sharma house infront rajesh jain house. including kalabai raikwar, takhat singh lodhi plot, cross the gehu mandi road including dr saras jain house along galla mandi outer upto ajeet singh dangi house.

Ward No: 22 - Ramkrishna Paramhansh Ward Ward, (Population - 3824)

North: On veer hakeekat marg infront of parinay garden situated prakash jain house jain house to geetadevi house along with babulal jain jeevanlal patwari house including upto krishna kumar agrawal whangipura house.

East: From anandilal ahirwar to ganeshganj marg including daalchand ahirwar house. along with jaju sari center then cross the road including the manmohan kothari house cross the road including niranjan partani house. bhagat ji sarraf house along seth rajendra kumar jain seth seth rajendra kumar jain seth sitavrai laxmichand jain house then cross the round on madhavganj square including jain mandir uptovijay jain aashirwad bhojnalaya house.

South: On hospital orad from basant jain sarraf hina collection to paramanand gangavani shop including pallod petrol pump.

West: On crossing hospital road infront of kashmiri hotel including nagar palika shopping complex from warehouse godown inside agrawal dharamshala including area behind port, badkul bhavan , doli bhavan, cross it with savarkar path on bhagat sarraf house to veer hakeekat rai marg including fhoolsingh dangi vakeel house upto prakash jain house.

Ward No: 23 - Gurunanak Ward, (Population - 4515)

North: From nagarpalika garrage situated in dandapura vidisha including the house of kailash raghuwanshi (Gajaar wale), on crossing the road including majar upto the house of alok johari from alok johari including the house of mahesh panday and house of subodh shrivastava on crossing the road house of anil mehra ji near bhessasur baba to right part of shitla mata mandir street including dudhiya bhairo mandir to bateshwar mahadev mandir from bateshwar mahadev mandir to house of SGS khare, on crossing the road chourasiya hospital and house of deepsingh raghuwanshi, from the house of deepsingh raghuwanshi, on crossing the road, including the house of manish agarwal again crossing the road house of ex-MLA shri gurucharan singh the after crossing road modi taileor including new vijay talkies, after crossing road including gurudwara to sabarkar bal vihar.

East: From the gate of sabarkar bal vihar including nagarpalika shops and house of sahu upto the kashmiri hotel on hospital road.

South: From hospital road, post office near city centre iand shop of manak lassi including complex on right side and M.P. vidhut mandal upto the badjatya shishu mandir and the area of railway line.

West: In front of badjatya shishu mandir on hospital road, including district hospital neemtal mishra bhawan on gandhi chowk and house of santosh shriwastar maya to the house of ramesh vishwakarma on crossing the road, from Dr. SGS khare near vidisha photo studio, ramprasad chourasiya shantibai ahirwar harijan colony complete aea upto mansingh crossing the shivaji chowk hotel of munnalal kushwah hotel, including right side complex upto to nagarpalika tractor garrage.

Ward No. 24 Sheadhanand Ward (Population 3851)

North- From mulchand jainshop in bada bazaar crossing the road Raj jewellers from takhat singh chain singh suraf including tilak ji shop and shri ram shah verma khadibhandar and bansal trading on savankar path including post office choudhary prakash saraf house.

East – On sabarkar path , from the house of choudhary prakash upto appu cycle shop

South – In front of sabarkar bal vihar , from appu cycle shop from agyaram arora and shri ashok tamrakar shop upto shi mahendra pal . Jogendra pal arora house and road cross house of shri mahendra singh and plot of shri gurucharan singh ji including ram market from mazor and house of rajendra rai of house if shri jagdish dubey and from sanjeev arora including Banithani shop Nikasa to dairy shri om prakash arora and from shri house of shri rajjanlal dubey and road cross from vishukarma temple to house of kuldeep ghagahat and including house of Rajeev jain and hemant pachori from durga temple including house of balveer singh rathore to shantilal and in balak Das ki talaiya from naveen sharma to including mahila kalia Kendra to Rajeev jain house.

West – From the shop of mulchandra jain in bada bazaar including aarya samaj temple to house rameshvar sharma from their house of narendra soni and harendra soni and crossing the road including ganesh temple from shitla mata temple including house of yash pal singh senger upto baleshwar temple and from house of devendra saxena to rajesh soni in balak Das ki talaiya and including house of narmada Prasad mishra from their house of Vishnu paliya and vidisha studio on Kagdipura road including house of pyaralal Badodia upto some house of lored street

Ward No: 25 - Mushi premchand Ward, (Population - 4127)

North: From smriti garden including bus station upto gandhi square.

East: From gandhi square including rani durgawati garden upto railway crossing.

South: From railway crossing including bhartiya vidya mandir passing road from vatsalya school by crossing the road including the jhulelal colony to outer boundary of the city

West: From piliya nala to railway laine support and behind indira complex to smriti udhyan.

Ward No: 26 - Dr. Radhakrashnan Ward, (Population - 4595)

North: Behind SSL jain higher secondary school including rest house to home ground office.

East: From home ground office, including sultan singh house, turning from sushila sahu house including district jail upto nala.

South: Accross the nala upto outer border of city.

West: From outer border of city upto SSL Jain college in front of bhartiya vidya mandir.

Ward No: 27 - Lalbahadur Shastri Ward, (Population - 4689)

North: From sauthiya crossing infront of jain higher secondary school ramdwara, jila abhibhashak karyalay, including ADM bungalow and gopal nema complex infront f gayatri mandir.

East: From gayatri mandir infront of gopal nema complex of gopal sweets to rajeev nagar road taking in one line upto deepak kappors house, and crossing rajeev nagar road cross from dr. M.K. Jains house to katiyar lodge including durga nagar main road house of premnarayan sharma shouse including durga mandir and sudhir sengars house located on puranpoorasquare.

South: From sudhir sengar's house on puranpura square to forest department eco centre road including right line balram sahu, chhatrapal sharma, thapa shop and upto laweyer prakash joshi house road cross home guard office to jila panchayat office road cross including lawyer virendra raghuwanshi house and including shanti niketan higher secondary school infront of police line.

West: Form shanti niketan school including panjab national bank upto jain higher secondary school.

Ward No: 28 - Tagor Ward, (Population - 4220)

North: From sauthiya railway crossing to railway line including railway platform no. 02 and upto railway quarter on BTI road.

East: Railway quarter of railway station platform no. 2, muley's house near BTI road, from dhobi press shop upto gajraj singh raghuwanshi house, including vikas pachouri house, samadhan building and including ground open space including the front street of manish dhobi's shop Ex CM house atit vishwakarma including kiran girls hostel including indian coffee house by crossing BTI road including deepak bajpayee's house upto chiranjeevi nursing home.

South: Including district education office to DIET bhavan chandra shekar azad road cross SATI main gate.

West: Saroj gaikwad's house on durga nagar road towards durga nagar square to dr. swarnkar's house upto narayan prasad sharma house on rajeev nagar road will ramji mithai on chandra shekhar azad road and gupta house near gayatri mandir by crossing chandra shekhar azad road over bridge upto sauthiya railway crossing.

Ward No: 29 - Chandra Shekar Azad Ward, (Population - 3730)

North: Up railway line to chitra gupt dharmshala including machli market and including khari phatak railway gate including jiterndra rohit house, including railway quaters and right hand side including house of kamal tea stall upto malviya kirana store.

East: From Khari phatak railway gate to right hand side including the house of sahu and mahendra raghuwanshi and from house of mahendra yadav to the nagar palika shops on karaiyakheda road.

South: On chandra shekar azad marg road near karaiyakheda road including nagar palika shops near ahmedpur square including modi kirana store, near jiwanti hospital upto the house of Narendra Jain.

West: From the house of Narendra Jain to the house of kedarnath, on crossing the road house of Upadhyay including samadhan building upto the house of Gajraj singh Raghuwanshi, BTI road including gunjan stationery shop upto house of mule.

Ward No: 30 - Chandragupta ward, (Population - 4678)

North: Including jitendra rohit shop and mantu shri gambhir singh house including mr. jagdish prasad sharma house including sankar ji temple upto khariphatak outside basti.

East: From vikram singh raghuwanshi house including mr. khilan singh lodhi house dairy upto muktangan colony and including railway lines side colony upto muktangan colony.

South: From the house of Mr. rathichand Jain includin mr. suresh bhawsar hotel to mr. narayan singh lodhi house including railway lines and usha industry and convent school area and some part of including upto the some part of akarti udyog industrial area including upto tyre shop.

West: From the house of Mr. kashtoorchand jain yellow house including mr. bhawsar hotel including upto the pital mill square. sagar road.

Ward No: 31 - Sahid Bhagat Singh ward, (Population - 4155)

North: From the house of Toransingh dangi including mishrilall tiwari hosue including upto the vishwakarma house.

East: From the house of takhat singh including Dr. panchal house including statue of maharani avantibai upto under bridge.

South: From the sagar road including nema shop and babu yadav including up railway line of all area & near by some area and all streat

West: From the house of devisingh raghuwanshi including under bridge. infromt of under bridge including the house of usha malviya house upto the vijay dairy.

Ward No: 32 - Sant Vinova Ward, (Population - 4831)

North: From mukesh gupta usha industries including bunt nagar road radha krashi yantra to parvatipuram gate including vimal sahu house and upto nala.

East: From durga mandir including the house of ramkishan suryawanshi and area of gali no. 1,2,3 near parvati puram west part of village tamoriya to the fenced farm.

South: From the house of jamunaprasad sahu near nala including shai mandir upto the house of divansingh panthi.

West: From aacharya colony including the house of narayansingh chidar and harsh vihar colony upto the house of jaswant raghuwanshi.

Ward No: 33 - Mirzapur Ward, (Population - 3692)

North: Including chouksey nagar and new mandi upto the uday nagar colony phase-1 and phase-2 and complete area of railway line varshana school.

East: From culvert (pulia) of dhaturiya including indian oil petrol pump including mirzapur basti and adiwasi mohallah to sagar main road.

South: From the house of gopal dangi including sankat mochan mandir including main house of sagar main road upto the complete area of gyan jyoti school.

West: Full area of right hand side of sagar road.

Ward No: 34 - Samrat Ashok ward, (Population - 4895)

North: From the house of brajesh ahirwar including PHE office upto the wakil colony mirchi factory.

East: From wakil colony including mirchi factory upto the kariakheda road.

South: From the house of Agrawal including R.K.M. School and ayodhya basti and wakil colony to mirchi factory.

West: From the house of agrawal including FCI upto the ahmadpur square and sulabh complex to the house of brajesh ahirwar.

Ward No: 35 - Rajiv Nagar ward, (Population - 3910)

North: From the house of rajiv silakari to the ayyapa mandir and to vidhya sagar B.Ed college.

East: From vidhya sagar college to the ramchandra mission .

South: From shriram chandra mission aashram including indraprasth colony, and the vijay nagar towar gali to ahmadpur roa and house of ramesh jain.

West: From the house of rameshchand jain upto the house of rajiv silakari on ahmadpur main road.

Ward No: 36 - Dr. Rajendra Prasad Ward, (Population - 4875)

North: On the chandrashekhar marg SATI gate to central bank SATI branch statue at ahmedpur chowk to bunglow of collector to cornor of circuit house and from durga nagar main road including houses of vidisha studio maya saxena and pattan kor house to backside of SATI gate.

East: On ahmedpur inside from bank SATI branch, including right side of ahmadpur road to near sanju raikwar devi madhiya an crossing of ahmadpur road from sulochna vishvkarma house including BL chouksey contractor house to agricultural land including jain warehouse pole factory MPEB quarter from MP power transmission company including Sai mandir to outer boundary.

South: From outer boundary crossing ahmadpur road including HRD mahavidayala to empty land then after crossing road puranpura gali no. 3 including house of khilansingh kushwaha, durga. nagar main road to yogendra singh sengar's house.

West: From house of yogendra singh house to durga nagar main road and doctor maya saxena house and from doctor maya saxena house to smt. sarla soni in krishna colony and boundary of SATI including chandrashekhar azad marg to SATI gate.

Ward No: 37 - Gandhi Ward, (Population - 4596)

North: On durga nagar main road from chaudhary massrat ali house including house of bhagwati prasad khare puranpura square and infront shri hanuman mandir including mahendra singh yadav head sir to over pulia.

East: on ahmedpur road from raghuwanshi contractor house including jind baba mandir and Tower including that krishi bhumi.

South: From jind baba mandir to infront of tilakhedi road, crossing of nala and including krishi bhumi to balajipuram clony.

West: balajipuram pulia including shri hanuman mandir, full area of ekta colony, seniram ahirwar house to masrat ali house.

Ward No: 38 - Rashkhan Ward, (Population - 4663)

North: From the house of sushila sahu to sultan singh thakur and from the house of manohar kunj to the house of halke namdev and umashankar namdev to puran chouksey.

East: From the house of sultansingh thakur including deshi sharab, forest department Laldhau to the gate laldhau pulia from dwarkapuri gate to balmukund kushwaha tea shop to the house of narendra shakya to the plot of raj bihari.

South: From the puranpura pulia, including raj bihari plot to nathuram raikwar.

West: with the support of nala houses of ram singh Adiwasi and sushila sahu to the house of shrivastav ji up to the house of himmat singh jatav.

Ward No: 39 - Tilakhedi Ward, (Population - 4154)

North: From manohar kunj house to helke namdev house to umashankar namdev to puran chouksey to the house of revdi wala and from the house of malviya ji to dwarkapuri gate.

East: dwarkapuri gate to balmukund kushwaha tea shop to house of narendra shakya to the plot of raj bihari.

South: plot of raj bihari to house of nathuram raikwar.

West: house of Shrivastav ji, to himmat singh jatav and from S N mishras house to the house of raghuwanshi.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

KAUSHALENDRA VIKRAM SINGH, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्र. 66, एफ 1-44/2020/अठारह-3 कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा प्रेषित नगर परिषद मक्सी के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 49/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 31 जनवरी 2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, (शहरी विकास) जिला शाजापुर (म. प्र.)

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी, 2020

क्रं. 49 जिला शहरी विकास अभिकरण नगरपालिका परिसीमन प्रकाशन 2020— मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37, सन 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. वीरेन्द्रसिंह रावत कलेक्टर, जिला शाजापुर एतद्वारा नगरपरिषद मक्सी जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है।

अनुसूची

स.कं. (1)	वार्ड कं. (2)	वार्ड का नाम (3)
1	1	संजय गांधी वार्ड
2	2	शास्त्री वार्ड
3	3	महाराणा प्रताप वार्ड
4	4	सुभाष वार्ड
5	5	इन्दिरा गाँधी वार्ड
6	6	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	7	पार्श्वनाथ वार्ड
8	8	अम्बेडकर वार्ड
9	9	खेडापति हनुमान वार्ड
10	10	जवाहर वार्ड
11	11	महात्मा गाँधी वार्ड
12	12	तिलक वार्ड
13	13	शिव मंदिर वार्ड
14	14	लक्ष्मीबाई वार्ड
15	15	भगतसिंह वार्ड

वार्ड क्रमांक 01 संजय गांधी वार्ड (जनसंख्या-1362)

उत्तर— मुकेश पाटीदार के भवन से तहसील कॉलोनी के सम्पूर्ण भवन एवं सुन्दरलाल पटेल के खेत तक

दक्षिण— एबीरोड पर एमपीईबी कार्यालय से कैलाश के भवन तक

पूर्व— सुन्दरलाल पटेल के खेत से पहाड़ी किनारे कैलाश के भवन तक

पश्चिम—एबीरोड मुकेश पाटीदार के भवन से एमपीईबी कार्यालय तक

विवरण— एबीरोड स्थित मुकेश पाटीदार के भवन से सम्पूर्ण तहसील कॉलोनी व एबी रोड एमपीईबी कार्यालय व सम्पूर्ण तलाई मोहल्ला कैलाश के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 02 शास्त्री वार्ड (जनसंख्या-1392)

उत्तर— डॉ. राजेश के भवन से बीएसएनएल

टॉवर तक गली न. 02

दक्षिण—मजीद खाँ के भवन से किशनलाल के भवन तक गली न. 08

पूर्व— एबी रोड बायपास की सीमा

पश्चिम—डॉ. राजेश के भवन से एबी रोड पर गली न. 08 मजीद खाँ के भवन तक

विवरण— डॉ. राजेश के भवन से प्रारंभ होकर एबी रोड के किनारे गफार के भवन से मजीद खाँ के भवन को लेते हुए किशनलाल के भवन तक एवं एबी रोड बायपास की सीमा को लेते हुए गली न. 2,3,4,5,6,7 एवं 08 के भवन।

वार्ड क्रमांक 03 महाराणा प्रताप वार्ड (जनसंख्या-1379)

उत्तर— सिद्धसिंह के भवन से विक्रम पंडा जी के भवन तक

दक्षिण—सिंधिया मार्केट के कोने से महुआपुरा को लेते हुए एबीरोड बायपास तक

पूर्व— एबी रोड बायपास की सीमा

पश्चिम—सिद्धसिंह के भवन से एबी रोड की पुलिया से निकलते हुए सिंधिया मार्केट के कोने तक।

विवरण— सिद्धसिंह के भवन से प्रारंभ होकर एबी रोड की पुलिया को लेते हुए सिंधिया मार्केट के कोने से महुआपुरा के भवन होते हुए एबीरोड बायपास की सीमा को लेते हुए नई आबादी में चैनसिंह के भवन को लेते हुए गली न. 8,9,10,11 व 12 लोधी मोहल्ला के आवासीय क्षेत्र।

वार्ड क्रमांक 04 सुभाष वार्ड (जनसंख्या-1345)

उत्तर- कैशरसिंह लोधी के भवन से एबीरोड बायपास तक

दक्षिण-माणकसिंह पटेल के मकान से स्टेशन रोड के किनारे तोलाराम पाटीदार के मकान तक एवं जगन्नाथपुरी के सम्पूर्ण भवन

पूर्व- एबी रोड बायपास की सीमा माधोसिंह की कृषि भूमि तक

पश्चिम-कैशरसिंह लोधी के भवन से एबीरोड के किनारे झोंकर रोड पर माणक पटेल के मकान तक।

विवरण- कैशरसिंह लोधी के भवन से महुआपुरा लेते हुए रास्ते के भवन जगन्नाथपुरी का सम्पूर्ण क्षेत्र बस स्टैण्ड एवं एबीरोड झोंकर रोड तिराहा पर माणक पटेल के भवन से तोलाराम के भवन तक महुआपुरा नाले तक सम्पूर्ण भवन एबी रोड बस स्टैण्ड हायर सेकेंड्री स्कूल रोड एवं जगन्नाथपुरी स्टेशन रोड के उत्तर तरफ के आवासीय क्षेत्र

वार्ड क्रमांक 05 इन्दिरा गांधी वार्ड (जनसंख्या-1385)

उत्तर- कैलाश पाटीदार के भवन से उत्तर तरफ स्टेशन के सामने माधोसिंह भदौरिया के भवन तक

दक्षिण- झोंकर रोड पर हनुमान मंदिर तक व भारतीय रेल्वे पटरी सीमा पर इंदिरा कॉलोनी में बाबूलाल वर्मा के भवन तक बाबूलाल वर्मा के भवन से देवनारायण चौधरी के भवन तक

पूर्व- हम्मालपुरा के पिछे ओमप्रकाश श्रीवास्तव की कृषि भूमि से मक्की झोंकर की सीमा तक

पश्चिम-झोंकर रोड पर राजेश गुप्ता का मैरिज गार्डन व संदिप गुप्ता के भवन तक सम्पूर्ण इंदिरा कॉलोनी

विवरण- कैलाश पाटीदार के मकान से स्टेशन के सामने माधोसिंह भदौरिया के मकान तक एवं सम्पूर्ण हम्मालपुरा, टीआरडी कॉलोनी, यावारीस के मकान होते हुए स्टेशन के पिछे झोंकर रोड के सम्पूर्ण क्षेत्र के भवन हनुमान मंदिर तक औद्योगिक क्षेत्र होते हुए झोंकर तिराहे से संदिप गुप्ता के मकान तक एवं सम्पूर्ण इंदिरा कॉलोनी देवनारायण चौधरी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 06 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (जनसंख्या-1342)

उत्तर- झोंकर रोड तिराहे पर लक्ष्मीनारायण पटेल के भवन से एबीरोड कास कर पीठा रोड पर मम्मू सेठ के भवन तक

दक्षिण-मक्की राजस्व ग्राम सीमा एबीरोड बायपास तिराहा से पाटीदार धर्मशाला तक

पूर्व- आशाराम कॉलोनी में लखन लाल मंडलोई के भवन से एबीरोड पर लक्ष्मीनारायण पटेल के भवन तक

पश्चिम- शा.क.हा.स्कूल मक्की के सामने मम्मू सेठ के भवन से बावडी मोहल्ला लेते हुए सामली पुलिया कास कर पाटीदार धर्मशाला तक

विवरण-आशाराम कॉलोनी में रेल्वे पटरी किनारे के दोनों पट्टी के भवन लेते हुए एबीरोड पर लक्ष्मीनारायण पटेल के भवन तक एवं डाक बंगला होते हुए सम्पूर्ण बावडी मोहल्ला लेते हुए पीठा रोड पर मम्मू सेठ के भवन तक एमपीईबी कार्यालय होते हुए उज्जैन रोड पर सामली की पुलिया कास कर उज्जैन रोड की पाटीदार धर्मशाला तक एबी रोड पर रामको कॉलोनी एवं एबी रोड डाक बंगले तक औद्योगिक क्षेत्र।

वार्ड क्रमांक 07 पार्श्वनाथ वार्ड (जनसंख्या-1398)

उत्तर- जैन मंदिर से, लुनियाखेडी रोड रमेश के भवन तक

दक्षिण-जलालपुरा कृषि भूमि से मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल उज्जैन रोड रेल्वे फाटक तक

पूर्व- जैन मंदिर व शा.क.हा.स्कूल मक्की एवं बावडी मोहल्ला रेहमत खां के भवन से पुलिया कास कर मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल तक

पश्चिम-उज्जैन रोड रेल्वे फाटक से कालाभाटा एवं लुनियाखेडी रोड पर रमेश के भवन तक

विवरण- शा.क.हा.स्कूल मक्की व खुदाबक्श के भवन से होते हुए बावडी मोहल्ला लेते हुए रेहमत खां के भवन तक व सामली की पुलिया के निचे से उज्जैन रोड पर मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल होते हुए सम्पूर्ण उज्जैन रोड की दोनों पट्टी रेल्वे फाटक तक पुनः इण्डेन गैस गोडावन से तालाब की पाल होते हुए जैनमंदिर तक तालाब क्षेत्र एवं मोला हम्माल के भवन को लेते हुए भरत पटेल के भवन से नागूसिंह गुर्जर के भवन तक सम्पूर्ण कालाभाटा क्षेत्र होते हुए लुनियाखेडी रोड पर रमेश के भवन तक

वार्ड क्रमांक 08 अम्बेडकर वार्ड (जनसंख्या-1373)

उत्तर- सामुदायिक भवन से प्रदीप के भवन व एबी रोड खुशीलाल के भवन तक

दक्षिण-लुनियाखेडी रोड पर हिन्दुसिंह के भवन से पशुचिकित्सालय तक

पूर्व- पशुचिकित्सालय तकिया से खुशीलाल के भवन तक

पश्चिम-लुनियाखेडी रोड पर बाबा की दरगाह व कृषि भूमि

विवरण-लुनियाखेडी रोड पर हिन्दुसिंह के भवन से पशुचिकित्सालय होते हुए लालमाता चौक के सम्पूर्ण भवन लेते हुए गुर्जर सेरी व बजरंग मोहल्ला से सामुदायिक भवन तक व प्रदीप के भवन से एबी रोड पर खुशीलाल के भवन तक

वार्ड क्रमांक 09 खेडापति हनुमान वार्ड (जनसंख्या-1393)

उत्तर- अम्बाराम गुर्जर के भवन से हरिशंकर पटेल के भवन तक

दक्षिण-तकिया चौराहे पर युसूफ खां के भवन से कैलाश खाती के भवन तक

पूर्व- हरिशंकर पटेल के भवन से कैलाश खाती के भवन तक

पश्चिम-तकिया में युसूफ खां के भवन से हनुमान मंदिर के पास अम्बाराम गुर्जर के भवन तक

विवरण—युसूफ खां के भवन से कैलाश खाती के भवन तक एवं पिंजारासेरी मे हीरालाल भावसार के भवन तक उदयनारायण भावसार के भवन को लेते हुए मांगीलाल ड्रायवर हरिशंकर पटेल के भवन हनुमान मंदिर अम्बाराम गुर्जर के भवन व युसूफ खां के भवन तक गुर्जर सेरी लालमाता क्षेत्र पिंजारा सेरी तकिया ब्राम्हण सेरी उपरसेरी बुन्देला गली बजरंग मोहल्ला के सम्पूर्ण भवन।

वार्ड क्रमांक 10 जवाहर वार्ड (जनसंख्या-1284)

उत्तर—कचहरी चौक रणछोड महाराज के मंदिर से भावसार मोहल्ला मे पुरुषोत्तम भावसार के मकान तक
दक्षिण—मोहम्मद गुड वाले के भवन से जैन भोजनशाला को लेते हुए जैनमंदिर की दीवार से लगे हुए फिरोज के भवन से शर्मा जी के भवन तक

पूर्व—अंजनीलाल मंदिर से जूना बाजार लेते हुए रणछोड महाराज के मंदिर तक

पश्चिम—पुरुषोत्तम भावसार के भवन से पिंजारासेरी मोहम्मद गुड वाले के भवन तक

विवरण—मोहम्मद गुड वाले के भवन से भोजनशाला वाली लाईन लेते हुए जैन मंदिर की दीवार से लगे फिरोज के भवन से काला भाटा मे शर्मा जी के भवन तक एवं पिंजारा सेरी, गुड वाले के भवन, दर्जीसेरी, खातीसेरी, जूनाबाजार के सम्पूर्ण भवन

वार्ड क्रमांक 11 महात्मा गांधी वार्ड (जनसंख्या-1210)

उत्तर—तेजाजी मंदिर पुराना पशु बाजार

दक्षिण—मस्जिद चौक, मस्जिद, से मुल्लाजी की दुकान व मिरासी गली मे रमेश कुमरावत की दुकान व हनुमान मंदिर तक

पूर्व—शिवमंदिर पुलिया से मिरासी गली एबीरोड हनुमान मंदिर तक

पश्चिम—नया बाजार अली असगर की दुकान से बालकृष्ण भावे के भवन तक

विवरण—जूना बाजार रणछोड महाराज के निवास से धर्मशाला के पिछे शिवमंदिर पुलिया तक पुलिया से नाले किनारे गिरारीगली पोरट ऑफिसा होते हुए एबीरोड पर हनुमान मंदिर तक व रमेश कुमरावत की दुकान के सामने रमेश रावल की दुकान लेते हुए नया बाजार वीडियो चौक अली असगर के भवन एवं मस्जिद चौक के आसपास के भवन मस्जिद तक एवं बालकृष्ण भावे के भवन से शाबीर भाई के भवन अब्दुल रज्जाक के भवन खटखटपुरा ताराचंद के भवन गवली मोहल्ला राधेश्याम के भवन तेजाजी मंदिर मार्ग मुकेश के भवन तक।

वार्ड क्रमांक 12 तिलक वार्ड (जनसंख्या-1159)

उत्तर—नया बाजार सुभाष कुमरावत के भवन से मिरासी गली मे दक्षिण भाग के भवन लेते हुए एबीरोड पर जाहिद खां के भवन तक

दक्षिण—एबीरोड पीठा रोड तिराहें से मस्जिद चौक अलताफ खां के भवन तक

पूर्व—एबीरोड पर मिरासीगली के कोने पर राधेश्याम पाटीदार के भवन से पीठा रोड तिराहे पर राकेश अग्रवाल की दुकान तक

पश्चिम—सुभाष कुमरावत की दुकान से अशोक जैन की लाईन लेते हुए मस्जिद चौक में अलताफ खां के भवन तक

विवरण—सुभाष कुमरावत की दुकान से नया बाजार अशोक जैन के भवन लेते हुए पीठा रोड पर अलताफ खां के भवन सम्मिलित करते हुए एबी रोड पर राकेश अग्रवाल की दुकान तक एबी रोड पर राधेश्याम पाटीदार के भवन एवं मिरासी गली मे दक्षिण भाग के भवन लेते हुए वापस सुभाष कुमरावत की दुकान तक नया बाजार, मिरासी गली, पुरानी नगर परिषद की दोनो पट्टी, पीठा रोड की पट्टी एवं एबीरोड के भवन

वार्ड क्रमांक 13 शिवमंदिर वार्ड (जनसंख्या-1380)

उत्तर—बजरंग मोहल्ला पुलिया से पटेल मार्केट होते हुए एबीरोड पर नर्मदा मंदिर तक दक्षिण—एबी रोड पर दौलतसिंह के भवन से मिरासी गली नुरानी मस्जिद के पिछे वाली लाईन के भवन से बेण्ड वाले की पुलिया तक

पूर्व—एबीरोड पर नर्मदा मंदिर से एबीरोड पर दौलतसिंह के भवन तक

पश्चिम—पुराने पशु हाट बाजार की पुलिया से खाडी नाले के पास शिव मंदिर पुलिया को कास करते हुए बेण्ड वाले की पुलिया तक

विवरण—दौलतसिंह के मकान से एबी रोड होते हुए पटेल सा. के भवन एवं एबीरोड पर नर्मदा मंदिर तक तथा खाडी नाले से हरिनारायण भावसार के भवन को लेते हुए मिरासी गली मे बेण्ड वाले के सामने पुलिया तक मिरासी गली मे नुरानी मस्जिद के पास के भवन शिवमंदिर मार्ग गली नं. 01, 02, 03 एवं 04 नायक सेरी एवं एबी रोड के समस्त आवासीय भवन।

वार्ड क्रमांक 14 लक्ष्मीबाई वार्ड (जनसंख्या-1333)

उत्तर—बंटी लावरे के भवन से दोनो गली लेते हुए अनवर लाईनमेन के भवन तक व मस्जिद वाली गली सुभान सेठ के भवन तक

दक्षिण—शा.प्रा.स्वा.केन्द्र से एबी रोड के भवन नर्मदा मंदिर तक

पूर्व—एबीरोड नर्मदा मंदिर से गडरोली मे स्व. राधेश्याम पाटीदार के भवन तक

पश्चिम—लूनियाखेडी मार्ग बंटी लावरे के भवन से शा.प्रा.स्वा.केन्द्र गडरोली मक्खी तक

विवरण—एबी रोड स्थित नर्मदा मंदिर से भवन लेते हुए गडरोली मक्सी में शा.प्र.स्वा.केन्द्र के पिछे का सम्पूर्ण क्षेत्र व लूनियाखेडी मार्ग पर दोनों पट्टी के भवन व अनवर लाईन के भवन से होते हुए मस्जिद वाली गली में दोनों पट्टी के भवन सुभान खाँ के भवन तक।

वार्ड क्रमांक 15 भगतसिंह वार्ड (जनसंख्या—1353)

उत्तर—तराना रोड पुलिया से एबीरोड पर कनासिया नाका तिराहे पर गिरीश भावसार की दुकान तक

दक्षिण—एबीरोड पर पुलिस थाना व गडरोली में स्व. मुनीर खाँ के भवन से भौपासेरी का सम्पूर्ण क्षेत्र

पूर्व— एबीरोड पर पुलिस थाने से कनासिया नाका तिराहे तक

पश्चिम—लूनियाखेडी मार्ग गडरोली से तराना रोड पुलिया तक

विवरण—स्व. मुनीर खाँ के भवन से भेरूलाल पाटीदार के भवन के सामने से निकलकर दरवाजे के अंदर मणिशंकर के भवन लेते हुए फर्सी वाली गली से स्कूल की ओर जाते हुए उस्मान खाँ व मुनीर खाँ के भवन को सम्मिलित कर पश्चिम दिशा में भौपा सेरी का सम्पूर्ण क्षेत्र सामुदायिक भवन के सामने वाली पट्टी के सम्पूर्ण भवन व पुनः पाटीदार मोहल्ले के भवन लेते हुए पुलिस थाने तक व एबीरोड से गिरीश भावसार की दुकान कनासिया नाके तिराहे तथा तराना रोड पर पुलिया तक कनासिया नाका तिराहा मेहबुब खाँ के भवन से एबी रोड पर प्रजापति इंजीनियरिंग वर्क तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

वीरेन्द्रसिंह रावत, कलेक्टर.

Shajapur, the 31st January 2020

No. 49 District Urban Development Agency Municipal Delimitation Publication 2020-
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Madhya Pradesh Municipal Act 1961 (Serial No. 37, 1961), I Dr. Virendra Singh Rawat collector, distt. Shajapur, the State Government Municipal Corporation of Maksi District of Shajapur for the year 2011 population. On the basis of the concept of the number of wards and their limits, the concept is determined according to the schedule given below.

SCHEDULE

Sr.No (1)	Ward no (2)	Ward Name (3)
1	1	Sanjay Gandhi Ward
2	2	Shashtri Ward
3	3	Maharana Pratap Ward
4	4	Subhash Ward
5	5	Indira Gandhi Ward
6	6	Dr. Rajendra Prashad
7	7	Parshva Nath Ward
8	8	Ambedakar Ward
9	9	Khedapati Hanuman
10	10	Jawahar Ward
11	11	Mahatma Gandhi Ward
12	12	Tilak Ward
13	13	Shiv Mandir Ward
14	14	Laxmi Bai Ward
15	15	Bhagat Singh Ward

Ward no 1 Sanjay Gandhi Ward (Population- 1362)

North : From the house of Mukesh Patidar, All houses of Tehsil Colony, Up To Agricultural Land of Sundar Lal Patel.

South : From, M.P.E.B. Grid to Kailash's House.

East : From Bottom of hill to house of kailash

West : Mukesh Patidars House on A.B. Road to M.P.E.B. Grid.

Description : Mukesh Patidar's House at A. B. Road to All Houses of Tehsil Colony, Up to M.P.E.B. Grid, Whole Talai mohalla up to kailash's House.

Ward no 2 : Shashti Ward (Population- 1392)

North : Street No. 2 From Dr. Rajesh's House To BSNL Tower

South : From Majid Khan's house to Kishnalal's House, Street No. 8

East : Up To A. B. Road By pass.

West : From Dr. Rajesh's House to Street No. 8th Majid Khan's House

Description : In Nai Abadi area Start From Dr. Rajesh House, toward corner of A.B. Road, include Gaffar Khan & Majid khans house to Kishnalal's House & From By Pass to Old A. B. Road, Included all Streets No. 02,03, 04, 05, 06, 07 & 08.

Ward no 3 : Maharana Pratap Ward (Population- 1379)

North : From House of Sidhu singh to Vikram Pandajis House in Street No. 08

South : From The corner of Sidhiya Market include include Mahupura (Ukala Road) to New A. B. Road, Bay Pass

East : Up to New By Pass A. B. Road

West : Start From the house of Sidhi Singh include A.B. Road Bridge, corner of Sindhiya Market,

Description : Start From the house of Sidhi Singh include A.B. Road Bridge, corner of Sindhiya Market, in East Ukala Road up to New By Pass on A. B. Road, From ChenSingh house to Street No. 8 Vikram Pandajis House, New Colony Street No. 08, 09, 10, 11, 12 & including Lodhi mohalla.

Ward no 4 : Subhash Ward (Population- 1345)

North : From the house Keshar Singh Lodhi, The Road of Mahuvapura (Ukala Road) up to New Bay Pass Road.

South : From the house of Manak Singh Patel including station road corner-Up to Tolaram Patidar's House, including Jaggannath Puri all house's.

East : New By Pass Road. Mahuva pura Nala up to Agricultural Land of Madho singh.

West : Start From Keshar Singh Lodhi's House including boundary of A.B. Road up to Manak Patel's House on Squire.

Description : Start From Keshar Singh Lodhi's House including boundary of A.B. Road up to Setab Singh House on Squire. Mahuva Pura Nalla, All House. Whole Urban area of A.B. Road, Bus Stand, H.S. Road, Jagganath Puri, & Station Road North Side.

Ward no 5 : Indira Gnadhi Ward (Population- 1385)

North : From House of Kailash Patidar to Northern Side of Railway Station Up to Madho singh Bhadoriya's House.

South : For Hanuman Temple on Jhonkar Road, Boundary of Railway Track, Babulal Varma's house in Indira nagar Colony, and Bhabulal Varma's house to Devnarayan Choudhary's House.

East : Start From Omprakash Shrivastav's Agricultural land behind Hammalpur up to Makshi-Jhonkar Boundary

West : Start From The Rajesh Gupta's Marriage Garden, Jhonkar road, whole Indira colony, Station Road up to Sandeep Gupta's House.

Description : Start From Kailash Patidar's House to Madho singh Bhadoriya's House at opposite Railway Station, Hammalpur, TRD Colony, Yavaris House, Behind Railway Station Jhonkar Road, Indira Colony, Near Hand pump, half side of Asharam Colony & Whole Indira Colony up to Sandip Gupta's House on Station Road, Up to Devnarayan Choudhary's House.

Ward no 6 : Dr. Rajendra Prasad Ward (Population- 1342)

North : Jhonkar Road Triangle, house of Laxminarayan Patel to A. B. Road, Rest House, Pitha Road Up To Mammu Seth House.

South : From MAKSI Boundary (near Panchmukhi Hanuman Temple Alari) A. B. Road Bypass Square Up to Patidar Dharmshala, Industrial Area.

East : From House of Lakhan Lal at Asharam Colony - Laxminarayan patel House on A. B. Road - Rest House on A. B. Road.

West : Including Bawadi Mohalla up to Girls Primary School & also Ujjain Road Half Bridge, Up To Patidar Dharmshala.

Description : Starting From Maksi Boundary (Near Panchmukhi Hanuman Mandir) A. B. Road Bay Pass, Railway Line, Both Side of Asharam Colony, up to House of Laxminarayan Pate, A.B.Road Rest House to Whole Bawadi Mohalla, up to Girls Primary School. & Start behind School, M.P.E.B. Office. under the bridge, Cross the Ujjain Road up to Patidar Dharmashala and again on up to A.B.Road.

Ward no 7 : Parshva Nath Ward (Population- 1398)

North : From Jain Temple, to Ramesh House at Luniyakhedi Road

South : Jalalpura Agricultural Land To Murlidhar Kripa Hospital Ujjain Road, Up To Railway Gate

East : From Jain Mandir - Gov. Girls High School, Bawadi Mohalla, From Rehmat khan House to Murlidhar Hospital at Ujjain Road.

West : Ujjain Road Railway Fatak - Kala Bhata up to Ramesh House on Luniyakhedi Road.

Description : From Gov. Girls H.S. School- Khudabaksh House - Bawadi Mohalla- Rehmat Khan house- Railway Under Bridge - Murlidhar Hospital - Both Side of Ujjain Road up to Railway Gate (Dewas Line). Indian Gas Godawn- Talab Ki Pal up to Jain Mandir. Mola Hammal House to Bharti Patel House- Nagu Singh gurjar House- Whole house of Kalabhata up to Ramesh House On Luniyakhedi Road.

Ward no 8 : Ambedakar Ward (Population- 1373)

North : From Samudayik Bhawan to Pradeeps House & Khushilal hous.

South : From Hindu Singh House on Luniyakhedi Road, Veterinary Hospital, Up to Gurjar Seri.

East : Vet nary Hospital- Gurjar Seri Up To Khushilal House.

West : Luniya Khedi Road, Baba Ki Dargah Up to Agricultural Land

Description : From Hindu singhs House on Luniyakhedi Road, Dargah, Vet nary Hospital - Lalmata Chouk, up to Samudayik Bhavan- A.B. Road Pardeep's House up To Khushilal's House, including All house's of Gurjar Seri, Harijan Mohalla & Bajarang Mohalla.

Ward no 9 : Khedapati Hanuman Ward (Population- 1393)

North : From House of Ambaram Gurarj to Harishankar Patel's House

South : From Yusuf Khan's House at Takiya Squire up to Kailash Khati's House.

East : From Harishankar Patel house to Kailash Khati's House.

West : From Yusuf Khan's House at takiya to Ambaram Gurjar's House Near Hanuman Temple.

Description : from Yusuf Khan's House to Kailash Katis House , Mangilal Driver, Harishankar Patel's House, Hanuman Temple, house of Ambaram Gurjar up to yusuf khan's house, All house of Gurjar Seri, Lal Mata area, Pinjara Seri, Takiya, Brahmin Seri, Upari Seri, Bundela Gali, Bajarang Mohalla.

Ward no 10 : Jawahar Ward(Population- 1284)

North : From Kachari Chouk Ranchod Maharaj's House to Purushottam Bhawsar house at Bhawsar mohalla

South : From The house of Mohammad Gud wala including jain Bhojanshala up to anjanilal Temple- Firoj House up To Sharma Jis House.

East : Start Form Anjanilal Mandir, include Juna Bajar up to Ranchod Maharaj Temple

West : From The house of Purushottam Bhawsar up to Mohammad Gud Wala's House in Pinjara Seri.

Description : Start Form the Mohammd Gud Wala's House include Bhojanshala Side up to Anjanilal Mandir, Ranchor Mharaj Temple in Juna bajar & Purushottam Bhawasar House, Pinjar Seri and agian Moh. Gud Wala's House. All house of Lohar Seri, Darji Seri, Pinjara Seri, Khati Seri, Juna Bajar.

Ward no 11 : Mahatma Gandhi Ward (Population- 1210)

North : Tejaji Mandir, Old Pashu Bajar

South : Masjid Chouk, Shop of Mullaji- Shop of Ramesh Kumrawat Mirasi gali, up Hanuman Temple,

East : From Shiv Mandir bridge to Mirashri Gali, Up To Nagarpati Hanuman Temple At A. B. Road.

West : Naya Bazar - Shop of Ali Asgar up to Balkrishna Bahve House.

Description : From Ranchod Lal Maharaj house Juna bajar, behind dharmshala, Shiv Mandir Bridge, Mirashree Street bridge, from bridge to Shop of Ramesh Kumrawat including Ramesh Rawal's Shop Naya Bazar, Video Chok, Asgar Hussain's Shop, Masjid & Surrounding Area, From Balkrishna

Bhavs house, Shabir Bhai's House, A. Rajjak's House, Khat Khatpura, Tarachand House, Gavali Mohalla, House of Radheshyam up to Tejaji Mndir Road Mukesh's House.

Ward no 12 : Tilak Ward (Population- 1159)

North : Starting From Naya Bazar Subhash Kumrawat up to Jahid khans house on A.B.Road.

South : From A.B.Road, Pitha Road Squire to Masjid Chouk up to Altaf Khan's House

East : From A.B. Road, Mirasi Gali- Shabir Bhai & Jahid Bhai hous up to Shop of Ramprashad Agrawal on Pitha Road.

West : from Subhas Kumrawat Shop include side of Ashok jain up to Altaf Khan's House at Masjid Chok

Description : From Shop of Shubhash Kurmawat, Naya Bajar, Including Ashok Jain's House- Pitha Road- Altaf Khans House turn from Agrawals Shop up to Radheshyam Patidar House on A.B. Road - Subhash Kumrat Shop. including Both Side of Old Nagar Parishd office Road. Single Side of A. B. Road, Mirasi Gali, and Pithar Road.

Ward no 13 : Shiv Mandir Ward (Population- 1380)

North : Bajrang Mohalla Road from Patel's House -Bridge Up to Narmada Mata Temple on A. B. Road.

South : From Dolat Singh house on A.B. Road to Mirashri gali, house of bake side of Nurani Masjid up to bridge near Band Wala's Bhawan.

East : From Narmada Temple A. B. Road to Doulat Singh House on A. B. Road.

West : From the bridge of old pashu hat, to near Khadi Nala, Cross Shiv Mandir Bridge up to bridge near Band wala's house

Description : Start form Dolat Singh house on A.B. Road - Paltel's house Up to Narmada Mata Mandir A. B. Road. Khadi Nala- Harinarayan Bhawsar house' up to Mirashree gali's bridge near Band wala's house up to Nurani Masjid. including Shiv Mandir Marg Street No. 01, 02, 03 & 04, all house of Mirashree Gali, Nayak Seri, A.B. Road.

Ward no 14 : Laxmi Bai Ward (Population- 1333)

North : From the House of Bunt Laware's House Both Side of Road - House of Anwar Linemen - Masjid Road Up to Shubhan Seth's House.

South : Govt. P.H.C. - A. B. Road, up To Narmada Mata Temple.

East : Narmada Mata Mandir A.B. Road - Lt. Radheshyam Patidar's house At A. B. Road.

West : Buntu Laware House- Luniyakhedi Road,- PHC up to MAKSI town area.

Description : Starting From Narmada Mata mandir A.B.Road, PHC.- Luniyakhedi Road - Anwar Linman House - Both Side of Masjid Road up To Subhank Khan house.

Ward no 15 : Bhagat Singh Ward (Population- 1353)

North : Bridge of Tarana Road to Shop of Girish Bhawsar on Kanasiya Naka

South : Start from Lt. Munir Khans House - Police Station A. B. Road- Whole Area of Bhopa Seri.

East : A. B. Road Police Station to Kanasiya Naka.

west : Gadroli Luniykehdi Road Agricultural land up to Bridge of Tarana Road.

Description : Starting From Munir Khan's House - New Police station, A.B.Road, Kanasiya Naka, Tarana Road, bridge near warehouse. including boundary of Luniyakhedi and gadroli. Form the Bherulal patidar house to in the door Manishankar house in Chouk, including Farshi Wali Gali, Usman & Munir Khan's House northern side up to Police Station up to Girish Bhawsar Shop on Kanasiya naka, Bridge of Tarana Road, House of Mehboob Khan - Prajapati Eng. Work.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

VIRENDRA SINGH RAWAT, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 67, एफ 1-39/2020/अठारह-3 कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित नगर परिषद माचलपुर के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 78/जि.श.वि.अ./2020, दिनांक 01 फरवरी 2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं.

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

राजगढ़ दिनांक 01 फरवरी 2020

क्रमांक 78/जिशविअ/2020.- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मैं निधि निवेदिता कलेक्टर जिला राजगढ़ एतद्वारा नगर परिषद माचलपुर, जिला-राजगढ़ के वार्डों का विभाजन/विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती हूँ :-

अनुसूची		
क्रमांक	वार्ड नं.	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)
1	1	जवाहर वार्ड
2	2	महात्मा गांधी वार्ड
3	3	नेता जी सुभाष वार्ड
4	4	सरदार पटेल वार्ड
5	5	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
6	6	तिलक वार्ड
7	7	विवेकानन्द वार्ड
8	8	मोलाना आजाद वार्ड
9	9	अम्बेडकर वार्ड
10	10	संत विनोबा वार्ड
11	11	शहीद कल्याण वार्ड
12	12	राणा प्रताप वार्ड
13	13	इंदिरा गोंधी वार्ड
14	14	छत्रपती शिवाजी वार्ड
15	15	गुरु गोविन्द सिंह

वार्ड का नाम	चौहददी
1. जवाहर वार्ड	जनसंख्या - 595 उत्तर में :- किशोरय्या तलाई की लगानी भूमि पूर्व में :- लगानी भूमि एवं वार्ड 4 की सीमा दक्षिण में :- त्रिलोक सोनी तथा भगवान सोनी के मकान तक वार्ड क्र 03 की सीमा से लगे हुए पश्चिम में :- लगानी भूमि एवं वार्ड 2 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है सम्पूर्ण साँवलपुरा ,डुंगरी रोड , बराडा का भेरुजी (बायपास) कमला देवी मोदी परीसर तक. बजरंग रोड दौनो पट्टी त्रिलोकसोनी भगवान राठौर तक, ओम जी माधावत से भेरबुआ जी के मकान को लेते हुए सम्पूर्ण गली सहित चौकी मोहल्ला ।
2. महात्मा गांधी वार्ड	जनसंख्या - 672 उत्तर में :- शमशान व लगानी भूमि पूर्व में :- वार्ड क्र.3 की सीमा दक्षिण में :- पुरानी बस स्टैण्ड बालाजी मंदिर वार्ड 10,12 की सीमा पश्चिम में :- जीरपुर गोघटपुर रोड इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है रामनारायण लुहार के मकान से सुतार महोल्ला की दौनो पट्टी छोटी मस्जीद तक सम्पूर्ण गलीयो सहित , हुसैन चाचा के मकान से दौनो पट्टी पुलीस थाना सहित ,सम्पूर्ण बागरी मोहल्ला लेते हुए गुजराती गली में मेहमुद भाई के मकान एवं मोहन लाल व्यास के मकान से साँवलिया इलेक्ट्रीक को लेते हुए पुराना झण्डा चौक सम्पूर्ण ।
3.नेता जी सुभाष वार्ड	जनसंख्या - 665 उत्तर में :- जितेन्द्र सिंह मण्डलोई का मकान वार्ड 1 की सीमा पूर्व में :- वार्ड 06 की सीमा दक्षिण में :- भूरासाजी की कपडे की दुकान तक वार्ड 9की सीमा पश्चिम में :- वार्ड 02 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है जितेन्द्र सिंह मण्डलोई के मकान से सम्पूर्ण नीचे के रावला को लेते हुए ,अरुण बाबू के मकान से दौनो पट्टी ओम गुप्ता मेडीकल तक ,उपर का रावला ,शिव जी शर्मा से भूरासाजी के कपडे की दुकान तक ,राधाकृष्ण मंदिर से दौनो पट्टी लेते हुए दिनेश मेडीकल तक बिच का रावला व श्रीराम मंदिर वाली गली एवं सम्पूर्ण गलिया सहित ,यासीन साहब के मकान से पवन टेलर गुजराती गली के मकान तक एक पट्टी ।
4 सरदार पटेल वार्ड	जनसंख्या - 550 उत्तर में :- लगानी भूमि पूर्व में :- वार्ड 05 की सीमा ऊकार नाथ मंदिर गली दक्षिण में :- वार्ड 06 की सीमा देव उपभोक्ता भण्डार पश्चिम में :- वार्ड 01 की सीमा बजरंग रोड इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है भेरुलाल जी नागर के मकान से दौनो पट्टी लेते हुए सम्पूर्ण कुम्हार मोहल्ला की गलीया कैलाश जी शर्मा के मकान तक ,बठ खेडी वाले बालू जी के मकान से बजरंग रूगनाथ लोधा के मकान तक एक पट्टी भगवान स्वरूप जी व्यास के मकान से बुरंज

	वाली गली दोनो पट्टी रामप्रसाद सोनी संजय शर्मा के मकान तक
5. महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड	जनसंख्या - 608 उत्तर में :- लगानी भूमि पूर्व में :- शासकीय बड़ा तालाब दक्षिण में :- लगानी भूमि एवं वार्ड 06 की सीमा पश्चिम में :- वार्ड 04 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है गोकुल प्रसाद जी व्यास एवं पर्वत लववंशी से रोडू राम जी पहलवान तक दोनो पट्टी लोधा मोहल्ला व कहार मोहल्ला की सम्पूर्ण गलीया जानकी बाई धर्मशाला से गुप्तनाथ मंदिर होते हुए बाद्याबल्ली एवं दर्याव बाई गुर्जर के मकान तक।
6 तिलक वार्ड	जनसंख्या - 668 उत्तर में :- वार्ड 5 की सीमा पूर्व में :- लगानी भूमि कवड़ा बावडी दक्षिण में :- वार्ड 07 की सीमा सत्यानारायण मंदिर पश्चिम में :- वार्ड 03 की सीमा मेन बाजार चौक इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है कमल माधावत के मकान से श्याम जी गुप्ता तक एक पट्टी, श्याम जी गुप्ता के सामने मनोहर लाल जी व्यास के मकान से दोनो पट्टी पोस्ट ऑफीस वाली गली लेते हुए चुडी बाजार, महेश इलेक्ट्रीकल तक दोनो पट्टी, भोलाराम जी मंदिर से बालचन्द्र जी पहलवान साको लेते, हुए मतवाली एवं केवड़ा बावडी तक, मनोहर बेछोटे के मकान से आमने सामने की दोनो पट्टी, ओम टेलर व कमल जी माधावत सम्पूर्ण गलियों सहित।
7 विवेकानन्द वार्ड	जनसंख्या - 695 उत्तर में :- वार्ड 06 की सीमा चार भूजा मंदिर पूर्व में :- लगानी भूमि दक्षिण में :- वार्ड 08 की सीमा पुरानी पानी की टंकी पश्चिम में :- वार्ड 09 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है रामबिलास जी गल्ले वाले की दुकान से जगदीश जी गुप्ता के मकान तक एक पट्टी, जदगीश गुप्ता व सत्यानारायण मंदिर से भेरूलाल जी पाटीदार तक सम्पूर्ण गलियों सहित दोनो पट्टी नानाबाजार, बापूलाल जी पाटीदार के मकान तथा भेरु पाटीदार के मकान तक दोनो पट्टी।
8 मोलाना आजाद वार्ड	जनसंख्या - 600 उत्तर में :- वार्ड 07 की सीमा नाना बाजार पूर्व में :- लगानी भूमि दक्षिण में :- लगानी भूमि पश्चिम में :- वार्ड 10 व 11 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है सईद भाई के मकान से जहुर कारीगर तक दोनो पट्टी बालू भानेज एवं बजरंग मालवीय के मकान से रामदेवरा वर्मा समाज मंदिर तक दोनो पट्टी मकवाना मोहल्ला हरीजन मोहल्ला शामिल है सूखा जी की कालोनी।
9 अम्बेडकर वार्ड	जनसंख्या - 692 उत्तर में :- वार्ड 3 की सीमा पूर्व में :- वार्ड 07 की सीमा दक्षिण में :- वार्ड 10 की सीमा

	<p>पश्चिम में :- वार्ड 10 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है भवनी राम जी राठौर के मकान से हेड साहब के सामने रामचन्द्र राठौर (झायवर) के मकान तक जिसमें राय सिंह पटेलवाली गली सम्मलीत है (गुर्जर मोहल्ला की एक पट्टी) भवानी राम राठौर के मकान से मांगीलाल व्यास जी तक एक पट्टी जिसमें गंगाराम जी टेलर वाली गली सम्मलीत है । मुसलमान मोहल्ला तक तकिया से लेकर अल्लारख भाई वाली गली ग्यारसीराम सेन के मकान तक हुसेन मामू के नया मकान से तकिया तक जिसमें मेहराज भाई वाली सम्पूर्ण गली सम्मलित है ।</p>
10 संत विनोबा वार्ड	<p>जनसंख्या - 683 उत्तर में :- वार्ड 02 व 3 की सीमा पूर्व में :- वार्ड 07 की सीमा दक्षिण में :- वार्ड 10 की सीमा पश्चिम में :- वार्ड 12 व 02 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है बैंक आफ इण्डिया से माता मंदिर तक आग्ने सामने की दोनो पट्टी, बालाजी मंदिर से शिवगिरी से कैलाश राठौर के मकान तक गुर्जर मोहल्ला की नारायण जी चाड वाली एक पट्टी, काले खों के मकान से बापूलाल जी वर्मा तक दोनो पट्टी आग्ने सामने की बापूलाल जी वर्मा के सामने वाली गली सम्पूर्ण ।</p>
11 शहीद कल्याण वार्ड	<p>जनसंख्या - 540 उत्तर में :- वार्ड 10 की सीमा पूर्व में :- वार्ड 08 की सीमा दक्षिण में :- वार्ड 12 की सीमा पश्चिम में :- वार्ड 12 की सीमा इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है बापूलाल वर्मा अध्यपाक के आगेवाले माकन से मुन्ना भाई के पीछे तक रामचन्द्र वर्मा पूर्व पार्श्व वाली गली एवं समस्त गलिया केसरीमल मकवाना से सरस्वती शिशुमंदिर के पीछे वाली लाईन ।</p>
12 राणा प्रताप वार्ड	<p>जनसंख्या - 593 उत्तर में :- वार्ड 02 व 13 की सीमा पूर्व में :- लगानी भूमि एवं वार्ड 11 की सीमा दक्षिण में :- लगानी भूमि पश्चिम में :- लगानी भूमि इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है सम्पूर्ण रावण बल्डी समस्त गलीया सहीत जीरापुर रोड की दोनो पट्टी बस स्टेण्ड से पेट्रोल पम्प तक दिग्विजय शॉपिंग काम्प्लेक्स लाल बाई माता मंदिर से राकेश मारु की दुकान तक एक पट्टी अस्पताल वाली एक पट्टी ।</p>
13 इंदिरा गाँधी वार्ड	<p>जनसंख्या - 648 उत्तर में :- वार्ड 14 की सीमा पूर्व में :- जीरापुर गोघटपुर रोड दक्षिण में :- लगानी भूमि एवं वार्ड 12 की सीमा पश्चिम में :- लगानी भूमि इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है निजाम-सुलेमान खॉ चक्की वाले से बाहरवाली माता मंदिर तक जिसमें गोतम धर्मशला वाली दोनो पट्टी व आई डीया टावर वाला सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मलित है । विधुत मण्डल से करीम खॉ</p>

	के मकान तक तथा सर्राफ काम्प्लेक्स वाली पट्टी को लेते हुए पोलखेड़ा रोड मोयाबे ।
14 छत्रपती शिवाजी वार्ड	जनसंख्या - 617
	<p>उत्तर में :- वार्ड 15 की सीमा पूर्व में :- जीरापुर गोघटपुर रोड दक्षिण में :- वार्ड 13 की सीमा पश्चिम में :- लगानी भूमि</p> <p>इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है बालचन्द्र शर्मा आईस केन्डी के मकान से रामसुखी बाई वर्मा के मकान तक एवं अम्बेडकर पार्क से बाबु ड्रायवर के मकान तक दिवांशु रेस्टोरेंट से नगर परिषद कार्यालय को लते हुए नट मोहल्ला तक बाबू खों कबाडी से कैलाश प्रजापति दोनों पट्टी ।</p>
15 गुरु गोविन्द सिंह वार्ड	जनसंख्या - 650
	<p>उत्तर में :- लगानी भूमि पूर्व में :- जीरापुर गोघटपुर रोड दक्षिण में :- वार्ड 13 व 14 की सीमा पश्चिम में :- लगानी भूमि</p> <p>इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल है सती माता भंवरलाल राठोर के मकान से बजरंग गौ शाला तक मांगलीक भवन के पीछे से रईस खों जहूर खों के मकान तक प्रभुलाल मेवाडे से गौशालाला तक नट मोहल्ला होते हुए ।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 01st February 2020

No. 78 /DUDA/2020 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1961(No. 37 year 1961). "I" Nidhi Nivedita Collector Rajgarh (M.P.) here by extent of wards of Municipal Council Machalpur, District-Rajgarh as determine the schedule below. :-

SCHEDULE		
S.NO	Ward No.	Ward Name
1	2	3
1	1	Jawahar Ward
2	2	Mahatma Gandhi Ward
3	3	Neta Ji subhash Ward
4	4	Sardar Patel Ward
5	5	Maharani Laxmi bai Ward
6	6	Tilak Ward
7	7	Vivekanand Ward
8	8	Molana Ajad Ward
9	9	Ambedkar ward
10	10	Sant Vinoba Ward
11	11	Shahid Kalyan Ward
12	12	Ranha Pratap Ward
13	13	Indira Gandhi Ward
14	14	Chhatrapati Shivaji Ward
15	15	Guru Govind Shingh

Description of the Boundaries of Wards

Ward name	Area
1 Jawahar Ward	Papulation - 595
	<p>North- Land for rent kishoryya talai</p> <p>East - Land for rent and Boundry of ward 4</p> <p>South- Trilok soni and Bhagwan soni house and Boundry of ward 3</p> <p>West- Land for rent and Boundry of ward 2</p> <p>It Includes The Follwig - Bheruji (bypass) of Murna Sawalpura, Dungri Road, Barada to Kamla Devi Modi Pariksar. Bajrang Road Dauno Patti to Triloksoni Bhagwan Rathore, Choki Mohalla with entire street taking Om Ji Madhavat's house to Bherabun Ji.</p>
2 Mahatma Gandhi Ward	Papulation - 672
	<p>North- Shamshan and Land for rent</p> <p>East - Boundry of ward 3</p> <p>South- Old bus stan balaji mandir and Boundry of ward 10 and 12</p> <p>West- Jirapur ghoghatpur Road</p> <p>It Includes The Follwig - From the house of Ramnarayan Luhar to the two side slopes of Sutar Mohalla to the small mosque, the entire Galiya right, from Hussain Chacha house to the entire Bagri mohalla including the two side police station, to Mehmud Bhai's house in Gujarati street and Mohan Lal Vyas house to Souvilya Electric Taking Old Flag.</p>
3 Neta Ji subhash Ward	Papulation - 665
	<p>North- boundary of Jitendra Singh Mandloi house ward 1</p> <p>East - The boundary of Ward 06 To the</p> <p>South- Ward 9 border till the clothing store of Bhuraji Form</p> <p>West - The boundary of Ward 02</p> <p>It Includes The Follwig - Taking the entire Rawla below the house of Jitendra Singh Mandloi, both the strips from Arun Babu's house to Om Gupta Medical, the Rawla of the top, from Shiv ji Sharma to Bhuraji's cloth shop, Dinesh Medical taking the two strips from Radhakrishna temple. A strip from the house of Yasin Saheb to Pawan Taylor's Gujarati street, including the street of Rawla and Shri Ram Mandari and the entire street.</p>
4 Sardar Patel Ward	Papulation - 550
	<p>North- Land for rent</p> <p>East - Ward 05 border Okaar Nath Temple street</p> <p>South- Seema Dev Consumer Store of Ward 06</p> <p>West- The border of Ward 01 Bajrang Road</p> <p>It Includes The Follwig - Taking a strip from the house of Bherulal ji Nagar to the house of the entire potter Mohalla, to the house of Kailash ji Sharma, a strip to the house of Bach khedi Balaji ji's house of Bajrang Ragnath Lodha. Ramprasad Soni to Sanjay Sharma's house.</p>

5 Maharani Laxmi bai Ward	Papulation - 608 North- Land for rent East- govt.Big Pond South- Land for rent and Boundry of ward 6 West - Boundry of ward 4 and 6 It Includes The Follwig - From Gokul Prasad ji Vyas and Parvat Lavvanshi to Rodu Ram ji Pahalwan, the entire street of Lodha Mohalla and Kahar Mohalla from Janki Bai Dharamshala to the house of Badyabaldi and Darya Bai Gurjar via Guptjnath Temple.
6 Tilak Ward	Papulation - 668 North- Ward 5 limit East - Land for rent Kavada Bawdi South- Ward 07's border Satyanarayan Temple West- Ward 03 border main market check It Includes The Follwig - A strip from Kamal Madhavat's house to Shyam ji Gupta, in front of Shyam ji ji, taking a lane with both strip post offices from Manohar Lal ji Vyas's house, Chudi Bazar, both strip till Mahesh Electrical, Balchand ji wrestler from Bholaram ji temple. Taking, till Matwali and Kevda Bawdi, both sides of the house from Manohar Bethotte's house, Om Taylor and Kamal Ji Madhavat along the entire street.
7 Vivekanand Ward	Papulation - 695 North- The boundary of Ward 06 Char Bhuj Temple To the East - Land for rent To the South- The old water tank bordering Ward 08 West - The boundary of Ward 09 It Includes The Follwig - A strip from Rambilas ji Gulla shop to Jagdish ji Gupta's house, Jagdish Gupta and Satyanarayana temple to Bherulal ji, Patidar with all streets including Nanabazar, Bapulal ji Patidar's house and Bheru Patidar's house.
8 Molana Ajad Ward	Papulation - 600 North- Boundry of ward 7 and nana bazar East - Land for rent South- Land for rent West - Boundry of ward 10 and 11 It Includes The Follwig - From the house of Sayeed Bhai to the jahur artisan, both the strips from the house of Balu Bhanage and Bajrang Malviya to the Ramdevara Varma Samaj Mandir, both the areas are Makwana Mohalla Harijan Mohalla Shamil.

9 Ambedkar ward	Papulation - 692 North- Boundry of ward 3 East - Boundry of ward 7 South- Boundry of ward 10 West- Boundry of ward 10 It Includes The Follwig - From the house of Bhavani Ram ji Rathore to the house of Ramchandra Rathore (driver) in front of the head sir, which includes the Rai Singh Patelwali street (a strip of Gurjar Mohalla), from the house of Bhawani Ram Rathore to the Mangilal Vyas ji, a strip in which Gangaram Ji Taylor wali The street is covered. From the pillow up to the Muslim Mohalla, the street of Allarkh Bhai to the house of Gyarsiram Sen, from the new house of Hussain Mamu to the pillow, which includes the entire street of Mehraj Bhai.
10 Sant Vinoba Ward	Papulation - 683 North- Boundry of ward 2 and 3 East - Land for rent and Boundry of ward 7 South- Boundry of ward 10 West- Boundry of ward 12 And 2 It Includes The Follwig - Bapulal ji Varma from Bank of India to Mata Mandir, both from Balaji Mandir to Shivagiri to Kailash Rathore's house to Gurjar Mohalla's Narayan ji with Chad Street opposite.
11 Shahid Kalyan Ward	Papulation - 540 North- Boundry of ward 10 East - Boundry of ward 8 South- Boundry of ward 12 West- Boundry of ward 12 It Includes The Follwig - Bamulal Varma, from the front of the presidency, Maken to the back of Munna Bhai, Ramchandra Verma, the former councilor's street and the entire Galia Kesarimal Makwana line behind Saraswati Shishmandir.
12 Rana Pratap Ward	Papulation - 593 North- Boundry of ward 2 and 13 East - Land for rent and Boundry of ward 11 South- Land for rent West- Land for rent It Includes The Follwig - Sampoorana Ravan Buldi All Galiya Sahihat Both strip of Jeerapur Road from bus stand to petrol pump Digvijay Shaping Complex, a strip from Lal Bai Mata Mandir to Rakesh Maru shop with a strip hospital.

13 Indra Gandhi Ward	Papulation - 648 North- Boundry of ward 14 East - Jirapur and goghatpur Road South- Land for rent and Boundry of ward 12 West- Land for rent It Includes The Follwig - From Nizam-Sulaiman Khan Chakki Wali to the outer temple of Mata, which includes the entire area with both the Gotham Dharamshala and the Iya Tower. From the Electricity Board to Karim Kha's house and the Palkheda Road Moya Bay, taking the strip of Saraf Complex.
14 Chhatrapati Shivaji Ward	Papulation - 617 North- Boundry of ward 15 East - Jirapur and goghatpur Road South- Boundry of ward 13 West- Land for rent It Includes The Follwig - From Balachandra Sharma Ice Candy's house to Ramsukhi Bai Verma's Maka Natak and Ambedkar Park to Babu Driver's house from Divanshu Restaurant to City Council Office to Nate Mohalla, Babu Khan to Kabail to Kailash Prajapati
15 Guru Govind Shingh	Papulation - 650 North- Land for rent East - Jirapur and goghatpur Road South- Boundry of ward 13 and 14 West- Land for rent. It Includes The Follwig - From the house of Sitamata Bhanwarlal Rathor to Bajrang Gau Shala from the back of Manglik Bhawan to the house of Rais Khai Zahoor Khai from Preulal Mewade to Gaushalala via Nhat Mohalla.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

NIDHI NIVEDITA, Collector.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020

अधि. क्रमांक 68, एफ 1-10/2020/अठारह-3 आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रेषित नगर पालिका निगम रतलाम के वार्डों के विस्तार संबंधी हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 13/परिसीमन-रतलाम/2020, दिनांक 05 फरवरी 2020 एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी 2020

क्र 13 /परिसीमन- रतलाम/ 2020 मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4- 520 अठारह -3-04 दिनांक 24. फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अजीत कुमार, आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, एतद्वारा मध्यप्रदेश, नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23, सन 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगरपालिक निगम रतलाम के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ।

अनुसूची

वार्ड क्र	वार्ड का नाम	वार्ड क्र	वार्ड का नाम
1	गोंधी नगर वार्ड	26	थावरिया बाजार वार्ड
2	लक्ष्मणपुरा वार्ड	27	हाकिमवाड़ा वार्ड
3	राजीव गोंधी वार्ड	28	आनंद कालोनी वार्ड
4	इन्दिरा गोंधी वार्ड	29	भक्तन की बावड़ी वार्ड
5	देवरा देव नारायण वार्ड	30	बाबू जगजीवनराम वार्ड
6	डॉ विनोबा भावे वार्ड	31	प. मोतीलाल नेहरू वार्ड
7	इन्द्रलोक नगर वार्ड	32	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
8	सुदामा वार्ड	33	लोकेन्द्र भवन वार्ड
9	अलकापुरी वार्ड	34	जवाहर वार्ड
10	राजगढ़ वार्ड	35	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
11	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	36	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
12	पं प्रेमनाथ डोगरे वार्ड	37	मौलाना आजाद वार्ड
13	कस्तुरबा वार्ड	38	नगर निगम वार्ड
14	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	39	राजमहल वार्ड
15	डॉ कैलाशनाथ काटजू वार्ड	40	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
16	सुभाष वार्ड	41	गफूर वार्ड
17	डॉ राधाकृष्णन वार्ड	42	रानीदुर्गावती वार्ड
18	खेतलपुर वार्ड	43	डॉ. सय्येदना सा. वार्ड
19	तंबोलिया बग वार्ड	44	चौदनी चौक वार्ड
20	पं. दिनदयाल उपाध्याय वार्ड	45	शिवाजी वार्ड
21	सिलावट वास वार्ड	46	संत कबीरदास वार्ड
22	भगतपुरी वार्ड	47	मोमिनपुरा वार्ड
23	रामगढ़ वार्ड	48	महर्षि वेदव्यास वार्ड
24	सायर चबुतरा वार्ड	49	महर्षि दयानन्द वार्ड
25	मालीकुआं वार्ड	—	—

वार्डों की चर्तुसीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक - 1 गॉधीनगर वार्ड (जनसंख्या -5708)

- उत्तर -** रतलाम नगर सीमा के सहारे-सहारे पूर्व की ओर बढ़ते हुए रेल्वे लाईन तक ।
- पूर्व -** रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर अग्रसर होते हुए प्रकाश नगर एवं शिवशंकर कालोनी को बाहर रखते हुए जावरा रोड़ रेल्वे क्रासिंग तक , यहाँ से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए , रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे छोटी माल गोदाम तक यहां से पश्चिम की ओर घूम कर , सड़क पार कर बड़ी माल गोदाम तक यहां से बड़ी रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे दक्षिण-पश्चिम की ओर अग्रसर होते हुए डाट की पुलिया तक यहां से सड़क के साथ-साथ उत्तर की ओर अग्रसर होकर जूनियर इन्स्टीट्यूट चौराहे तक ।
- दक्षिण -** रेल्वे जूनियर इन्स्टीट्यूट के सामने चौराहे से पश्चिम की ओर अग्रसर होते हुए रिटायर्ड कालोनी रोड़ तिराहे तक यहां से उत्तर की सड़क के साथ-साथ अग्रसर होते हुए सेन्द्रल बैंक तिराहे तक, यहां से पश्चिम की तरफ अग्रसर होते हुए सेन्द्रल बैंक को शामिल करते हुए कलाली को बाहर रखते हुए श्रीमती विमलदेवी पडोल के मकान नम्बर 103 तक, यहां से विमलदेवी पडोले के मकान नम्बर 103 को शामिल करते हुए पीपल के पेड़ एवं कुएँ को सम्मिलित करते हुए तथा इनके सामने से चम्पालाल टांक के मकान नम्बर 168 तक, यहां से चम्पालाल टांक के मकान को सीमा में लेते हुए सेन्ट स्टीफन स्कूल के सामने मंजुर की दुकान को सीमा में लेते हुए सेन्ट स्टीफन स्कूल तक तथा सेन्ट स्टीफन स्कूल से पश्चिम की ओर सड़क के साथ-साथ सेन्ट स्टीफन स्कूल को सीमा में लेते हुए पुलिया (गुजरात मांगलिक भवन के पास) तक ।
- पश्चिम -** पुलिया (गुजरात मांगलिक भवन के पास) से नाले के सहारे-सहारे देवरा देवनारायण मंदिर को बाहर रखते हुए शिमला कालोनी की बारण्डी के सहारे-सहारे रेल नगर , महेश नगर को बाहर रखते हुए नाले तक , यहां से शिव नगर को लेते हुए नाले के सहारे-सहारे शिव नगर मिथलेश का मकान व शान्ति पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए श्रीराम केमिकल के मकानों को बाहर रखते हुए मालपानी ट्रेडर्स को अन्दर रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य मार्ग तक , यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए मांगल्य मंदिर परिसर को बाहर रखते हुए रतलाम नगर सीमा तक ।

(इस वार्ड में -औद्योगिक क्षेत्र , गॉधीनगर , शिव नगर, शिमला कालोनी, मालवा नगर का भाग, रिटायर्ड कालोनी आदि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 2 लक्ष्मणपुरा वार्ड (जनसंख्या - 5316)

- उत्तर -** इन्द्रा नगर मुख्य मार्ग पर मदनलाल गौमे के मकान को बाहर रखते हुए इमदाद अबरार के मकान को सीमा में लेते हुए यहां से पूर्व की ओर चलकर पाकीजा मंजिल तक यहां से पाकिजा मंजिल को शामिल करते हुए नुरानी मस्जिद तक, नुरानी मस्जिद को सीमा में लेते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए जमिला हसन खों के मकान तक, जमिला हसन खों के मकान को सीमा में शामिल करते हुए यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए राजेन्द्र पाल के मकान को बाहर रखते हुए गार्ड कालोनी के बगीचे के पिछे गली तक, यहां से गली के सहारे-सहारे पूर्व दिशा में

बढ़ते हुए मिश्रा जी के प्लाट तक, यहां पर मिश्राजी के प्लाट को सीमा में लेते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए श्रीमती विमलदेवी पडोले के मकान नम्बर 103 तक, यहां से विमलदेवी पडोले के मकान को बाहर रखते हुए पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए कलाली को अन्दर रखते हुए नजीर मो. शेख के मकान को अन्दर रखते हुए एवं सेन्ट्रल बैंक को सीमा से बाहर रखते हुए रिटायर्ड कालोनी तिराहे तक।

पूर्व — रिटायर्ड कालोनी तिराहे से सेन्ट्रल बैंक को बाहर रखते हुए राय साहब लक्ष्मण सिंह जी के मकान को सीमा में लेते हुए यहां से तिराहे तक, यहां से पूर्व की ओर घूमते हुए जूनियर रेल्वे इन्स्टीट्यूट के सामने चौराहे तक यहां से सड़क के किनारे दक्षिण की ओर डाट की पुलिया तक।

दक्षिण — डाट की पुलिया से बड़ी रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे हरिजन बस्ती के आखिरी मकान तक यहां से लोकेन्द्र नागदे के मकान को बाहर रखते हुए नन्दु दूध भंडार तक, यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मंजुलता उपाध्याय के मकान को बाहर रखते हुए रामगोपाल सीताराम के मकान तक।

पश्चिम — रामगोपाल सीताराम के मकान से उत्तर की ओर चलकर हनुमान मंदिर को बाहर रखते हुए चुन्नीलाल के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर नाले के सहारे-सहारे एकता मेरिज हॉल को शामिल करते हुए इमदाद अबरार के मकान को सीमा में लेते हुए इमदाद अबरार के मकान तक।

(इस वार्ड में — हरिजन बस्ती, मालवा नगर का भाग, लक्ष्मणपुरा, टी.आई.टी. के मकान, सैलाना यार्ड इत्यादि शामिल हैं)

वार्ड क्रमांक — 3 राजीव गॉंधी वार्ड (जनसंख्या —4874)

उत्तर — लोहे की पुल से पूर्व की ओर अम्बेमाता मंदिर डबल स्टोरी क्वार्टर लाइन को बाहर रखते हुए डॉ. सोमतीप्रसाद सोम के मकान तक।

पूर्व — डॉ. सोमतीप्रसाद सोम के मकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए के.के. सिंह के मकान तक, इस मकान के सामने से नाला पार करते हुए चंपाबाई के मकान को सीमा में लेते हुए पूर्व की ओर चुन्नीलाल के मकान तक, यहां से चुन्नीलाल के मकान को सीमा में शामिल करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रामगोपाल जी के मकान व दरगाह तक, यहां से दरगाह को शामिल करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए नंदु दुध भण्डार तक, यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए लोकेन्द्र नागदे के मकान नम्बर 66/1 को शामिल करते हुए बड़ी रेल्वे लाइन सीमा तक।

दक्षिण — नागदे के मकान से व्यास जी पत्थर वाले के गोडाऊन को शामिल करते हुए गोमदड़े की पुलिया तक।

पश्चिम — गोमदड़े की पुल व इण्डियन ऑईल पुलिया से नाले के सहारे-सहारे लोहे की पुल तक।

(इस वार्ड में —जवाहर नगर ईएक्स क्वार्टर, सी कालोनी, जनता क्वार्टर, टी.आई.टी. इन्दिरा नगर के मकान, मालवा नगर का भाग, पी.एण्ड.टी. कालोनी इत्यादि शामिल हैं।)

वार्ड क्रमांक - 4 इंदिरा गौधी वार्ड (जनसंख्या - 4596)

- उत्तर - श्मशान रोड के मकान नम्बर B-2 को अन्दर लेते हुए रामदास पब्लिक स्कूल को सम्मिलित करते हुए सेन्ट रोज मेरी स्कूल को सम्मिलित करते हुए श्री नागेश वर्मा के मकान से पूर्व की ओर घूमते हुए श्रीराम भवन के सामने नाले के सहारे-सहारे गुजरात मांगलिक भवन के सामने पुलिया तक , यहां से पूर्व की ओर चलकर सेन्ट स्टीफन्स स्कूल तक ।
- पूर्व - सेन्ट स्टीफन्स स्कूल के सामने सड़क पार करते हुए हर्ष सिंघल के गोदाम को शामिल करते हुए राजू सुराणा के मकान तक , यहां से आगे चलकर दिनेश स्वामी के मकान को अन्दर लेते हुए दक्षिण दिशा में सुरेन्द्र वर्मा के मकान के पीछे गली तक ।
- दक्षिण - सुरेन्द्र वर्मा के मकान को शामिल करते हुए गली में गौरीशंकर गोमे के मकान को बाहर रखते हुए मुन्नालाल शर्मा के मकान तक , यहां से उत्तर में चलकर जमीला बाई के मकान एवं नूरानी मस्जिद को बाहर रखते हुए फातिमा मंजिल तक , यहां से पश्चिम में चलकर मदनलाल गोमे के मकान को सीमा में लेते हुए नाले तक , इन्दिरा नगर मेन रोड से पश्चिम की ओर बढ़कर श्री श्याम व्यास के मकान को शामिल करते हुए बीमा अस्पताल के कोने तक ।
- पश्चिम - बीमा अस्पताल से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जवाहर नगर गणेश किराना को शामिल करते हुए श्मशान रोड मकान नम्बर बी-2 तक ।

(इस वार्ड में - मालवा नगर , गार्ड कालोनी , इन्दिरा नगर , बीमा अस्पताल के पीछे , जवाहर नगर के मकान , वरदान नगर सेक्टर 1 व सेक्टर 2 इत्यादि शामिल हैं)

वार्ड क्रमांक - 5 देवरा देवनारायण नगर वार्ड (जनसंख्या -4558)

- उत्तर - टेंकर रोड के ग्लोबस सिटी के कोने से पूर्व की ओर बढ़ते हुए ग्लोबस कॉलोनी के कोने तक ।
- पूर्व - ग्लोबस कॉलोनी के उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अम्बिका नगर , विनोबा नगर झुग्गी झोपडी को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए ताज मो. वकिल के मकान को लेते हुए पूर्व दिशा तरफ देवरा देव नारायण नगर टंकी को लेते हुए व बद्री कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए नाले तक, यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देवरा देवनारायण मंदिर को व अनमोल नगर को शामिल करते हुए नाले के सहारे-सहारे श्री राम भवन तक ।
- दक्षिण - श्रीराम भवन से सड़क क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए श्री नागेश वर्मा के मकान व सेन्ट रोज मेरी स्कूल को बाहर रखते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रामदास पब्लिक स्कूल को बाहर रखते हुए नाले के सहारे-सहारे जवाहर नगर श्मशान कोने तक ।
- पश्चिम - जवाहर नगर श्मशान कोने से उत्तर की ओर बढ़ते हुए श्मशान व विनोबा नगर M.I.G. कालोनी को शामिल करते हुए विनोबा नगर माताजी मंदिर तक, यहाँ से अम्बिका नगर, ग्लोबस न्यू ओल्ड कॉलोनी, ग्लोबस कॉलोनी पानी की टंकी को सम्मिलित करते हुए टेंकर रोड तक ।
- (इस वार्ड में - इंदिरा नगर, देवरा देवनारायण नगर, बद्री कालोनी, अनमोल नगर, विनोबा नगर, न्यू व ओल्ड ग्लोबस कॉलोनी, विनोबा नगरएमआईजी, विनोबा नगर सी कॉलोनी, महेश नगर का भाग इत्यादि शामिल हैं।

वार्ड क्रमांक - 6 डॉ. विनोबा भावे वार्ड (जनसंख्या -4696)

- उत्तर - न्यू ग्लोबस कालोनी के कोने से पूर्व की ओर बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र फेक्ट्री के कोने तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए फेक्ट्री के दक्षिणी कोने तक , यहां से मालपानी ट्रेडर्स को बाहर रखते हुए व श्रीराम केमिकल्स के मकानों को अन्दर रखते हुए व शांति पब्लिक स्कूल व मिथिलेश के मकान को बाहर रखते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए नाले के सहारे-सहारे शिव नगर झुग्गी झोपड़ी को सीमा से बाहर रखते हुए व रेल नगर , महेश नगर को अन्दर रखते हुए शिमला कालोनी बाउण्ड्रीवाल तक ।
- पूर्व - शिमला कालोनी बाउण्ड्रीवाल के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रेलनगर व महेश नगर को सीमा में लेते हुए बंदी कालोनी कोने तक ।
- दक्षिण - बंदी कालोनी कोने से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सागर मेन्शन को सीमा में लेते हुए चंद्रप्रकाश बैरागी के मकान तक , यहां से चंद्रप्रकाश बैरागी के मकान व किरण स्मृति विद्या मंदिर को सीमा में रखते हुए देवरा देवनारायण कालोनी की सीमा व टंकी को बाहर रखते हुए , जगन्नाथ जेठानी के मकान तक , जगन्नाथ जेठानी के मकान को शामिल करते हुए व सितारा खान के मकान को बाहर रखते हुए माताजी मंदिर के कोने तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए विनोबा नगर MIG व शिव मंदिर व श्मशान को बाहर रखते हुए श्मशान तक ।
- पश्चिम - ग्लोबस कॉलोनी के उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अम्बिका नगर, विनोबा नगर झुग्गी झोपड़ी को बाहर रखते हुए रामनगर, सूर्यदेव नगर, गैस गोदाम को शामिल करते हुए ताज मो. वकिल के मकान को बाहर करते हुए कोने तक ।

(इस वार्ड में - महेश नगर , इन्दिरा नगर , रेल नगर , राम नगर इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 7 इन्द्रलोक नगर वार्ड (जनसंख्या -4678)

- उत्तर - न्यू ग्लोबस कालोनी कोने से राजगढ़ को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग के सहारे-सहारे नेहरू नगर के कोने तक ।
- पूर्व - जवाहर नगर मुक्तिधाम से उत्तर ओर बढ़ते हुए म.प्र.विद्युत वितरण कम्पनी ग्रिड व मंगल विहार कालोनी की टंकी को सीमा में लेते हुए व महेशचन्द्र शर्मा मकान नम्बर 176 को सीमा से बाहर रखते हुए मकान नम्बर 100 तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए मकान नम्बर 99 व 77 विनोबा नगर को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पुरानी ग्लोबस कालोनी के कोने तक , यहां से पुरानी व नयी ग्लोबस कालोनी की बाउण्ड्री के सहारे-सहारे पुरानी व नयी ग्लोबस कालोनीयों को बाहर रखते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए नयी ग्लोबस कालोनी के पश्चिमी कोने तक ।
- दक्षिण - धोलावाड़ ऑफिस के कोने से जवाहर नगर मुक्तिधाम तक ।
- पश्चिम - नेहरू नगर कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए व नेहरू नगर , मार्निंग स्टार स्कूल को बाहर रखते हुए व इन्द्रलोक नगर रोड़ के सहारे-सहारे इन्द्रलोक नगर , राजीव नगर की पूर्वी लाईन को सीमा में लेते हुए धोलावाड़ ऑफिस के कोने तक ।
(इस वार्ड में - इन्द्रलोक नगर (पूर्वीभाग) पूनम विहार , राजीव नगर , न्यू राजीव नगर न्यू इन्द्रलोक नगर , गणेश नगर, धोलावाड़ ऑफिस, मंगल विहार कॉलोनी, गोकुल धाम कॉलोनी इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 8 सुदामा वार्ड (जनसंख्या -4763)

- उत्तर - शासकीय शौचालय से अल्फा गैस गोडाऊन को बाहर रखते हुए पूर्व दिशा में बढ़ते हुए नेहरू नगर के कोने तक ।
- पूर्व - नेहरू नगर के कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर नेहरू नगर , बाणेश्वरी नगर , मार्निंग स्टार स्कूल को शामिल करते हुए इन्द्रलोक नगर की पूर्वी लाइन को बाहर रखते हुए गोकुल दुध डेयरी तक ।
- दक्षिण - गोकुल दुध डेयरी से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अलकापुरी सी कालोनी की उत्तरी लाइन शामिल करते हुए मकान नम्बर सी-35 तक , यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जीतनगर को बाहर को बाहर करते हुए श्री पांचाल आर.आई. के मकान तक ।
- पश्चिम - हनुमान मंदिर को बाहर रखते हुए, पांचाल जी आर.आई. के मकान को सीमा में लेते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए राधाकृष्ण मंदिर को सीमा में लेते हुए अल्फा गैस गोडाऊन के सामने शासकीय शौचालय तक ।
- (इस वार्ड में - नेहरू नगर, बाणेश्वरी कॉलोनी, इन्द्रलोक नगर की उत्तरी लाइन, अलकापुरी "सी" कालोनी, जनता नगर, मार्निंग स्टार स्कूल नया, राजगढ़ का भाग, विष्णुपुरी, विश्वकर्मा मंदिर इत्यादि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 9 अलकापुरी वार्ड (जनसंख्या -4912)

- उत्तर - सैलाना रोड पर सनसिटी कॉलोनी के उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कोमल नगर को बाहर करते हुए राजगढ़ नयागांव मुख्य मार्ग तक तथा यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, मेहरबान सिंह की किराना दुकान को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलकर इन्द्रलोक नगर मुख्य मार्ग तक ।
- पूर्व - गोकुल डेरी से अशोक लान्ड्री को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए धोलावाड ऑफिस रोड तिराहे तक ।
- दक्षिण - धोलावाड ऑफिस तिराहे से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओर महिला थाना को बाहर रखते हुए सैलाना रोड मुख्य मार्ग तक ।
- पश्चिम - महिला पुलिस थाने के सामने सैलाना रोड मुख्य मार्ग पर उत्तर की ओर बढ़ते हुए मकान नं. 138 मोहनलाल चौधरी के मकान तक तथा यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ते हुए टैगोर कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी व सनसिटी कॉलोनी को शामिल करते हुए कॉलोनी की उत्तरी सीमा तक ।

(इस वार्ड में - अलकापुरी बी सी डी कॉलोनी, डुप्लेक्स, सनसिटी कॉलोनी, टैगोर कॉलोनी, टैगोर कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी, जीत नगर, इन्द्रपुरी इत्यादि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 10 राजगढ़ वार्ड (जनसंख्या -4597)

- उत्तर - सैलाना रोड सीमा के सहारे-सहारे गंगासागर व नवीन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व गंगासागर रिजर्ववायर को शामिल करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए मांगल्य मंदिर के पूर्वी कोने तक ।

पूर्व – मांगल्य मंदिर के पूर्वी कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए JVL मंदिर को सीमा में लेते हुए औद्योगिक क्षेत्र कच्ची सड़क तक, यहां से कच्ची सड़क के सहारे-सहारे नयी ग्लोबस कालोनी को बाहर रखते हुए व अल्फा गैस गोडाउन को सीमा में रखते हुए राजगढ़ प्राथमिक स्कूल तक, यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए राजगढ़ की पश्चिमी लाईन लेते हुए सनसिटी कॉलोनी की बाउंड्री तक।

दक्षिण – सैलाना रोड पर सनसिटी कॉलोनी से उत्तरी पश्चिमी कोने से सनसिटी कॉलोनी को बाहर करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोमल नगर को सम्मिलित करते हुए सनसिटी कॉलोनी के कोने तक।

पश्चिम – सैलाना मुख्य मार्ग सड़क के सहारे-सहारे सनसिटी को बाहर करते हुए कोमल नगर, निराला नगर, गंगासागर कॉलोनी को शामिल करते हुए सैलाना रोड नगर सीमा तक।

(इस वार्ड में – गंगासागर, निरालानगर, कोमल नगर, गणेश नगर, महेश नगर, नारायण पहलवान की चाल, शिवनगर, राजबाग, अंजनीधाम, राधिका रेसीडेंसी, सज्जन विहार कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, गंगासागर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इत्यादि शामिल हैं।)

वार्ड क्रमांक – 11 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड (जनसंख्या –6305)

उत्तर – उत्तर पश्चिमी नगर सीमा कोने से पूर्व की ओर बढ़ते हुए नगर सीमा के सहारे-सहारे सैलाना रोड अरविन्द ऑरो आश्रम तक।

पूर्व – अरविन्द ऑरो आश्रम सैलाना रोड से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ मंदिर, राठौड रेस्टोरेंट तक।

दक्षिण – 80 फिट रोड पर साईं श्रीएकेडमी स्कूल को बाहर करते हुए रिधान अस्पताल को बाहर करते हुए मुखर्जी नगर मुख्य मार्ग के सहारे-सहारे टंकी एवं मुखर्जी नगर को सीमा में लेते हुए BSNL ऑफिस गोदाम के कोने तक।

पश्चिम – BSNL ऑफिस गोदाम के यहाँ से नाले के सहारे-सहारे व BSNL ऑफिस गोदाम व मानसरोवर को बाहर रखते हुए नगर सीमा के उत्तरी पश्चिमी कोने तक।

(इस वार्ड में – बड़बड़ गाँव, त्रिलोक नगर, तिरुपति नगर, रत्नपुरी, कर्मचारी कॉलोनी, मुखर्जी नगर, विरियाखेड़ी, अयोध्या बस्ती, सुयोग परिसर, सुरभि परिसर, मंगलमुर्ती, शुभलाभ कॉलोनी, स्नेह नगर, दिपक नगर, मरीन ड्राईव, गौड गृह निर्माण इत्यादि शामिल हैं।)

वार्ड क्रमांक – 12 पं. प्रेमनाथ डोंगरे वार्ड (जनसंख्या –6235)

उत्तर – डोंगरेनगर तेजा आश्रम के पास के नाले के सहारे-सहारे मानसरोवर शिव मंदिर परिसर को शामिल करते हुए नाले के सहारे-सहारे BSNL गोडऊन को सीमा में लेते हुए शासकीय शौचालय को बाहर रखते हुए मुखर्जी नगर पानी की टंकी को बाहर रखते हुए पूर्व की तरफ चलकर मुखर्जी नगर व शक्ति नगर मार्ग संगम तक।

पूर्व – मुखर्जी नगर व शक्ति नगर मार्ग संगम के कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए प्रियदर्शिनी नगर, शक्ति नगर का भाग, शिव मंदिर को शामिल करते हुए आदर्श नगर, पटवारी

कॉलोनी व शक्ति नगर के भाग को बाहर रखते हुए कस्तुरबा नगर मुख्य सड़क तक, यहाँ से भवन क्रमांक 635 व राम पब्लिक स्कूल को बाहर रखते हुए कुशवाह के मकान, पराग सर के मकान, को शामिल करते हुए एम.बी. नगर रेल्वे लाईन तक।

दक्षिण — रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सुभाष नगर रेल्वे फाटक को बाहर रखते रेल्वे फाटक तक।

पश्चिम — सुभाष नगर रेलवे फाटक के सामने नाले के सहारे-सहारे दुग्ध शीत केन्द्र, आदिवासी छात्रावास, सीएचएल हॉस्पिटल, जैन स्मारक को बाहर रखते हुए डोंगरे नगर रोड की पुलिया तक।

(इस वार्ड में — प्रियदर्शनी नगर, शक्ति नगर का भाग, तक्षशिला, बैंक कालोनी, शहीद भगतसिंह नगर, मोहन नगर, डोंगरे नगर, रिद्धी सिद्धी कॉलोनी, वृन्दावन मल्टी स्टोरी, रतलाम पब्लिक स्कूल, संत कंवरराम नगर, बापु आसाराम नगर, योगी विहार प्राधिकरण की कॉलोनी, बालाजी टाउनशीप, शुभम श्री कॉलोनी, कॉमर्स कॉलोनी, कस्तुरबा गृह निर्माण, सुभाष गृह निर्माण, तुलसी नगर, विद्या विहार, सिद्धार्थ नगर, मनीष नगर, एम बी नगर का भाग, टेलिफोन नगर, बैंक कॉलोनी, गौड गृह निर्माण कॉलोनी, माही विहार, सुन्दर वन कॉलोनी का भाग, मधुवन कॉलोनी, सिद्धानचलम कॉलोनी, श्रृंगी नगर, इत्यादि शामिल है।

वार्ड क्रमांक — 13 कस्तुरबा वार्ड (जनसंख्या — 6234)

उत्तर — शक्ति नगर व मुखर्जी नगर मार्ग के संगम से कर्मचारी कॉलोनी को बाहर रखते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए रिधान अस्पताल, कल्पतरु कॉलोनी व सॉईएकेडमी को सीमा में लेते हुए रत्नपुरी 80 फिट रोड तक, यहाँ से उत्तर की ओर चलते हुए 80 फिट रोड तिराहे तक। यहाँ से रत्नपुरी को बाहर करते हुए पूर्व की तरफ चलकर सैलाना रोड राठौर रेस्टोरेंट के सामने कोने तक।

पूर्व — सैलाना रोड राठौड रेस्टोरेंट के सामने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पश्चिमी सीमा को लेकर सैलाना ओवर ब्रिज रेलवे लाईन तक।

दक्षिण — रेल्वे ओवर ब्रिज से बड़ी रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे M.B. नगर कोने तक।

पश्चिम — M.B. नगर कोने से उत्तर की ओर बढ़ते हुए पराग सर के मकान तक, पराग सर के मकान को बाहर रखते हुए आगे बढ़ते हुए एम.बी. कुशवाह के मकान तक, यहां से बैरागी पटवारी के मकान को शामिल करते हुए मकान नम्बर 552 महेश तेलीयानी के मकान सड़क नम्बर 8 कोने तक, यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए राम पब्लिक स्कूल को सीमा में लेते हुए कस्तुरबा नगर में सड़क डी.आर. छड़ीदार मकान नम्बर 635 तक, यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए शक्ति नगर मुख्य मार्ग के सहारे पटवारी कॉलोनी, आदर्श नगर शामिल करते हुए कर्मचारी कॉलोनी मुखर्जी नगर सड़क तक।

(इस वार्ड में — सज्जनमिल मुख्य मार्ग पश्चिमी लाईन, राजीव नगर, कस्तुरबा नगर, एम. बी. नगर, भारतीय दूरसंचार निगम कार्यालय, क्रिश्चियन कब्रस्तान, सेन्ट्रल प्लाजा, बालाजी सेन्ट्रल शुभम विहार कॉलोनी, शुभम परिसर, आदर्श नगर, पटवारी कॉलोनी, शक्ति नगर का भाग, सज्जन मिल अंदर बाहर की चाल, बालाजी सेन्ट्रल, कल्पतरु इत्यादि शामिल है।)

वार्ड क्रमांक - 14 डॉ अम्बेडकर वार्ड (जनसंख्या -6359)

- उत्तर - सैलाना मार्ग से पूर्व की ओर बढ़ते हुए I.T.I. परिसर को शामिल करते हुए धोलावाड़ ऑफिस के सामने तक ।
- पूर्व - धोलावाड़ ऑफिस के कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गणेश किराना को बाहर रखते हुए बीमा अस्पताल के सामने कोने तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अम्बे माताजी मंदिर को शामिल करते हुए लोहे वाली पुलिया तक , पुलिया से सड़क क्रॉस करके नाले के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए इण्डियन ऑईल रोड़ गोमदड़े पुल तक ।
- दक्षिण - गोमदड़े की पुल से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इण्डियन ऑईल को शामिल करते हुए सैलाना ओव्हर ब्रिज तक ।
- पश्चिम - सैलाना ओव्हर ब्रिज से उत्तर की ओर बढ़ते हुए राम मंदिर को सीमा में लेते हुए व सज्जनमिल को बाहर रखते हुए महिला पुलिस थाने तक ।

(इस वार्ड में - अम्बेडकर नगर , जवाहर नगर बी कालोनी , विनोबा नगर LIG एवं सखवाल नगर , हरिजन बस्ती , जवाहर नगर A व B कालोनी, जवाहर नगरएम आई जी हाउसिंग मल्टी, रंग कारखाना, आईटीआई परिसर, वन विभाग परिसर, हाउसिंग बोर्ड की नई कॉलोनी, कन्या स्कूल अंबे माता मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 15 डॉ. कैलाशनाथ काटजू वार्ड (जनसंख्या -5470)

- उत्तर - सुभाष नगर सामुदायिक भवन के पीछे रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे सैलाना ओव्हर ब्रिज केबिन तक ।
- पूर्व - सैलाना रोड़ ओव्हर ब्रिज से श्रम शिविर की लाईन लेते हुए सैलाना बस स्टेण्ड चौराहे प्रतिकालय तक ।
- दक्षिण - सैलाना बस स्टेण्ड प्रतिकालय को सीमा में लेते हुए मिशन कम्पाउण्ड की सीमा के साथ-साथ श्रीकृष्ण टॉकिज के पीछे काटजूनगर सीमा तक , यहां से दक्षिण की ओर चलकर मदीना मस्जिद के सामने के मकान लेते हुए पश्चिम में आगे चलकर शुभम STD शॉप तक ।
- पश्चिम - शुभम STD शॉप से उत्तर की ओर चलते हुए संजय फुलझले के मकान की लाईन लेते हुए सामुदायिक भवन को बाहर रखते हुए रेल्वे लाईन तक ।

(इस वार्ड में - काटजू नगर, सुभाष नगर का भाग, टी.आई.टी. के मकान, हाटरोड़ का भाग, आमलिया भेरु श्रमशिविर इत्यादि शामिल है)

वार्ड क्रमांक - 16 सुभाष वार्ड (जनसंख्या - 5606)

- उत्तर - रेल्वे फाटक से पटरी के सहारे-सहारे सामुदायिक भवन तक ।
- पूर्व - सामुदायिक भवन से दक्षिण की ओर चलते हुए दालमिल चौराहा क्रॉस करते हुए सुर्यमुखी हनुमान मंदिर के कोने तक ।

दक्षिण — सूर्यमुखी हनुमान मंदिर के सामने कोने से पश्चिम की ओर चलकर इरफान खान (पी.ए.) के मकान की लाईन लेते हुए कोने पर मुस्ताक खों के मकान से उत्तर की ओर मूड़कर एवं कब्रस्तान की बाउण्ड्री से लगे मकानों को बाहर रखते हुए मुख्य मार्ग तक ।

पश्चिम — मुख्य मार्ग के मकान नम्बर 123 हुसैनीबाई के सामने से रेलवे फाटक तक , कब्रस्तान को बाहर रखते हुए ।

(इस वार्ड में — सम्पूर्ण सुभाष नगर , झुग्गी झोपड़ी , टी.आई.टी. के मकान, नाथ गली की उत्तरी लाईन इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक — 17 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड (जनसंख्या — 6112)

उत्तर — सुभाष नगर रेलवे फाटक से छोटू बादशाह की दरगाह , हयात नगर को सीमा में लेते हुए नाथ मोहल्ला की गली की दक्षिणी लाईन लेते हुए सूर्यमुखी हनुमान मंदिर तक ।

पूर्व — सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से दक्षिण की ओर चलते हुए खान बावड़ी की पश्चिम लाईन लेते हुए बाजना बस स्टैण्ड तक ।

दक्षिण — बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जैन हॉयर सेकेन्डरी स्कूल तक तथा यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर बाजना रोड को कास कर स्मृति बाल मंदिर को सीमा में लेते पास की गली से दक्षिण की तरफ चलकर बुद्धेश्वर रोड मुख्य मार्ग तक तथा यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हुए भील धर्मशाला , गोपाल नगर को शामिल करते हुए सैनिक कॉलोनी, धीरजशाह नगर को बाहर करते हुए ईश्वर नगर रेलवे फाटक तक ।

पश्चिम — ईश्वर नगर रेलवे फाटक से रेलवे लाईन के सहारे-सहारे सुभाष नगर रेलवे फाटक तक ।

(इस वार्ड में — नाथ मोहल्ला की दक्षिणी लाईन , राजेन्द्र नगर , पटेल कालोनी , कलिमी कालोनी , हयात नगर , भोंभी मोहल्ला , खान बावड़ी रोड की पूर्वी लाईन, गोपाल गौशाला कॉलोनी, भील धर्मशाला, बोहरा कब्रस्तान, टीचर कॉलोनी इत्यादि शामिल है ।

वार्ड क्रमांक — 18 खेतलपूर वार्ड (जनसंख्या — 6218)

उत्तर — सुभाष नगर रेलवे फाटक के सामने नाले के सहारे-सहारे दुग्ध शीत केन्द्र, जैन स्मारक, सीएचएल अस्पताल, आदिवासी छात्रावास को सीमा में लेते हुए डोंगरे नगर को बाहर करते हुए , डोंगरे नगर तेजा आश्रम नाले की पुलिया तक, यहाँ से नाले के सहारे-सहारे रणजीत हनुमान मंदिर के पीछे नाले तक ।

पूर्व — सुभाष नगर रेलवे फाटक से बड़ी रेलवे लाईन के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए नगर सीमा तक ।

दक्षिण — दक्षिण पूर्वी नगर सीमा से नगर सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण पश्चिम नगर सीमा तक ।

पश्चिम — दक्षिण पश्चिम नगर सीमा से नाले के सहारे-सहारे रणजीत हनुमान मंदिर पुलिया तक ।
(इस वार्ड में — खेतलपूर गाँव , ईश्वर नगर , हम्माल कालोनी , राम रहीम नगर , वन विभाग परिसर , उत्कृष्ट विद्यालय परिसर, दुग्ध शीत केन्द्र, जैन स्मारक, सीएचएल अस्पताल, आदिवासी छात्रावास, चंपा विहार, जेएमडी गार्डन, जलसा गार्डन, धाकड धर्मशाला इत्यादि शामिल है

वार्ड क्रमांक - 19 तम्बोलिया बाग वार्ड (जनसंख्या -6255)

- उत्तर - ईश्वर नगर रेलवे फाटक से पूर्व की तरफ चलते हुए बुद्धेश्वर रोड पर गोपाल नगर, भील धर्मशाला को बाहर करते हुए स्मृति बाल मंदिर के पास की गली तक, यहाँ से स्मृति बाल मंदिर के पास की गली से उत्तर की ओर चलते हुए बाजना रोड मुख्य मार्ग तक, यहाँ से दक्षिण लॉईन सीमा में लेते हुए बाजना बस स्टैण्ड पुराने यात्री प्रतिकालय तक ।
- पूर्व - यात्री प्रतिकालय के कोने से नृसिंह मंदिर को भामिल करते हुए सड़क क्रॉस करते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए अमृतसागर मार्ग के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए दिनदयाल नगर श्री कमलेश चौहान उपयंत्री के मकान तक ।
- दक्षिण - टाटा नगर के मनोज गोविन्द के मकान से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए टाटानगर , शांति निकेतन स्कूल , सैनिक कालोनी , धीरजशाह नगर की सीमा में लेते हुए , दिनदयाल नगर को सीमा के बाहर रखते हुए बड़ी रेलवे लाईन तक ।
- पश्चिम - बड़ी रेलवे लाईन के सहारे-सहारे ईश्वर नगर रेलवे लेवल क्रॉसिंग तक ।

(इस वार्ड में - धीरजशाह नगर , सैनिक कालोनी , टाटा नगर , शांति निकेतन, बुद्धेश्वर मंदिर इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 20 पं. दिनदयाल उपाध्याय वार्ड (जनसंख्या -6252)

- उत्तर - बड़ी रेलवे लाईन दिनदयाल नगर को सीमा में लेते हुए , धीरजशाह नगर , सैनिक कालोनी व टाटा नगर को सीमा से बाहर रखते हुए अमृत सागर रोड इमली के पेड़ तक ।
- पूर्व - इमली के पेड़ से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दिनदयाल नगर के मुख्य मार्ग तक ।
- दक्षिण - मुख्य मार्ग से अमृतसागर टी.आई.टी. कालोनी को बाहर रखते हुए हनुमान बाग,सेफी नगर , श्रीनगर , नेमीनाथ नगर, ऋशभदेव नगर को बाहर रखते हुए हनुमान बाग के अमृतसागर रोड के कोने तक, यहाँ से गवली शमशान, कब्रस्तान को सीमा में लेते हुए व ईशप्रेम बस्ती, पोरवाल नगर, अमाकीन सेफिया को शामिल करते हुए मोरवानी लेवल क्रॉसिंग तक ।
- पश्चिम - मोरवानी लेवल क्रॉसिंग से उत्तर की ओर बढ़ते हुए रेलवे लाईन के सहारे-सहारे उत्तर पश्चिम सीमा तक ।

(इस वार्ड में - दिनदयाल नगर (झुग्गी झोपड़ी), दिनदयाल नगर का सम्पूर्ण भाग, हिम्मत नगर, साँई मंदिर, वी.आई.पी. नगर , ओसवाल नगर , पोरवाल नगर , शिवाजी नगर, ईश प्रेम बस्ती, पोरवाल नगर, अमाकीन सेफिया (ग्लोबस गोल्ड सिटी), हिम्मत विहार, सिद्धी विनायक कॉलोनी, ओसवाल नगर, साँई रेसीडेंसी, बड़ा कब्रस्तान, इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 21 सिलावटवास वार्ड (जनसंख्या -6215)

- उत्तर - लक्कड़पीठा रोड पर 64 दुर्गाशंकर खाती के मकान से सीधे चलकर बाजना बस स्टैण्ड गुलाबचन्द होटल तक ।

- पूर्व — दुर्गाशंकर खाती के मकान नं. 64 से दक्षिण की ओर चलकर बट्टी कॉलोनी, अन्न क्षेत्र को बाहर रखते हुए नाले के सहारे-सहारे अमृतसागर बड़े पुल तक ।
- दक्षिण — अमृतसागर बड़े पुल से पश्चिम की ओर चलते हुए अमृतसागर तालाब व बगीचे को बाहर रखते हुए बगीचे के तिराहे तक, यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर हनुमान बाग के कोने तक ।
- पश्चिम — हनुमान बाग के कोने से अमृतसागर कॉलोनी, हनुमान बाग, श्री नगर, ऋषभ देव नगर, सैफीनगर, नेमीनाथ नगर को शामिल करते हुए तथा गवली शमशान व सिद्धी विनायक कॉलोनी, दिनदयाल नगर बी व सी सेक्टर को बाहर रखते हुए सहारे-सहारे दिनदयाल नगर मुख्य मार्ग प्रवेश के कोने तक ।
- (इस वार्ड में — लक्कड़पीठा, सिलावटो का वास, अमृतसागर तालाब रोड़, हरिजन बस्ती, गवली मोहल्ला, सैफी नगर, श्रीनगर, नेमीनाथ कॉलोनी, ऋषभ देव नगर, हनुमान बाग, टीआईटी की अमृत सागर कॉलोनी इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक — 22 भगतपुरी वार्ड (जनसंख्या — 6229)

- उत्तर — अमृतसागर उद्यान तिराहे से अमृतसागर उद्यान व तालाब को शामिल करते हुए एवं कोटा वाला बाग क्षेत्र को बाहर रखते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए त्रिपोलिया गेट चौराहे तक, यहां से भगतपुरी की ओर बढ़ते हुए गोयल किराना को बाहर रखते हुए और लीलाबाई चौधरी के मकान को सीमा में लेते हुए रामगढ़ मस्जिद की ओर बढ़ते हुए मस्जिद के कोने तक ।
- पूर्व — रामगढ़ मस्जिद के कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए तेलीयों की सड़क तिराहे पर कमलाबाई देवीलाल जायसवाल के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देवला माताजी के मंदिर को बाहर रखते हुए सांवलिया सेठ कृपा भवन को बाहर रखते हुए त्रिवेणी शमशान घाट की तरफ बढ़ते हुए गौशाला को शामिल करते हुए कल्याण गुरु पहलवान के मकान को शामिल करते हुए शमशान एवं त्रिवेणी कुंड को बाहर रखते हुए दक्षिण पूर्वी नगर सीमा तक ।
- दक्षिण — दक्षिण पूर्वी नगर सीमा के कोने से सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण पश्चिमी नगर सीमा के कोने तक ।
- पश्चिम — दक्षिणी पश्चिमी नगर सीमा के कोने से राम नगर व भेरुगढ़ को शामिल करते हुए धोलावाड़ रोड़ के सहारे-सहारे अमृतसागर रोड़ मोतीनगर चौराहा तक, यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हनुमान बाग मंदिर व अमृतसागर टी.आई.टी. कॉलोनी को बाहर रखते हुए अमृतसागर बगीचे के तिराहे तक ।
- (इस वार्ड में — भगतपुरी का कुछ भाग, तेलीयो की सड़क, शमशान रोड़ क्षेत्र, भेरुगढ़, रामनगर, त्रिवेणी रोड़ क्षेत्र, संत नगर, कल्याण नगर, मोती नगर, शंकरगढ़, आदर्श कल्याण नगर, डोंगरे धाम कॉलोनी, करण नगर इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक — 23 रामगढ़ वार्ड (जनसंख्या — 6112)

- उत्तर — त्रिपोलिया रोड़ पर हातमी मंजिल से पुरोहित धर्मशाला को बाहर करते हुए यहां से रोड़ क्रास करते हुए श्री कन्हैयालाल मौर्य के मकान को बाहर रखते हुए, गणेश मंदिर को

अन्दर रखते हुए शांतिलाल गोंधी के मकान तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए एवं शांतिलाल गोंधी के मकान को बाहर रखते हुए ब्राह्मण गली तिराहे तक ।

पूर्व — ब्राह्मण गली तिराहे से ब्राह्मण गली की पश्चिमी लाईन लेते हुए तेलीयों की सड़क तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए चमारिया नाका तिराहे तक , यहां से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए करमदी रोड़ से होते हुए नगर सीमा के दक्षिण पूर्वी कोने तक ।

दक्षिण — नगर सीमा के दक्षिण पूर्वी कोने से नगर सीमा के सहारे-सहारे नगर सीमा के दक्षिण पश्चिमी कोने तक ।

पश्चिम — नगर सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी कुण्ड और श्मशान को सीमा में लेते हुए व संत नगर एवं गौशाला को सीमा से बाहर रखते हुए सांवलिया सेठ कृपा भवन के सामने तेलीयों की सड़क तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए देवला माता मंदिर को शामिल करते हुए यहां से सड़क क्रॉस करते हुए कमलाबाई देवीलाल जायसवाल के मकान व नीलगर मस्जिद को बाहर रखते हुए नीलगर मस्जिद के कोने तक , यहां से होली इलेक्ट्रानिक्स की दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गोयल किराना को शामिल करते हुए त्रिपोलिया गेट की ओर त्रिपोलिया गेट क्रॉस करते हुए हातमी मंजिल तक ।

(इस वार्ड में — रामगढ़ , चौड़ावास , ब्राह्मणों की गली , तेलीयों की सड़क , चमारिया नाका , तेजा नगर ब्लॉक नं. 1 व 2 , शुभम रेसीडेसी, चौड़ावास, बालाजी नगर , करमदी रोड़ गुलाबशाह अली की दरगाह , त्रिवेणी श्मशान रोड़ , त्रिपोलियागेट, त्रिवेणी मुक्तीधाम इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक — 24 सायर चबुतरा वार्ड (जनसंख्या —6247)

उत्तर — तैलियों की सड़क से उत्तर की ओर चलकर ब्राह्मण गली का पूर्वी भाग लेते हुए राम मोहल्ला के पास पतली गली से नाले के सहारे-सहारे तैलियों की सड़क पर पुलिया तक, यहाँ से पूर्व की ओर चलकर ज्योति नगर, कुंजडो का वास, ओझाखाली, मांलीकुआ, फूलमंडी, भांतिनगर, जूनी कलाल सैरी को बाहर रखते हुए रत्नेश्वर रोड चौराहे तक ।

पूर्व — रत्नेश्वर रोड चौराहे से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रत्नेश्वर रोड की गली नं. 1,2,3,4,5 व सेठिया मेरिज गार्डन को बाहर रखते हुए रत्नेश्वर हनुमान मंदिर को शामिल करते हुए नाला कास कर नगर सीमा तक ।

दक्षिण — नगर सीमा के दक्षिण पूर्वी कोने से नगर सीमा के सहारे-सहारे करमदी रोड नगर सीमा के दक्षिण पश्चिमी कोने तक ।

पश्चिम — नगर सीमा से उत्तर की ओर बढ़ते हुए खाद अड्डा को सीमा में लेते हुए चमारिया नांका तिराहे तक, यहाँ से पश्चिम की ओर चलकर ब्राह्मण गली के कोने तक ।

(इस वार्ड में — राम मोहल्ला, अशोक नगर , सरस्वती नगर, ब्राह्मण गली का पूर्वी भाग , लक्ष्मी नगर, मौलाना आजाद नगर , पाटीदार धर्मशाला, शुभ विहार नगर, ग्रीन सिटी, आदिनाथ सिटी, अमलतास कॉलोनी, रुद्राक्ष कॉलोनी, रत्नेश्वर रोड का पश्चिमी भाग, पेट्रोल पंप, सुराना की कॉलोनी, कंचन मेरिज गार्डन, तितरी दरवाजा पश्चिम दिशा इत्यादि शामिल है)

वार्ड क्रमांक - 25 मालीकुआं वार्ड (जनसंख्या - 6213)

- उत्तर - राम मोहल्ला तिराहे से आराधना भवन को सीमा में लेते हुए सायर चबुतरा चौराहा, गुजराती मंदिर से सेठ जी का बाजार की दक्षिणी लाईन लेते हुए कसारी दरवाजा तिराहा क्रास कर रामदेव जी की घाटी की पूर्वी लाईन लेते हुए बिचला वास तिराहे तक ।
- पूर्व - बिचला वास तिराहे से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गोरधननाथ मंदिर को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हरमाला रोड़ पर रत्नेश्वर चौराहे तक ।
- दक्षिण - रत्नेश्वर चौराहे से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मालीकुआं, फूलमंडी, शांतिनगर को सीमा में लेते हुए व अशोक नगर, मौलाना आजाद नगर, लक्ष्मी नगर को बाहर रखते हुए चमारिया नांका तिराहे की पुलिया तक ।
- पश्चिम - चमारिया नांका पुलिया से नाले के सहारे उत्तर की ओर चलते हुए ज्योति नगर, कुंजडो का वास, ओझाखाली को सीमा में लेते हुए राम मोहल्ला सडक पर श्री चत्तर के मकान तक, यहाँ से उत्तर की ओर चलकर ओझाखाली सडक के तिराहे तक ।

(इस वार्ड में - मालीकुआं , शांतिनगर , कसारी दरवाजा , बिचलावास का कुछ भाग , जुनीकलाल सेरी मार्ग का पश्चिम भाग , कसारी दरवाजा, शांतिनगर, कुंजडो का वास, ज्योति नगर, ओझाखाली, पोरवाडो का वास का दक्षिण भाग इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 26 थावरिया बाजार वार्ड (जनसंख्या - 5652)

- उत्तर - भण्डारी गली की दक्षिणी लाईन लेते हुए वहिद शैरानी के घर को करते हुए हाकिमबाडा को सीमा में लेते हुए हाकिमवाड़ा तिराहे तक ।
- पूर्व - हाकिमवाड़ा तिराहे से काजीपुरा नाले तक तथा यहाँ से नाले के सहारे-सहारे भोई मोहल्ला को बाहर करते हुए उंकाला रोड स्कूल के सामने तक, उंकाला रोड स्कूल को अंदर रखते हुए उंकाला रोड की दक्षिणी लाईन को सीमा में लेते हुए बजरंग नगर नाले तक ।
- दक्षिण - बजरंग नगर नाले के सहारे-सहारे नगर सीमा के दक्षिण पश्चिमी सीमा के कोने तक ।
- पश्चिम - नगर सीमा के दक्षिण पश्चिम कोने से रत्नेश्वर हनुमान मंदिर के सामने से उत्तर की ओर चलकर कंचन बाग को बाहर करते हुए रत्नेश्वर रोड नं. 1,2,3,4,5 व सेठिया मेरिज गार्डन, नोंकार रेसीडेंसी को सीमा में लेते हुए हरमाला रोड, रत्नेश्वर रोड तिराहे तक तथा यहाँ से बिचलावास, श्री बाबुलाल जोशी के मकान के सामने की लाईन लेते हुए श्री हजारी मल के मकान तक, यहाँ से दाहिने ओर चलकर बैकुण्ठनाथ मंदिर को लेते हुए थावरिया बाजार भंडारी गली मुहाने तक ।

(इस वार्ड में - भण्डारी गली की एक लाईन , धवाई जी का वास , लम्बी गली , मेहता जी का वास , हाकिमवाड़ा, जुनी कलाल सैरी, नवकार रेसीडेंसी, दानी पुरा, सेठिया मेरिज गार्डन, उंकाला रोड, बसंत कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, रॉयल रेसीडेंसी इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 27 हाकिमवाड़ा वार्ड (जनसंख्या - 6223)

- उत्तर - हाकिमवाड़ा तिराहे से काजीपुरा को सीमा में लेते हुए व शैरानीपुरा कम्युनिटी हॉल को बाहर रखते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सैय्यद इलेक्ट्रानिक्स तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए ए.एम. कुरेशी , अब्दुल रशीद मकान नम्बर 35 को बाहर रखते हुए टी.आई.टी. के मकानों को सीमा में लेते हुए रुबी फ्लोर मिल पुलिया तक , यहां से शहनाज आपा के मकान को बाहर रखते हुए व माताजी मंदिर एवं हनुमान मंदिर को सीमा में लेते हुए नाले के सहारे-सहारे मदरसा मस्जिद को सीमा में लेते हुए व अनिल भाटी की झोपड़ी को बाहर रखते हुए कच्ची सड़क नाले तक , यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए मिल्लत नगर तिराहा तलैया तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ऑफिसर कालोनी , कलेक्टर वएस.पी. के बंगलो को सीमा में लेते हुए व डी.आर.पी. लाईन हनुमान मंदिर को सीमा से बाहर रखते हुए महु रोड़ तिराहा ओव्हर ब्रिज तक ।
- पूर्व - महु रोड़ तिराहे से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए महु रोड़ के सहारे-सहारे साला खेड़ी डाक बंगला नगर सीमा तक ।
- दक्षिण - साला खेड़ी डाक बंगला नगर सीमा से नाले के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिलीप नगर के दक्षिण पश्चिम कोने तक ।
- पश्चिम - दिलीप नगर के दक्षिण पश्चिम कोने से उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिलीप नगर की सीमा के साथ-साथ नाले तक , और इसी नाले के सहारे-सहारे दिलीप नगर ऊंकाला रोड़ के पास स्कूल तक , यहां से काजीपुरा नाले के सहारे-सहारे भोई मोहल्ला को सीमा में लेते हुए काजीपुरा पुलिया के पास सड़क तक ।

(इस वार्ड में - भोईपुरा , काजीपुरा , लालजी का बाग , ऑफिसर कालोनी , महु रोड़ , बजरंग नगर , दिलीप नगर , अर्जुन नगर , राजीव नगर (झुग्गी झोपड़ी), ऊंकाला रोड़, सुरजमल जैन नगर, समता नगर, सुदामा परिसर, अरिहंत कॉलोनी, कृषि उपज मंडी, शगुन कॉलोनी, विक्रम नगर का भाग, मेवाती पुरा, टीआईटी के मकान, श्री कॉलोनी इत्यादि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 28 आनंद कॉलोनी वार्ड (जनसंख्या - 6119)

- उत्तर - गीता मंदिर रोड़ पर तखतमल पोहे वाले की दुकान से पूर्व की बढ़ते हुए मयूर फव्वारा शामिल करते हुए पेट्रोल पम्प तक ।
- पूर्व - पेट्रोल पम्प से इफ्का गेस्ट को बाहर रखते हुए एवं स्ट्रा बोर्ड विक्रम नगर को लेते हुए ऑफिसर कॉलोनी तिराहे तक ।
- दक्षिण - ऑफिसर कालोनी तिराहे से डी आर पी लाईन लेते हुए कलेक्टर वएसपी बंगले को बाहर करते हुए जमात खाने तलैया तक ।
- पश्चिम - तलैया के सामने से उत्तर की ओर बढ़ते हुए आनंद कालोनी शामिल करते हुए हजीरापुल तक , यहां से नाले के सहारे-सहारे मित्र निवास कालोनी को एवं दरगाह को बाहर रखते हुए गुलमोहर कालोनी को शामिल करते हुए झालानी कॉलोनी को बाहर रखते हुए यहां से उत्तर की ओर चलकर तखतमल पोहे वाले की दुकान तक ।

(इस वार्ड में - गुलमोहर कालोनी , आनन्द कालोनी , समता नगर , गीता मंदिर रोड़ का भाग , डी.आर.पी. लाईन , विक्रम नगर, नया कलेक्टर कार्यालय का भाग इत्यादि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 29 भक्तन की बावड़ी वार्ड (जनसंख्या - 6019)

- उत्तर - रामेश्वर मंदिर के सामने रेल्वे बाउण्ड्रीवाल के सामने से रामेश्वर मंदिर को बाहर रखते हुए रामु की चाल को शामिल करते हुए पतली गली से पूर्व की ओर बढ़ते हुए विनोद सुथार , लीलाबाई रामचन्द्र धोबी के मकानों को सीमा में लेते हुए व दरगाह यशोदाबाई , गणेश स्क्रीन प्रिंटर्स , आटा मिल्स , रहमत मंजिल एवं रहमत मंजिल के पीछे के मकानों को सीमा से बाहर रखते हुए डायवर्सन रोड की पुलिया क्रॉस करते हुए नगर सीमा तक ।
- पूर्व - दक्षिण पूर्वी कोना (भाटा खेड़ी) के पश्चिम से नगर सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हापूखेड़ी के पास रास्ते तक, यहाँ से नगर सीमा के सहारे-सहारे नगर सीमा के दक्षिणी पूर्वी कोने तक ।
- दक्षिण - नगर सीमा दक्षिणी पूर्वी कोने से नगर सीमा के सहारे-सहारे महु रोड साला खेड़ी पुराने रेस्ट हाउस के सामने तक ।
- पश्चिम - सालाखेड़ी पुराने रेस्ट हाउस के सामने से पूर्वी भाग शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलकर होटल पलाश एवं मेकेनिक नगर , संजय नगर , बस स्टैण्ड , अन्जुमन मस्जिद को शामिल करते हुए रेल्वे अंडर ब्रिज गार करते हुए रेल्वे लोको शेड की बाउण्ड्रीवाल के सहारे-सहारे रामेश्वर मंदिर की गली के सामने तक ।

(इस वार्ड में - महावीर नगर , रामेश्वर मंदिर के पीछे की गली के मकान , बोहरे की चाल , बापू नगर , रहमत नगर का कुछ भाग , महु रोड , भक्तन की बावड़ी , संजय नगर , राजस्व कालोनी , होमगार्ड कालोनी , प्रताप नगर, प्रताप नगर एक्सटेंशन, सुन्दरलाल की चाल, मान सरोवर, मिड टाउन, मंगलम सिटी, सम्यक रेसीडेंस, पुष्प परिसर इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 30 बाबु जगजीवन राम वार्ड (जनसंख्या - 6253)

- उत्तर - रेल्वे लाईन उत्तर पश्चिम नगर सीमा से सीमा के सहारे-सहारे डॉ. प्रकाश की डिस्पेन्सरी तक , यहां से नाले के सहारे-सहारे डोसीगांव को सीमा लेते हुए बोरवाना नगर सीमा तक
- पूर्व - बोरवाना नगर सीमा से नगर सीमा की पूर्वी लाईन के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पूर्वी कोने तक ।
- दक्षिण - दक्षिण पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए डायवर्सन रोड पुलिया तक , यहां से रहमत मंजिल के पीछे के मकानों को सीमा में लेते हुए रहमत मंजिल के कोने तक , यहां से रहमत मंजिल , आटा मिल्स , गणेश स्क्रीन प्रिंटर्स , यशोदाबाई का मकान व दरगाह को सीमा में लेते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रामेश्वर मंदिर को सीमा में लेते हुए पतली गली से होते हुए रामप्रसाद बौरासी के मकान को बाहर रखते हुए यहां से सड़क व रेल्वे बाउण्ड्रीवाल क्रॉस कर रेल्वे लाईन तक ।
- पश्चिम - रेल्वे लाईन से उत्तर की ओर बढ़ते हुए शिवशंकर कालोनी और प्रकाश नगर को सीमा में लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे नगर सीमा तक ।

(इस वार्ड में - डोसीगांव , गौरव धाम , आजाद नगर , पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस , 132 KV M.P.E.B. कालोनी , अम्बेडकर नगर , क्रिश्चियन कब्रस्तान , घटला कालोनी , काजी खान की मस्जिद का क्षेत्र , रहमत नगर , राजीव नगर, शिवशंकर कालोनी (झुग्गी झोपड़ी) , प्रकाश नगर बस्ती, लेनार्ड सिटी, राजू नगर डिजल शेड इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 31 पं. मोतीलाल नेहरू वार्ड (जनसंख्या -4617)

उत्तर - पत्रकार कॉलोनी को शामिल करते हुए इसके उत्तरी कोने से रेलवे लाईन के सहारे-सहारे जॉट की पुलिया होते हुए रेलवे लाईन के सहारे-सहारे छोटी लाईन माल गोदाम तक ।

पूर्व - छोटी लाईन माल गोडाऊन फाटक से मनोहर होटल वाली लाईन सम्मिलित करते हुए एवं साया रेस्टोरेन्ट जावरा फाटक तक , फाटक से रोड़ क्रास करते हुए दिलबहार चौराहे से मकड़ावन कोठी एवं महाराष्ट्र समाज वाली लाईन को शामिल करते हुए ट्राफिक चौकी को शामिल करते हुए एवं क्रास करते हुए जोशानी ऑईल मिल दुकान तक , यहां से रोड़ क्रास करते हुए पुलिस थाना से दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए रुपायन स्टोर तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए चौधरी चरणसिंह के मकान को बाहर रखते हुए दक्षिण की ओर दरगाह को बाहर रखते हुए रोटरी हॉल अनिल भटनागर के मकान तक ।

दक्षिण - अनिल भटनागर के मकान से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मालपानी के मकान तक , यहां से सड़क क्रास करते हुए श्रीराम मंदिर को बाहर रखते हुए ब्राह्मण बोर्डिंग की लाईन लेते हुए पश्चिम की ओर शास्त्री नगर बगीचे को शामिल करते हुए ललित गाँधी के मकान तक , यहां से आगे बढ़ते हुए रुपायन भवन की लाईन लेते हुए कोने की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक ।

पश्चिम - मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से उत्तर की ओर चलते हुए शराब की दुकान पॉवर हाऊस रोड़ तक, यहाँ से पॉवर हाँउस रोड़ पर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप को सीमा मे लेते हुए उत्तर की ओर चलकर लॉयन्स हॉल, पत्रकार कॉलोनी को सीमा मे लेते हुए व राजस्व कॉलोनी को बाहर रखते हुए रेलवे लाईन तक ।

(इस वार्ड में - शास्त्री नगर का भाग, पुलिस कालोनी, दो बत्ती थाना, फ्रीगंज, स्टेशन रोड़ का पश्चिमी भाग, मनोहर होटल गली, पॉवर हाउस रोड़, सर्किट हाउस, डीआरएम ऑफिस, पत्रकार कॉलोनी, कोठारी मॉर्कट, रेलवे स्टेशन, इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 32 लालबहादुर शास्त्री वार्ड (जनसंख्या - 4968)

उत्तर - सैलाना ओव्हर ब्रिज से रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पत्रकार कॉलोनी के उत्तरी पश्चिमी कोने तक ।

पूर्व - पत्रकार कॉलोनी के उत्तरी पश्चिम कोने से पत्रकार कॉलोनी, लॉयन्स हॉल व रिलायंस पेट्रोल पंप को बाहर करते हुए व राजस्व कॉलोनी को शामिल करते हुए पॉवर हाउस रोड़ तक, यहाँ से पॉवर हाउस रोड़ पर पूर्व की ओर बढ़ते हुए शराब की दुकान वाले कोने तक, शराब की दुकान को बाहर रखते हुए रोड़ क्रास कर अग्रवाल स्टील से नाले की ओर मल्टी स्टोरी तक , यहां से रोड़ क्रास करते हुए सिंधीयों के प्रवचन हॉल तक , यहां से शास्त्रीनगर बगीचे को बाहर रखते हुए बद्रीलालजी के मकान से श्रीराम मंदिर मार्केट की मनीष पान भंडार दुकान तक ।

दक्षिण - मनीष पान भंडार से न्यूरोड़ पर आगे चलते हुए गुरुद्वारा एवं राजीव गाँधी सिविक सेन्टर शामिल करते हुए लोकेन्द्र टॉकिज वाली लाईन लेते हुए वाघेला की बिल्डिंग तक ।

पश्चिम - वाघेला की बिल्डिंग से गायत्री टॉकिज की लाईन लेते हुए आगे चलकर सड़क क्रास कर होटल अम्बर से सैलाना ओव्हर ब्रिज रेल्वे लाईन तक ।

(इस वार्ड में - राजबाई बावड़ी की जीन , पॉवर हाऊस रोड़ , राजस्व कालोनी , राजपुत बोर्डिंग , न्यू रोड़ , शास्त्री नगर , राजीव गाँधी सिविक सेन्टर , नजरअली की चाल इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 33 लोकेन्द्र भवन वार्ड (जनसंख्या - 4561)

- उत्तर - अम्बेडकर प्रतिमा से पूर्व की ओर चलते हुए नेहरू स्टेडियम को शामिल करते हुए घोड़ा चौराहा पर टॉपएण्ड टाऊन आइस्क्रीम शॉप की लाईन लेते हुए दिलबहार चौराहे तक ।
- पूर्व - दिलबहार चौराहे से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अन्जुमन मस्जिद को बाहर रखते हुए मयूर फव्वारे तक , यहां से पश्चिम की ओर चलते हुए पेट्रोल पम्प को शामिल करते हुए प्याऊ तक , यहां से सड़क क्रॉस कर दक्षिण की ओर कटारिया जी के मकान को शामिल करते हुए झालानी कॉलोनी को शामिल करते हुए गुल मोहर कालोनी को बाहर रखते हुए गुल मोहर की बाउण्ड्रीवाल के पूर्वी कोने तक ।
- दक्षिण - गुलमोहर कालोनी की बाउण्ड्रीवाल के पूर्वी कोने के सहारे-सहारे चलकर दरगाह को बाहर रखते हुए सेन्ट जोसफ कान्वेंट स्कूल की बाउण्ड्रीवाल तक , यहां से उत्तर की ओर चलकर डॉ. निर्मल जैन के मकान को शामिल करते हुए वीर सांवरकर मार्ग चौराहे तक , चौराहे से पश्चिम में चलकर आयकर विभाग एवं न्यायालय परिसर को शामिल करते हुए जिला पंचायत चौराहे तक ।
- पश्चिम - जिला पंचायत चौराहे से न्यायालय परिसर को शामिल करते हुए छत्रीपुल अम्बेडकर प्रतिमा सर्कल को शामिल करते हुए तिराहे तक ।
- (इस वार्ड में - महात्मा गान्धी मार्ग , ताशकन्द मार्ग , लोकन्द्र भवन , बैंक कालोनी , वीर सांवरकर मार्ग एवं महु रोड का भाग, झालानी कॉलोनी का भाग, जिला न्यायालय परिसर, आयकर कार्यालय, स्टेट बैंक कार्यालय, नेहरू स्टेडियम, स्टेडियम मार्केट, भुत बंगला, टीआईटी रोड क्षेत्र इत्यादि शामिल है ।

वार्ड क्रमांक - 34 जवाहर वार्ड (जनसंख्या - 4610)

- उत्तर - सिटी प्लाजा से पूर्व की ओर बढ़ते हुए श्री जी.के. जायसवाल जी के मकान को शामिल करते हुए रोटरी हॉल के कोने तक , यहां से रोड क्रॉस कर दरगाह को शामिल करते हुए चौधरी चरणसिंह के मकान तक , यहां से पूर्व की ओर चलकर डॉ. पचौरी के मकान को लेते हुए रूपायन स्टोर के सामने तक ।
- पूर्व - रूपायन स्टोर के सामने से दक्षिण की ओर चलकर छत्रीपुल से मेहंदी कुई बालाजी मंदिर को शामिल करते हुए नगर निगम को बाहर रखते हुए साइन्स कालेज , सरकारी हास्पिटल को शामिल करते हुए नाहरपूरा तिराहे गोविन्द पान वाले तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हरकावत के मकान नाहरपुरा चौराहा तक ।
- दक्षिण - हरकावत के मकान से पश्चिम की ओर चलकर रानी जी के मंदिर तक , बद्रीलाल अग्रवाल के मकान तक ।
- पश्चिम - सुभाष मार्ग बद्रीलाल अग्रवाल के मकान से शहर सराय सेवा मण्डल भवन को सम्मिलित करते हुए जवाहर कैफे तक , यहां से कटारिया भवन की लाईन लेते हुए जेल सीमा के सहारे-सहारे गुरुद्वारे को बाहर रखते हुए सिटी प्लाजा तक ।
- (इस वार्ड में - न्यू रोड , अजन्ता टॉकिज रोड , डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग , धानमण्डी , नाहरपुरा , सुभाष मार्ग , शिवपुर कम्पाउण्ड, जिला जेल, आर्दर्स एंड साइंस कॉलेज, रोटरी हॉल, बालाजी मंदिर इत्यादि शामिल है ।

वार्ड क्रमांक - 35 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (जनसंख्या - 4694)

- उत्तर - छत्रीपुल तिराहे से मच्छी दरवाजा होते हुए वीर सांवरकर मार्ग नगर निगम स्टेज तक , यहां से कान्वेन्ट स्कूल को शामिल करते हुए दरगाह वाली गली तक ।
- पूर्व - दरगाह वाली गली में डॉ. निर्मल जैन के मकान की लाईन को बाहर रखते हुए एवं खुदा सय्येद दरगाह परिसर को शामिल करते हुए गुलमोहर कालोनी को बाहर रखते हुए मित्र निवास कालोनी को शामिल करते हुए हजीरा पुलिया तक , यहां से सड़क क्रॉस कर नाले के सहारे-सहारे कालिका माता बगीचा मंदिर , महालक्ष्मी नगर , अभिभाषक नगर को शामिल करते हुए नाले के सहारे-सहारे कुरुप ब्रिज तक ।
- दक्षिण - कुरुप ब्रिज से पुरोहित जी का वास चौराहा क्रॉस करते हुए शनि मंदिर को बाहर रखते हुए सफदर मास्टर के मकान को शामिल करते हुए चददर वाली पुलिया होते हुए हाथीखाना मार्ग तिराहे तक ।
- पश्चिम - हाथीखाना मार्ग एवं चददर वाली पुलिया की गली के तिराहे से उत्तर की ओर बढ़ते हुए पांजरा पोल व कांजी हाऊस को शामिल करते हुए हाथीखाना स्कूल को अन्दर लेते हुए रोड़ क्रॉस कर निगम की विकास शाखा कार्यालय को लेते हुए एवं मेंहन्दी कुई बालाजी मंदिर को बाहर रखते हुए छत्रीपुल तिराहे तक ।

(इस वार्ड में - मित्र निवास कालोनी , कान्वेन्ट स्कूल , महालक्ष्मी नगर , वकील कालोनी , पुरोहित जी का वास , चिंगीपुरा का भाग , रामबाग , पुराना कलेक्टोरेट, डॉ. देवीसिंग कालोनी, कालिकामाता परिसर, लोनिवि कार्यालय, आरडीए कार्यालय इत्यादि शामिल हैं)

वार्ड क्रमांक - 36 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड (जनसंख्या - 6240)

- उत्तर - शैरानीपूरा कुरुप ब्रिज से नाले के सहारे-सहारे हजिरा पुलिया ।
- पूर्व - हजिरा पुलिया से खातीपुरा रोड़ होते हुए तलैया को बाहर रखते हुए व शैरानीपूरा जमातखाना को सीमा में लेते हुए मिल्लत नगर रोड़ तिराहे तक, यहां से रोड़ क्रॉस करते शैरानीपूरा कब्रस्तान को बाहर रखते हुए कच्चे रास्ते के सहारे-सहारे उंकाला रोड़ कम्युनिटी हॉल तक नाले तक ।
- दक्षिण - उंकाला रोड़ कम्युनिटी हॉल से पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए माता मंदिर, हनुमान मंदिर को सीमा में लेते हुए शहनाज आपा के मकान तक ।
- पश्चिम - शहनाज आपा के मकान को सीमा में लेते हुए व रूबी फ्लोर मिल को बाहर रखते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए अब्दुल रशीद व.ए.एम. कुरेशी के मकानों को शामिल करते हुए व टी.आई.टी. व जावेद इन्टरप्राइजेस के मकानों को बाहर रखते हुए शैरानीपूरा मुख्य मार्ग तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए काजीपूरा को बाहर रखते हुए व नदीम फ्लोर मिल को शामिल करते हुए शैरानीपूरा कम्युनिटी हॉल तक , यहां से शैरानीपूरा कम्युनिटी हॉल को बाहर रखते हुए उत्तरी की ओर बढ़ते हुए कसाई मण्डी को शामिल करते हुए कुरुप ब्रिज तक ।

(इस वार्ड में - शैरानीपूरा , खातीपूरा , खेड़ापति हनुमान मंदिर , जमातखाना , मिल्लत नगर , जय भारत नगर , पटेल कालोनी इत्यादि शामिल हैं ।)

वार्ड क्रमांक - 37 मौलाना आजाद वार्ड (जनसंख्या - 4924)

- उत्तर - सूरजपौर से मोचीपूरा चौराहे से दक्षिणी लाईन लेते हुए मोचीपूरा चौराहे तक यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हाथीखाना मार्ग तिराहे तक, यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हुए चदर वाली पुलिया होते हुए सफदर मास्टर के मकान को सीमा से बाहर रखते हुए व शनि मंदिर को सीमा में लेते हुए पुरोहित जी का वास चौराहा कास करते हुए कुरुप ब्रिज तक ।
- पूर्व - कुरुप ब्रिज से दक्षिण की ओर चलकर सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए हरिजन बस्ती को बाहर रखते हुए काजीपूरा मार्ग संगम तक ।
- दक्षिण - काजीपूरा मार्ग संगम से काजीपूरा पुलिया होते हुए हाकिमवाड़ा चौराहे तक यहां से अन्दर की ओर चलकर भंडारी गली की उत्तरी लाईन लेते हुए थावरिया बाजार तक ।
- पश्चिम - थावरिया बाजार चौराहे से सूरजपौर के सामने चारभुजा मंदिर तक ।

(इस वार्ड में - हाकिमवाड़ा का कुछ भाग , भण्डारी गली का कुछ भाग , कसाई मण्डी का कुछ भाग , मोचीपूरा का कुछ भाग , सोमनाथ मंदिर के सामने का भाग , पुजारी गली , शनि मंदिर चदर वाली पुलिया, चारभुजा मंदिर क्षेत्र इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 38 नगर निगम वार्ड (जनसंख्या - 4613)

- उत्तर - कृष्ण मेडिकल स्टोर से ग्लेमर टेलर्स श्री सतीश पुरोहित के मकान , सत्कार लॉज को शामिल करते हुए नगर निगम कार्यालय को सम्मिलित करते हुए डॉ. निशिकांत शर्मा के मकान तक ।
- पूर्व - डॉ. निशिकांत शर्मा के मकान से हाथीखाना होते हुए मोचीपूरा चौराहे तक ।
- दक्षिण - मोचीपूरा चौराहे से पुराने N.C.C. कार्यालय को शामिल करते हुए सूरजपौर गणेश मंदिर के सामने तक , यहां से भटनागर वकील साहब के मकान की लाईन को लेते हुए M.P.E.B. चौकी तक , M.P.E.B. चौकी को क्रास करते हुए सामने डॉ. दीप व्यास के मकान से श्रीमति मंगला ओझा के मकान की लाईन को शामिल करते हुए किरण टॉकिज के सामने की लाईन को शामिल करते हुए नाहरपुरा चौराहे तक ।
- पश्चिम - नाहरपुरा चौराहे से कृष्ण मेडिकल स्टोर तक ।

(इस वार्ड में - नजरबाग बैंक कालोनी , बाई जी का वास , हाथीखाना का कुछ भाग , मोचीपूरा का भाग , श्रीमालीवास का कुछ भाग , बिहारीलाल मार्ग का कुछ भाग , नाहरपुरा गली नम्बर 1 , छोटी सितलामाता की गली , कॉलेज रोड़ का भाग, नगर निगम कार्यालय इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 39 राजमहल वार्ड (जनसंख्या - 4641)

- उत्तर - नाहरपुरा चौराहा से श्रीमालीवास की दक्षिण लाईन लेते हुए पुरानी कोर्ट बिल्डिंग से सीधे चलकर पैलेस रोड़ नवीन शा.प्रा.वि. तक , नवीन शा.प्रा.वि. से दक्षिण की ओर गणेश मंदिर को शामिल करके सड़क क्रास करके पूर्व की ओर बढ़ते हुए बग्गीखाने को शामिल करते हुए A.P. भटनागर वकील साहब के मकान के सामने से कोने तक ।

- पूर्व - भटनागर वकील साहब के मकान से सामने से कोने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सूरजपौर स्कूल को शामिल करते हुए महल के दक्षिणी बुरन्ज तक (थावरिया बाजार चौराहे तक)
- दक्षिण - महल के पूर्वी बुरन्ज से थावरिया टंकी शामिल करते हुए दक्षिणी बुरन्ज को शामिल करते हुए जानी बाई की धर्मशाला तक, यहां से महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के सामने की लाईन को लेते हुए खेरादीवास मार्ग संगम तक ।
- पश्चिम - खेरादीवास मार्ग संगम से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए दौलतगंज चौराहे तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बाम्बे फोटो स्टुडियो तक , यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जमना पहलवान की दुकान के सामने तक , यहां से पूर्व की बढ़ते हुए अब्दुल शकुर बेण्ड के सामने से सड़क क्रॉस करते हुए उत्तर दिशा में बढ़ते हुए हनुमान मंदिर , पुष्पक मार्केट को शामिल करते हुए नाहरपुरा चौराहे तक ।
- (इस वार्ड में - जूनी कोर्ट परिसर , श्रीमालीवास , पैलेस रोड , जैन कालोनी , बग्गीखाना , कोठारीवास , नागरवास , खिड़की दरवाजा इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 40 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (जनसंख्या -4604)

- उत्तर - रंगरेज रोड गणेश देवरी प्याऊ के सामने से पूर्व की ओर बढ़ते हुए जमनालाल पहलवान मिठाई की दुकान तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए परिवार स्टोर को शामिल करते हुए हमदर्द मेडिकल को बाहर रखते हुए सड़क पार करते हुए गेलड़ा सेव भंडार को शामिल करते हुए पूर्व की ओर आगे चलकर कनकमल जैन के मकान तक ।
- पूर्व - कनकमल जैन के मकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सीतलामाता मंदिर तक , यहां से पश्चिम की ओर पिंजारवाड़ी मस्जिद की लाईन को बाहर रखते हुए सड़क पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए घांस बाजार निखार मार्केट वाली लाईन लेते हुए सायर चबुतरा चौराहा पर मनोहरलाल की होटल के सामने तक ।
- दक्षिण - सायर चबुतरा चौराहा की मनोहरलाल की होटल से रंगरेजो की मस्जिद एवं आराधना भवन को बाहर रखते हुए श्री प्रेम उपाध्याय के मकान के सामने तक ।
- पश्चिम - श्री प्रेम उपाध्याय के मकान के सामने से उत्तर की ओर बढ़ते हुए मोती बाबजी के मंदिर को बाहर रखते हुए एवं कालूमामा कचौरी वाले की दुकान की लाईन लेते हुए चौमुखी पुल चौराहा पार करते हुए नोलाईपुरा रोड समता भवन की लाईन लेते हुए गणेश देवरी प्याऊ के सामने तक ।
- (इस वार्ड में - कन्या शाला रोड , बड़ी सितला माता जी गली , पोरवाड़ों का वास , भरावा गली , छोटी बोहरा बाखल , घांस बाजार , माणक चौक , रंगरेज रोड , नोलाईपुरा का भाग, चौमुखीपुल का भाग इत्यादि शामिल है)

वार्ड क्रमांक - 41 गफूर वार्ड (जनसंख्या - 4777)

- उत्तर - कन्या शाला रोड पर द्विवेदी के मकान से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए थावरिया टंकी को बाहर रखते हुए और दरगाह को अन्दर लेते हुए थावरिया बाजार चौराहे तक बाबुलाल पान वाले तक ।

- पूर्व - बाबुलाल पान वाले की दुकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जगदीश मंदिर को शामिल करते हुए बिचलावास तिराहा कोने तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मुन्ना चक्कीवाले के मकान तक , यहां से मुन्ना चक्कीवाले के मकान के सामने से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रामदेव मंदिर एवं श्रेणिक कोठारी के मकान को शामिल करते हुए कसारी दरवाजा तिराहे तक ।
- दक्षिण - कसारी दरवाजा तिराहे से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सेठजी का बाजार की उत्तरी लाईन एवं काली हवेली को लेते हुए सायर चबुतरा चौराहे मनोहर सेठ की दुकान के सामने वाले मकान तक ।
- पश्चिम - मनोहर सेठ की दुकान के सामने से कलाईगर रोड़ की पूर्वी लाईन को सीमा में लेते हुए घांस बाजार तिराहे से आगे बढ़ते हुए पिंजारवाड़ी रोड़ तिराहा तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दक्षिण साईड की पट्टी लेते हुए अगर जी के मंदिर को शामिल करते हुए सितला माता मंदिर को बाहर रखते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए द्विवेदी के मकान तक ।
- (इस वार्ड में - थावरिया बाजार का कुछ भाग , रामदेवजी घाटी का कुछ भाग , सेठजी का बाजार का कुछ भाग , पिंजारवाड़ी , नाईयों की गली , हटीराम दरवाजा , ईमलीवाली गली , भोयरा बावड़ी , सिन्धियों की गली इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 42 रानीदुर्गावती वार्ड (जनसंख्या -4733)

- उत्तर - आजाद चौक हनुमान मंदिर से सुभाष मावा वाले की दुकान से मिश्रीमल लुणावत के मकान तक , यहां सामने से रोड़ क्रास करते हुए दरगाह एवं चारभुजा मंदिर को बाहर रखते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए चिकनघर कपड़े की दुकान नोलाईपुरा चौराहे तक ।
- पूर्व - सिद्धार्थ ज्वेलर्स से समरथमल गेलड़ा के मकान तक , धर्मकांटा को शामिल करते हुए नोलाईपुरा चिकनघर दुकान से चौमुखीपुल समरथ पहलवान की दुकान को क्रास कर जैन रेस्टोरेंट से मोती बाबजी के मंदिर तक , यहां से सड़क क्रास कर हाथीवाला मंदिर से श्री प्रेम जी उपाध्याय जी के मकान को लेते हुए राम मोहल्ला की पश्चिम लाईन लेते हुए राम मंदिर तक ।
- दक्षिण - राम मंदिर से नन्दूजी दलाल के मकान को शामिल करते हुए रामगढ़ की उत्तरी लाईन लेते हुए शांतिलाल गोंधी के मकान तक ।
- पश्चिम - शांतिलाल गोंधी के मकान से उत्तर की ओर चलकर तिराहे से श्री कन्हैयालाल मोर्य के मकान को शामिल करते हुए रोड़ क्रास करके पश्चिम की ओर चलकर पुरोहित धर्मशाला वाली लाईन को शामिल करते हुए हातिमी मंजिल से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हनुमान मंदिर कोने तक ।
- (इस वार्ड में - धनजी भाई का नोहरा का भाग, चौदनी चौक का भाग, नोलाईपुरा का भाग, चौमुखीपुल का भाग, ताल वालों की गली , कसारा बाजार, राम मोहल्ला, सुनार बावड़ी, हनुमान रुण्डी, भगतपुरी का भाग इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 43 डॉ. सच्यैदना सा. वार्ड (जनसंख्या -5067)

- उत्तर - प्रजापत धर्मशाला की दक्षिण लाईन लेते हुए मकान नम्बरए को लेते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए जाटों का वास सड़क के पीछे दक्षिण दिशा की गली की दक्षिणी लाईन लेते हुए श्री कन्हैयालाल चौधरी के मकान को बाहर रखते हुए यहां से नाले के सहारे-सहारे पश्चिमी दिशा के मकानों को शामिल करते हुए लक्कड़पीठा पुलिया तक।
- पूर्व - नाले के दक्षिण की ओर बढ़ते हुए लक्कड़पीठा पुलिया तक , यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए रोड़ क्रास करते हुए मोटा घी वाला की दुकान तक , यहां से त्रिपोलिया गेट रोड़ की पश्चिमी लाईन लेते हुए बोहरा बाखल की लाईन लेते हुए बैंक ऑफ बड़ोदा की लाईन को लेते हुए आगे त्रिपोलिया गेट पार करते हुए अमृत सागर स्थित त्रिपोलिया चौराहा के कोने तक (मकान तक)
- दक्षिण - त्रिपोलिया गेट चौराहे से कोटा वाला बाग की लाईन लेते हुए नाले की पुलिया तक ।
- पश्चिम - नाले के सहारे-सहारे अन्नक्षेत्र वाली लाईन को लेकर सिलावटों के मंदिर को शामिल करते हुए लक्कड़पीठा तिराहे पर विजयवर्गीय के मकान तक , यहां से लक्कड़पीठा रोड़ स्थित धम्माणी भवन को सीमा में लेते हुए बाजना बस स्टेण्ड चौराहा तक , यहां से उत्तर की ओर चलकर प्रजापत धर्मशाला को शामिल करते हुए उत्तरी सीमा तक ।

(इस वार्ड में - बोहरा बाखल, खान बावड़ी , लक्कड़पीठा का भाग, ईदगाह क्षेत्र इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 44 चोंदनी चौक वार्ड (जनसंख्या - 5006)

- उत्तर - गौशाला बगीचे की लाईन लेते हुए एवं गोपाल गौशाला को बाहर रखते हुए साठघर का नोहरा की लाईन लेते हुए तोपखाना चौराहा तक , यहां से रोड़ क्रास कर बजाज खाना , सेन्द्रल बैंक की लाईन लेते हुए गणेश देवरी चौराहे तक ।
- पूर्व - गणेश देवरी चौराहे से दक्षिण में चलकर करेणी दुध वाले की दुकान तक , यहां से पश्चिम की ओर चलते हुए धनजी भाई का नोहरा की उत्तरी लाईन लेते हुए कलालों की धर्मशाला को शामिल करते हुए यहां से दक्षिण की ओर गली में आगे चलकर दरगाह व चारभुजा मंदिर को शामिल करते हुए चोंदनी चौक मुख्य मार्ग तक ।
- दक्षिण - (धर्मकांटा के सामने) चोंदनी चौक मुख्य मार्ग से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आजाद चौक की दुकानों को शामिल करते हुए वुडक्राफ्ट फर्नीचर एवं इजी शोरूम की लाईन लेते हुए नाले तक ।
- पश्चिम - नाले के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए श्री कन्हैयालाल चौधरी के मकान एवं पांचाल के मकान को गली सीमा से शामिल करते हुए यहां सड़क क्रास कर सामने गली में चलकर प्रजापत धर्मशाला के सामने की लाईन शामिल करते हुए यहां से उत्तर की ओर चलकर गौशाला बगीचे तक ।

(इस वार्ड में - जाटों का वास , गौशाला रोड़ , सुतारों का वास , बजाज खाना , धनजी भाई का नोहरा का भाग, चोंदनी चौक का भाग, नौलाईपुरा का भाग, कुम्हारी कुआं , लक्कड़पीठा रोड़ का भाग इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 45 शिवाजी वार्ड (जनसंख्या -5047)

- उत्तर - हाटरोड़ चौराहा ललित गैस गोडाऊन से मस्जिद की लाईन लेते हुए पुलिस चौकी के सामने तुलसी सदन तक , तुलसी सदन से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए नाज बिल्डिंग एवं संत कबीर स्कूल को बाहर रखते हुए पालीवाल की बगीची तक , यहां से हरिराम कुम्हार का मकान लेकर पूर्व की ओर सड़क क्रॉस कर रामचन्द्र नेका के मकान को लेते हुए कुम्हारों का वास दक्षिण लाईन लेते हुए सड़क क्रॉस कर भाटो का वास की दक्षिणी लाईन लेते हुए हरदेवलाला की पिपली चौराहे पर बाबूलाल माहेश्वरी के मकान तक ।
- पूर्व - हरदेवलाला की पिपली चौराहे से तोपखाना चौराहे पर बंशीसिंह के मकान तक
- दक्षिण - तोपखाना बंशीसिंह के मकान से गौशाला की उत्तरी लाईन लेते हुए रामभवन व गोपाल मंदिर शामिल करते हुए गौशाला की बुरन्ज तक ।
- पश्चिम - गौशाला की बुरन्ज से ललित गैस गोडाऊन हाट रोड़ चौराहे तक ।
- (इस वार्ड में - गौशाला रोड़, वेद व्यास कालोनी का भाग, मराठो का वास, कुम्हारों का वास, तोपखाना रोड़, मंदिना मस्जिद, राजेन्द्र नगर, गौशाला भवन, भाटो का वास का भवन इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 46 संत कबीरदास वार्ड (जनसंख्या - 5912)

- उत्तर - हाट रोड़ मोहनलाल खटीक के मकान से बदीउल इस्लाम मदरसा तक ।
- पूर्व - बदीउल इस्लाम मदरसा से नयापुरा सड़क के पश्चिमी लाईन से नाले तक , नाले के पास सड़क के सहारे-सहारे मोमिनपुरा क्रॉसिंग तक ।
- दक्षिण - मोमिनपुरा क्रॉसिंग से पश्चिम की ओर चलकर हरिराम कुम्हार के मकान के सामने भेरूलाल सालवी के मकान तक ।
- पश्चिम - भेरूलाल सालवी के मकान से पालीवाल बगीची को बाहर रखते हुए संत कबीर व नाज बिल्डिंग को लेते हुए हाट रोड़ मोहनलाल खटीक के मकान तक ।
- (इस वार्ड में - हाटा रोड़ , बरगुण्डों का वास , हरिजन बस्ती , नयापुरा का भाग, फकीरों का वास इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 47 मोमिनपुरा वार्ड (जनसंख्या -4700)

- उत्तर - डॉ. सूभेदार के खाली पड़े प्लॉट से प्रारंभ करते हुए पूर्व की ओर चलकर डॉ. रियाज गफ्फार खान मंसुरी के मकान को बाहर रखते हुए सड़क तक , यहां से दक्षिण ओर दिलीप भंडारी के मकान को बाहर रखते हुए यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए अंकुर अस्पताल को शामिल करते हुए यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिनेश सरोज चौधरी के मकान को शामिल करते हुए यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए एम.डी. चौधरी के मकान को शामिल करते हुए व प्रवीण झालानी के मकान को शामिल करते हुए एवं पूर्व की ओर बढ़ते हुए मकान नम्बर 75 को सीमा में लेते हुए यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सुनिकेत अपार्टमेंट , अपूर्वा अपार्टमेंट को सीमा में लेते हुए व दरगाह को बाहर रखते हुए दिनदयाल चौधरी के मकान तक ।

पूर्व - दिनदयाल चौधरी के मकान , कालुराम विच्चा के मकान को बाहर रखते हुए वैभव विला को सीमा में लेते हुए आबकारी चौराहे तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए लौहार रोड़ पश्चिमी लाईन लेते हुए हरदेवलाला की पिपली तक ।

दक्षिण - हरदेवलाला पिपली चौराहे से भाटों के वास के उत्तरी मकानों की लाईन लेते हुए मोमिनपुरा सड़क क्रॉस कर करीम चौधरी के मकान तक ।

पश्चिम - करीम चौधरी के मकान से नयापुरा की पूर्वी लाईन लेते हुए हाट रोड़ पुलिया ईस्लाम मदरसा के सामने , कसाई मण्डी मस्जिद की लाईन लेते हुए हाट रोड़ सड़क पार करके पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पुरुषोत्तम बाग , 168 (सीमेन्ट गोडाऊन) को सीमा में लेते हुए व मुमताज हुसैन के मकान को बाहर रखते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए डॉ. सुभेदार के खाली प्लाट तक ।

(इस वार्ड में - वेद व्यास कालोनी के मकान , मोमिनपुरा , भाटों का वास का भाग, लौहार रोड़ , कसाई मंडी , नयापुरा का भाग, माण्डली चौहारा का भाग, हाट रोड़ इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 48 महर्षि वेदव्यास वार्ड (जनसंख्या - 5538)

उत्तर - श्रीकृष्ण टॉकिज के उत्तरी कोने से काटजू नगर को बाहर रखते हुए मिशन कम्पाउण्ड की बाउण्ड्री के सहारे-सहारे चर्च को शामिल करते हुए व्यास बेकरी के पीछे तक ।

पूर्व - व्यास बेकरी के पीछे से मिशन कम्पाउण्ड को सीमा में लेते हुए व सैलाना बस स्टैण्ड को बाहर रखते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए शहर सराय मस्जिद व नित्यानन्द मार्केट को सीमा में लेते हुए हासम भाई के मकान शहीद चौक तक ।

दक्षिण - हासम भाई के मकान से शहीद चौक फव्वारे को बाहर रखते हुए हासम भाई के मकान को सीमा में लेते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आबकारी चौराहा , यहां से कालुराम विच्चा के मकान को सीमा में लेते हुए और वैभव विला को बाहर रखते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिनदयाल चौधरी के मकान के सामने तक , यहां से दिनदयाल चौधरी के मकान को सीमा में लेते हुए ऊर्वशी व सुनिकेत अपार्टमेन्ट को बाहर रखते हुए व दरगाह को सीमा में लेते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए मकान नम्बर 75 के सामने तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए डॉ.एम.डी. बौरासी को शामिल करते हुए व दिनेश सरोज चौधरी के मकान को बाहर रखते हुए अंकुर अस्पताल तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अंकुर अस्पताल को बाहर रखते हुए दिलीप भंडारी व डॉ. रियाज गफ्फार खान मंसुरी के मकान को सीमा में लेते हुए आशीर्वाद नर्सिंग होम के खाली प्लाट के कोने तक , यहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जय मेडिकल व मुमताज हुसैन के मकान को शामिल करते हुए व पुरुषोत्तम बाग 168 (सीमेन्ट गोडाऊन) को बाहर रखते हुए हाट रोड़ तक , यहां से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हाट रोड़ पर विनोबा स्कूल व मदिना मस्जिद को बाहर रखते हुए व पुलिस चौकी को सीमा में लेते हुए मदिना मस्जिद तिराहे तक ।

पश्चिम - मदिना मस्जिद तिराहे से उत्तर की ओर बढ़ते हुए पालीवाल दाल मिल व श्रीकृष्ण टॉकिज को शामिल करते हुए श्रीकृष्ण टॉकिज के उत्तरी कोने तक ।

(इस वार्ड में - श्रीकृष्ण टॉकिज क्षेत्र , निर्मला भवन , वेदव्यास कालोनी , मिशन कम्पाउण्ड , चर्च , नित्यानन्द मार्केट , गोंछियो का वास , सुरज हॉल , खटीक मोहल्ला , हाट रोड़ इत्यादि शामिल है ।)

वार्ड क्रमांक - 49 महर्षि दयानन्द वार्ड (जनसंख्या - 4636)

- उत्तर - रेवाशंकर पंड्या के मकान आबकारी चौराहे से ब्राह्मणों का वास को सीमा में लेते हुए शहीद चौक फव्वारे को सीमा में लेते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रानीजी का मंदिर को सीमा में लेते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए नाहरपूरा चौराहे तक रतलाम इलेक्ट्रिकल्स के कोने तक ।
- पूर्व - रतलाम इलेक्ट्रिकल्स के कोने से मित्तल ट्रेडर्स को शामिल करते हुए डालूमोदी बाजार चौराहे तक ।
- दक्षिण - डालूमोदी बाजार चौराहे से किंग वॉच कम्पनी दुकान व राजस्थान साड़ी सेन्टर दुकान को शामिल करते हुए गणेश देवरी चौराहे तक , यहां से सड़क क्रॉस करते हुए क्लाय मर्चेन्टएसोसिएशन को शामिल करते हुए तोपखाना चौराहे तक ।
- पश्चिम - तोपखाना चौराहे से उत्तर की ओर बढ़ते हुए रेवाशंकर पंड्या की दुकान को शामिल करते हुए आबकारी चौराहे तक ।
- (इस वार्ड में - ब्राह्मणों का वास , रानीजी का मंदिर , देवीसिंह की गली , रंगरेज रोड़ , काशीनाथ का नोहरा , लोहार रोड़, नीम चौक , बजाज खाना का भाग इत्यादि शामिल है ।)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, आयुक्त.

क्र.14/परिसीमन-रतलाम/2020/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 14/ परिसीमन-रतलाम/2020/दिनांक 05 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, आयुक्त.

OFFICE OF COMMISSONER UJJAIN DIVISION JAJJAIN (M.P.)

Ujjain, the 05th February 2020

No. **163**/Delimitaion - Ratlam /20209 In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520 XVIII- 3-04, Dated 24 th Fabruary 2004 of of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Ajeet Kumar Commissioner Ujjain Division, Madhya Pradesh Under Section 10 (1) of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Ratlam as per Schedule below :-

SCHEDULE

II

Ward No	Ward Name	Ward No	Ward Name
1	Gandhinagar Ward	26	Thawariya bazaar Ward
2	Laxmanpura Ward	27	Haakimwada Ward
3	Rajiv Gandhi Ward	28	Anand Colony Ward
4	Indira Gandhi Ward	29	Bhaktan ki Bawdi Ward
5	Devara Narayan Nagar Ward	30	Babu Jagjeewanram Ward
6	Dr. Vinoba Bhawe Ward	31	Pt. Motilal Nehru Ward
7	Indralok Nagar Ward	33	Lal Bahadur Shastri Ward
8	Sudama Ward	33	Lokendra Bhawan Ward
9	Alkapuri Ward	34	Jawahar Ward
10	Rajgarh Ward	35	Dr. Rajendra Prasad Ward
11	Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward	36	Dr. Zakir Husain Ward
12	Pt. Premnath Dongre Ward	37	Maulana Azad Ward
13	Kasturba Ward	38	Nagar Nigam Ward
14	Dr. Ambedkar Ward	39	Rajmahal Ward
15	Dr. Kailashnath Katju Ward	40	Maharani Laxmibai Ward
16	Subhash Ward	41	Ghafoor Ward
17	Dr. Radhakrishnan Ward	42	Rani Durgawati Ward
18	Khetalpur Ward	43	Dr. Syeedna Sa. Ward
19	Tamboliabagh Ward	44	Chandni Chowk Ward
20	Pt. Deendayal Upadhyaya Ward	45	Shivaji Ward
21	Silawatwas Ward	46	Sant Kabir Ward
22	Bhagatpuri Ward	47	Mominpura Ward
23	Ramgarh Ward	48	Maharishi Vedvyas Ward
24	Sayar Chabutra Ward	49	Maharishi Dayanand Ward
25	Mali Kuan Ward		

Ward No. 01 Gandhinagar Ward (Population - 5708)

- North** Moving eastward along the boundary of Ratlam city, up to the railway line.
- East** Moving Southward along the railway line, keeping out Shiv Shankar Colony and Prakash Nagar, up to Jaora road railway crossing, from here proceeding toward the South, parallel to the Railway line up to Chhoti Maal Godaam, from here turning towards West crossing the road up to the Maal Godaam, from here parallel to the broad gauge railway line, moving toward South West up to the Dat Ki Puliya, from here proceeding towards North parallel to the road up to the crossroad of the Junior Institute
- South** Moving towards West from the crossroad situated opposite the Railway Junior Institute, up to the Retired Colony road trijunction, thereafter, proceeding along the road in North up to the Central Bank trijunction, from here, moving towards West, including Central Bank and excluding kalali, up to the house no. 103 of Mrs. Vimal Devi Padol, from here including house no. 103 of Mrs. Vimal Devi, the peepal tree and the well and up to the house no. 168 of Mr. Champalal Tank situated opposite them, thereafter, including Champalal Tank's house and the Manzoor's situated facing the St. Stephen School up to the St. Stephen school and then moving west along the St. Stephen school and the road including St. Stephen school up to the puliya near Gujrat Manglik Bhawan
- West** From the puliya near Gujrat Manglik Bhawan excluding the Devanarayan temple, along the Nullah and the boundary of Shimla Colony excluding Rail Nagar, Mahesh Nagar, up to the Nullah. Hereafter, along the Nullah, including Shiv Nagar, the house of Mr. Mithilesh at ShivNagar and Shanti Public School, excluding the houses of Shriram Chemicals and including Maalpaani Traders up to the main road of the Industrial Area, thereafter moving towards North, excluding the Mangalya Mandir Parisar up to the boundary of Ratlam city.

(In this Ward Industrial Area, Gandhi Nagar, Shiv Nagar, Shimla Colony, part of Malwa Nagar, Retired Colony etc. are included)

Ward no. 02 Laxmanpura Ward (Population - 5316)

- North** Excluding the house of Madanlal Gomey situated at the main road of Indra Nagar and including the house of Imdad Abrar, going eastward up to Pakiza Manzil and from here up to Noorani Mosque including pakiza Manzil, and going toward West including Noorani Mosque up to the house of Jamil Hasan Khan, and hereafter moving towards South, including the house of Jamil Hasan Khan and excluding the house of Rajendra Poul up to the Gali behind the garden of Guard Colony, thereafter going eastward along the galli up to the plot of Mr. Mishra and from here including the plot of Mr. Mishra, going toward North up to the house no. 103 of Mrs. Vimal Devi Padoley, hereafter going towards East keeping out the house of Vimla Devi Padoley and including Kalali and the house of Nazeer Mohd. Sheikh and excluding the Central Bank of India up to the Retired Colony trijunction
- East** From the Retired Colony trijunction, excluding the Central Bank of India and including the house of Rai Saheb Laxman Singh ji up to the Tiraha, hereafter

- turning East up to the crossroad situated opposite the Railway Junior Institute, then moving southward along the road up to the Dot ki puliya
- South** From the Dot ki puliya along the railway line up to the last house of the Harijan basti, then up to Nandu Doodh Bhandar excluding the house of Lokendra Nagdey, hereafter going westward excluding the house of Mrs. Manjulata Upadhyay up to the house of Ramgopal Sita Ram.
- West** Moving towards North from the house of Ramgopal Sita Ram, excluding Hanuman Temple up to the house of Chunni lal, from here along the Nullah moving westward, including Ekta marriage Hall and the house of Imdad Abrar up to the house of Imdad Abrar.

(In this Ward, Harijan Basti, Part of Malwa Nagar, Laxmanpura, houses of TIT Sailana Yard etc. are included)

Ward no. 03 – Rajiv Gandhi Ward (Population - 4874)

- North** From the Lohe ka Pul (iron bridge) going eastward, keeping out the Ambe Maata temple double storey quarter line up to the house of Dr. Somtiprasad Som
- East** From the house of Dr. Somtiprasad Som going towards South, up to the house of Mr. KK Singh. From the opposite of this house going across the Nullah, including the house of Champa Bai going eastward up to the house of Chunni lal, hereafter including the house of Chunni lal moving towards South up to the Dargah and the house of Ramgopalji, then going towards East including the Dargah up to Nandu Doodh Bhandar. From here moving towards South including the house no. 66/1 of Lokendra Nagdey up to the boundary railway line
- South** Including the godown of Vyasji Pattharwala from the house of Nagdey up to the puliya of Gomdadey.
- West** Along the Nullah from the puliya of Gomdadey and the puliya of Indian oil up to the Lohey ki pul

(In this Ward, Jawahar Nagar E X Quarter, C Colony, Janata Quarter, houses of TIT Indira Nagar, part of Malwa Nagar, P and T Colony etc. are included)

Ward no. 04 – Indira Gandhi Ward (Population - 4596)

- North** Taking the house no. B -02 on the Shamshan road in, including Ramdas Public School and St. Rose Mary school, turning towards East from the house of Nagesh Verma, along the Nullah opposite Shri Ram Bhawan up to the puliya in front of Gujrat Manglik Bhawan
- East** In front of St. Stephen school, going across the road including the godown of Harsh Singhal up to the house of Raju Surana, hereafter going ahead, including the house of Dinesh Swami up to the galli in the South behind the house of Surendra Varma.
- South** Including Surendra Verma's house, excluding Gori Shankar's house in the galli, up to Munna Lal's house, hereafter going towards North, excluding Jamila Bai's house and Noorani Mosque up to Fatima Manzil, from here

moving towards West including Madan Lal Gomey's house up to the Nullah moving westward from the main road of Indira Nagar, including Shyam Vyas' house up to the corner of Bima Hospital.

West Proceeding towards North from the Bima Hospital, including Ganesh Kirana at Jawahar Nagar, up to the house no. B 02 on the Shamshan road.

(In this Ward, Malwa Nagar, Guard Colony, Indira Nagar, backside of the Bima hospital, houses of Jawahar Nagar, Vardaan Nagar Sector 01 and 02 etc. are included) *

Ward no. 05 Devara Narayan Nagar Ward (Population - 4558)

North Moving towards East from the corner of Globus city on the tanker road up to the corner of Globus Colony

East Proceeding towards South from the North corner of Globus Colony, including Ambika Nagar, Vinoba Nagar jhuggi jhopdi, Taj Mohd. Vakil's house and taking in the Devra Narayan Nagar tank in the East direction and including Badri Colony up to the Nullah, hereafter moving towards South, including Devanarayan temple and Anmol Nagar up to Shri Ram Bhawan along the Nullah.

South Going across the road from the ShriRam Bhawan going forward in the West, excluding Shri Nagesh Verma's house and St. Rose Mary School proceeding further towards West excluding Ramdas Public School up to the corner of Jawahar Nagar Shamshan along the Nullah.

West Proceeding towards North from the corner of Jawahar Nagar Shamshan, including shamshan and MIG Colony up to maata ji temple at Vinoba Nagar, hereafter including Ambika Nagar globus new- old Colony, and water tank at globus Colony up to the Tanker road.

(In this ward, Indira Nagar, Devara Narayan Nagar, Badri Colony, Anmol Nagar, Vinoba Nagar, new and old Globus Colony, Vinoba Nagar MIG, Vinoba Nagar C Colony, part of Mahesh Nagar etc. are included)

Ward no. 6 – Dr. Vinoba Bhawe Ward (Population - 4696)

North Moving towards East from the corner of New Globus Colony up to the corner of Industrial Area factory from here moving southward up to the South corner of the factory, hereafter excluding Maalpaani Traders and taking in the houses of Shriram Chemicals and proceeding towards East excluding Shanti Public School and Mithilesh's house, excluding Shiv Nagar jhopdi and RailNagar along the nullah, including Mahesh Nagar up to the boundary wall of Shimla Colony.

East Moving towards South along the boundary wall of the Shimla Colony, taking in RailNagar and Mahesh Nagar up to the corner of Badri Colony

South Moving towards West from the corner of Badri Colony, including Sagar Mansion up to the house of Chandra Prakash Bairagi, hereafter keeping the house of Chandra Prakash Bairagi and Kiran Smriti Vidya Mandir in the Ward, excluding the boundary of Devara Devnarayan Colony and tank, up to Jagannath Jethani's house, including Jagannath Jethani's house and excluding Sitara Khan's house up to the corner of Maataji temple. Hereafter moving towards West excluding Vinoba Nagar MIG and Shiv Mandir and Shamshan up to the Shamshan

West Moving towards South from North corner of Globus Colony, excluding Ambika Nagar, Vinoba Nagar jhuggi jhopdi, including RamNagar, Surya Dev Nagar, gas godown, excluding Taj Mohd. Vakil's house up to the corner

(Mahesh Nagar, Indira Nagar, RailNagar, RamNagar etc. are included in this ward.)

Ward no. 7 – Indralok Nagar Ward (Population - 4678)

North From the corner of New Globus Colony up to the corner of Nehru Nagar along the kachcha road connecting Rajgarh

East Moving towards North including M.P. Electricity Distribution Company Grid and tank of Vihar Colony and excluding Mahesh Chandra's house no. A/176 from Jawahar Nagar muktidham up to house no.100. Hereafter moving towards East including house no. 99 and 77 at Vinoba Nagar, then moving towards West up to the corner of Old Globus Colony. Hereafter moving towards North along the boundary of Old and New Globus Colony and excluding New Globus Colony up to the west corner of New globus Colony

South From the corner of Dholawad office up to Jawahar Nagar muktidham

West Moving towards South from the corner of Nehru Nagar and excluding Morning Star School and taking in Indra Lok Nagar, East line of Rajiv Nagar along the road of Indralok Nagar up to the corner of Dholawad office

(Indralok Nagar (eastern part), Poonam Vihar, Rajiv Nagar, New Rajiv Nagar, New Indralok Nagar, Ganesh Nagar, Dholawad office, Mangal Vihar Colony, Gokuldham Colony, etc. are included in this ward)

Ward no.08 – Sudama ward (Population - 4763)

North Moving towards East from government toilet excluding Alfa Gas godown, up to the corner of Nehru Nagar

East From the corner of Nehru Nagar moving towards South, including Nehru Nagar, Baneshwari Nagar, Morning Star School and keeping out the East line of Indralok Nagar at the road leading to the Industrial Area up to Gokul Doodh Dairy

South Including northern line of Alkapuri C Colony moving towards West from Gokul Doodh Dairy up to house no. C 35. From here moving towards North, excluding Jeet Nagar heading North from here up to the house of Shri Panchal R.I.

West Keeping the Hanuman temple out, taking Mr. Panchal's house in the border, heading North and taking the Radha Krishna temple in the border up to Government toilet situated in front of Alfa gas godown

(Nehru Nagar, Baneshwari Colony, northern line of Indralok Nagar, Alkapuri C Colony, Janata Nagar, Morning Star School naya, part of Rajgarh, Vishnu puri, Vishwakarma Mandir, etc. are included in this Ward)

Ward no. 09 –Alkapuri ward (Population - 4912)

- North** Heading East from the North-West corner of Sun City Colony on Sailana road, excluding Komal Nagar up to Rajgarh naya gaon main road, and from here heading South, including Meharban Singh's kirana shop moving towards East up to Indralok Nagar main road
- East** Heading southwards from Gokul dairy including Ashok laundry up to the trijunction on Dholawad office road
- South** Excluding Industrial Training Institute and the Mahila Police Station, heading towards West from Dholawad office trijunction upto Sailana road main road
- West** Heading towards North on Sailana road mukhya maarg opposite Mahila Police Station up to Mohan Lal Chaudhary's house no. 138 and moving northwards from here and including Sun City Colony and jhuggi jhopdi of Tagore Colony up to the northern border of Suncity Colony
- (Alkapuri A, B, C Colony, duplex, Sun city Colony, Tagore Colony, Tagore Colony jhuggi jhopdi, Jeet Nagar, Indrapuri, etc. are included in this ward)

Ward no. 10 – Rajgarh ward (Population - 4597)

- North** Along the Sailana road border, heading towards East including Ganga Sagar and Navin housing board and Ganga Sagar reservoir up to eastern corner of the Maangalya temple
- East** Proceeding towards South from the eastern corner of Maangalya temple, keeping the JVL temple in the border up to the kachcha road of industrial area. From here along kachcha road, keeping New Globus Colony out and keeping Alfa gas godown in the border up to Rajgarh Primary School. From here moving towards South including western line of Rajgarh up to the boundary of Sun City Colony
- South** From Sun city Colony on Sailana road excluding Sun city Colony from the North western corner, including komal Nagar heading west up to the corner of sun city Colony
- West** Along the Sailana mukhya maarg road excluding Sun City and including Komal Nagar, Nirala Nagar, Gangasagar Nagar up to Sailana road Nagar boundary

(Ganga Sagar, Nirala Sagar, Komal Nagar, Ganesh Nagar, Mahesh Nagar, Narayan pehalwan ki chawl, Shiv Nagar, Raj bagh, Anjani dhaam, Radhika residency, Sajjan Vihar Colony, Professor Colony, Ganga Sagar housing board Colony, etc. are included in this ward)

Ward no.11 – Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward (Population - 6305)

- North** From the corner of the North western city border, along city border heading East up to Sailana road Arvind Auro Ashram
- East** Heading South from Arvind Auro ashram Sailana road up to Rathore restaurant, barbad temple

- South On 80 ft road, keeping Sai Shri Academy school and Ridhaan hospital out, along Mukherjee Nagar main road including Mukherjee Nagar up to the corner of BSNL office godown
- West From the BSNL office godown, along the nullah and keeping BSNL office godown and Mansarover up to North western corner of city border

(Barbad Gaon, Trilok Nagar, Tirupati Nagar, Ratnpuri, Karmchaari Colony, Mukharji Nagar, Viriya Khedi, Ayodhya Basti, Suyog Parisar, Surbhi Parisar, Mangal Murti, Shubh Laabh Colony, Sneha Nagar, Dipak Nagar, Marine Drive, Gaur Ghrih Nirmaan etc are included in this Ward)

Ward no. 12 - Pt. Premnath Dongre Ward (Population - 6235)

- North Along the Nullah near Dongre Nagar Teja Ashram, including Masarover Shiv temple campus, keeping BSNL godown in, along the Nullah, and keeping The government toilet and water tank of Mukherjee Nagar out, proceeding eastwards up to the crossing at Mukherjee Nagar and Shakti Nagar
- East Heading South from the Mukharji Nagar and Shakti Nagar road junction, including priya darshani Nagar, part of shakti Nagar, and shiv mandir and keeping Adarsh Nagar, patwari Colony and part of shakti Nagar out, up to kasturba Nagar main road. From here keeping the house no. 635 and Ram public school out, including the houses of Kushwah and Parag sir up to MB Nagar railway line
- South Moving towards West along the railway line, keeping Subhash Nagar railway crossing out, up to railway crossing
- West Along the Nullah opposite subhash Nagar railway crossing (faatak), keeping dugdh sheet Kendra, aadiwasi chhatrawas, CHL hospital, jain smarak out, up to the puliya of Dongre Nagar road

(Priya Darshni Nagar, Part Of Shakti Nagar, Takshila, Bank Colony, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Mohan Nagar, Dongre Nagar, Riddhi Siddhi Colony, Vrindavan Multistory, Ratlam Public School, Sant Kanwar Ram Nagar, Bapu Asaram Nagar, Yogi Vihar Pradhikaran Ki Colony, Balaji Township, Shubham Shri Colony, Commerce Colony, Kasturba Grah Nirman, Subhash Grah Nirman, Tulsi Nagar, Vidya Vihar, Siddharth Nagar, Manish Nagar, Part Of Mb Nagar, Telephone Nagar, Bank Colony, Gaur Grah Nirman Colony, Maahi Vihar, Part Of Sundar Van Colony, Madhuvan Colony, Siddhanchl Colony Shringi Nagar etc are Included In This Ward.)

Ward no. 13 – Kasturba Ward (Population -6234)

- North Heading eastwards from the shakti Nagar and Mukharji Nagar maarg sangam, excluding karmchari Colony, taking Ridhan hospital, kalpatru Colony and Sai Academy in the border up to Ratnapuri 80ft road, from here heading North up to 80ft road Tiraha. From here moving eastwards, excluding ratnapuri up to the corner opposite Rathore restaurant on Sailana road
- East In front of the Rathore restaurant on Sailana road heading South taking western border upto Sailana over bridge railway line.

- South** Along the broad gauge railway line from railway over bridge upto the corner of MB Nagar
- West** Heading North from the MB Nagar corner up to Parag sir's house . Going ahead keeping parag sir's out up to MB Kushwaha's house. from here including Bairagi patwari's house up to the house no. 552 of Mahesh Teliyani at the corner of road no 08, from here heading North including Ram public school up to D.R. Chhadi dar's house no. 635 on kasturba Nagar main road, from here along the shakti Nagar main road, moving towards North including patwari Colony adarsh Nagar up to karmchari Colony Mukharji Nagar road
- (Sajjan Mil Mukhya Maarg, Pashchim Line, Rajiv Nagar, Kasturba Nagar, Mb Nagar, BSNL Karyalay, Chrastian Qabristan, Central Plaza, Balaji Central, Shubham Vihar Colony, Shubham Parser, Adarsh Nagar, Patwari Colony, Part Of Shakti Nagar, Sajjanmil Andar Ki Chawl, Kalpatru, etc. are included in this ward.)

Ward no. 14 – Dr. Ambedkar ward (Population - 6359)

- North** Heading East from Sailana road, including ITI campus up to the front of dholawad office.
- East** Heading South from the corner of dholawad office, keeping ganesh kirana out upto the corner in front of Bima hospital, from here proceeding towards west, covering Ambe maataji temple up to lohey ki puliy going across the road from the puliya, along the nullah heading South up to gomdade bridge on indian oil road.
- South** Moving towards west from the Gomdade bridge including indian oil up to Sailana over bridge
- West** Heading North from Sailana over bridge, covering Ram mandir and keeping sajjanmil out up to Mahila police station

(Ambedkar Nagar, Jawahar Nagar B Colony, Vinoba Nagar LIG And Sakhwai Nagar, Harijan Basti, Jawahar Nagar A And B Colony, Jawahar Nagar MIG Housing Multy, Rang Karkhana, ITI Parisar, Van Vibhag Parisar, Housing Board new Colony, Kanya School, Ambe Maata Mandir, Housing Board Karyaly etc. are included in this ward)

Ward no. 15 –Dr. Kailashnath Katju Ward (Population - 5470)

- North** Along the railway line from the back of the subhash Nagar samudayik Nagar up to Sailana over bridge cabin
- East** Covering the line of Shram shivir from the Sailana road over bridge up to the waiting building at Sailana bus stand
- South** Along border of mission compound, covering Sailana bus stand waiting building up to Katju Nagar border behind shri Krishna talkies, heading South from here, covering the house in front of Madina Masjid going ahead in the west up to Shubham STD shop
- West** Moving towards North from Shubham STD shop covering the line of Sanjay Kuljhale's house, keeping community bhawan out, up to railway line.

(Katju Nagar, part of Subhash Nagar, TIT houses, part Haat Road, Aamliya Bheru, Shramshiver etc are included in this ward)

Ward no. 16 – Subhash Ward (Population - 5606)

North	From the railway gate along the track up to the community centre
East	Heading South from the community centre, crossing dal mil chauraha up to the corner of Hanuman mandir
South	From the corner in front of Suryamukhi Hanuman mandir heading west Covering the line of Irfan khan's (P.A.) house, turning North at the corner of Mushtaq Khan's house and keeping the houses built against the boundary of qabristan up to the main road
West	From the opposite of Husaini Bai's house no. 123 on main road up to railway gate, excluding qabristan

(complete Subhash Nagar, jhuggi jhopdi, TIT houses, naath gali northern line etc are included in this ward)

Ward no. 17 – Dr. Radhakrishnan ward (Population - 6112)

North	From the Dargah of Chhotu Badsah to subhash Nagar railway gate, taking hayat Nagar in and covering the southern line of the gali of nath mohalla up to Suryamukhi Hanuman mandir
East	Heading South from suryamukhi Hanuman mandir, covering western line of Bavadi up to Bajna bus stand.
South	heading west from the the chauraha of Bajns bus stand up to Jain Higher Secondary School and from here heading South crossing bajna road and taking Smriti Balmandir in the border, moving towards South from the street nearby to the Buddheshwar main road and heading west from here covering Bhil dharmshala, gopal Nagar, excluding sainik Colony, dheeraj shah Nagar up to Ishwar Nagar railway gate
West	Along the railway line from the Ishwar Nagar railway gate to subhash Nagar railway gate

(Naath Mohall Southern Line, Rajendra Nagar, Patel Colony, Kalim Colony, Hayat Nagar, Bhaambhi Muhalla, Khan Bavdi Road Eastern Line, Gopal Goshala Colony, Bhil Dharmshala, Bohra Qabristan, Teacher Colony etc are included in this ward)

Ward no. 18 – Khetal Pur Ward (Population - 6218)

North	Along the nullah in front of subhash Nagar railway gate covering dugdh sheetal Kendra, Jain Smarak, CHL hospital, Aadivasi chhatrawas, excluding Dongre Nagar to the bridge (puliya) of the drain at Dongre Nagar Teja Ashram, from here along the drain to the drain behind the Ranjit Hanuman mandir
-------	---

East	Heading South Along broad gauge railway line from Subhash Nagar railway gate to the city limit
South	Along the Nagar seema from the South eastern Nagar seema to South western Nagar seema
West	Along the drain (nullah)from the South western Nagar seema to the Ranjit Hanuman mandir bridge (puliya)

(Khetalpur Gaon, Ishwar Nagar, Hammal Colony, Ram Rahi Nagar, Van Vibhag Parisar, Utkrisht Vidyaly Parisar, Dugdh Sheetal Kendra, Jain Smarak, CHL Hospital, Aadivasi Chhatrawas, Champa Vihar, JMD Garden, Jalsa Garden, Dhakad Dharm Shala etc are included in this ward)

Ward no. 19 – Tambolia Bagh Ward (Population - 6255)

North	Heading East from Ishwar Nagar railway gate, excluding Gopal Nagar, Bhil dharmshaala on buddheshwar road to the street near Smrati Balmandir .from here moving towards North from the street near smrati balmandir to the bajna road mukhya maarg, from here taking South line in to the purana yatri pratikshalay of bajna bus stand
East	Including Narsingh mandir from the corner of the yatri pratikshalay (passenger waiting room), crossing the road heading South and including western part of amritsagar marg to sub-engineer shri Kamlesh Chauhan's house at Deendayal Nagar
South	heading west from Manoj Govind's house at Tata Nagar, including Tata Nagar, shanti niketan school, sainik Colony ,dheeraj shah Nagar and excluding deendayal Nagar to broad gauge railway line
West	Along the broad gauge railway line upto Ishwar Nagar railway level crossing .

(Dheerajshah Nagar, Sainik Colony,Tata Naga, Shanti Niketan, Buddheshwar Mandir etc are included in this ward.)

Ward no. 20 – Pt. Deendayal Upadhyay ward (Population - 6252)

North	Including broad gauge railway line deendayal Nagar and keeping dheerajshah Nagar, sainik Colony and tata Nagar out to the tamrind (IMLI) tree at amrit sagar road
East	heading South from the tamrind (Imli) tree to the main road of deendayal Nagar.
South	keeping amritsagar TIT Colony out from the main road, keeping Hanuman bagh, saifi Nagar, shriNagar, Neminath Nagar, Rishabhdev Nagar outside up to the Hanuman bagh's amritsagar road corner,from here including gavli shamshan, qabristan, and including Ishprem basti, porwal Nagar, Amakin Saifiya up to morwani level crossing.

West Along railway heading North from morwani level crossing to the North western boundary

(Deendayal Nagar (Jhuggi Jhopri)Deendayal Nagar Ka Sampurn Bhag Himmat Nagar, Sai Mandir, VIP Nagar, Oswal Nagar, Porwal Nagar, Shivaji Nagar, Ishprem Basti, Aamkin Saifiya (Globus Gold City)Himmat Vihar, Siddhi Vinayak Colony, Oswal Nagar Sai Residency, Bada Qabristan etc are included in this ward)

Ward no. 21 – Silawatwas Ward (Population - 6215)

North going straight from the Durgashankar's house no. 64 on Lakkadpeetha road, to Gulabchand's hotel at bajna bus stand

East moving towards southwards from the Durgashankar Khati's house no. 64, excluding badri Colony, annkshetra, to Amritsagar bada bridge parallel to the drain.

South heading west from the Amritsagar bada bridge, excluding Amritsagar pond, and garden up to the garden trijunction, heading South from here up to the corner of the garden.

West including Amritsagar Colony, Hanuman bagh, Shri Nagar, Rishabdev Nagar, Saifi Nagar, Neminath Nagar, from the corner of Hanuman bagh and excluding Gavli shamshan, Siddhi Vinayak Colony, Deendayal Nagar B and C sector up to the corner of the entrance of the deendayal Nagar main road.

(Lakkad Peetha, Silawato Ka Vas, Amritsagar Talab Road, Harijan Basti, Gavli Mohalla, Saifi Nagar, Shri Nagar, Neminath Colony, Rishabdev Nagar, Hanuman Bagh, TIT Amritsagar Colony etc are included in this ward)

Ward no. 22 – Bhagatpuri Ward (Population - 6229)

North Heading East including amritsagar garden, and the pond from amritsagar garden Tiraha and excluding Kotawala bagh area to the Tripolia gate chauraha. Proceeding towards Bhagatpuri from here excluding Goyal kirana and moving towards Ramgarh masjid including Leela Bai Chaudhri's house, up to the corner of the Masjid

East Heading South from the corner of Ramgarh masjid up to the Kamala Bai Devilal Jaiswal's house on the Teli road Tiraha, from here heading west excluding Devlamata mandir, moving towards Triveni shamshan Ghat excluding Sanvaliya Seth Kripa Bhawan, including gowshala and pehalwan's house and then excluding shamshan and Triveni kund up to South eastern Nagar boundary

South from the corner of the South eastern Nagar seema and parallel to it to the corner of South western Nagar seema

West parallel to dholawad road from the corner of the South western Nagar seema including RamNagar and Bheru garh up to Amritsagar road Motisagar Chauraha. heading North from here keeping Hanuman bagh mandir and amritsagar TIT Colony out up to Amritsagar garden Tiraha

(some part of Bhagat Puri, Teli road, Shamshan Road Kshetra, Bherugarh, Ramnagar, Triveni Road Kshetra, Sant Nagar, Kalian Nagar, Moti Nagar, Adarsh Kalian Nagar, Dongre Dham Colony, Karn Nagar etc are included in this ward.)

Ward no. 23 – Ramgarh ward (Population - 6112)

North	From Hatim manzil on Tripoliya road, excluding Purohit Dharmshala and from here crossing the road excluding shri Kanhaiya Lal Morya's house, including Ganesh temple to Shanti Lal's house. Heading East from here and excluding Shanti Lal's house up to the Brahman gali Tiraha
East	From the Brahman gali Tiraha including western line of Brahman gali up to the Telis' road. Heading East from here up to chamariya naka tiraha, from here moving ahead towards South via the karamdi road up to the corner of South eastern Nagar seema
South	Parallel to Nagar seema from the South eastern corner of Nagar seema to South western corner of Nagar seema
West	Heading North from the southeastern corner of the Nagar seema including Triveni kund and shamshan and excluding Sant Nagar and Gowshala up to the Telis' road in front of Sanvaliya Seth Kripa Bhawan. From here heading East including Devlamata mandir and from here crossing the road, excluding Kamlabai Devilal Jiaswal's house and Neelgar Masjid up to the corner of Neelgar Masjid. From here including the shop of holi electronics and heading west including Goyal kirana, moving towards Tripoliya gate and crossing the Tripoliya gate to Hatmi manzil.

(Ramgarh, Chaudawas, Brahman Gali, Teliroad, Chamariya Naka, Teja Nagar, Block No. 1 And 2, Shubham Residency, Chaudawas, Balaji Nagar, Karamdi Road, Gulabshah, Ali Ki Dargah, Triveni Shamshan Road, Tripoliya Gate, Triveni Muktidham, etc are included in this ward.)

Ward no. 24 – Sayar Chabutra Ward (Population - 6247)

North	Heading North from Telis' road taking in the eastern part of Brahman gali, along the drain (nullah) near Ram mohalla's narrow street (patli gali) up to the bridge (puliya) on the telis road.Heading East from here, keeping jyoti Nagar, kunjdo ka was, ojha khali, maali kuan, phool mandi, shantiNagar, jooni kalal seri out up to Ratneshwar road chauraha
East	Heading south from Ratneshwar road chauraha excluding street (gali) nos 1,2,3,4,5 of Ratneshwar road and Sethiya marriage garden, and including Ratneshwar Hanuman mandir up to Nagar seema crossing the drain
South	from the South eastern corner of Nagar seema and along the Nagar seema up to South eastern corner of the Nagar seema.
West	Heading North from the Nagar seema including khaad adda up to chamariya naka chauraha.Heading west from here up to the corner of Brahman street (gali)

(ram mohalla,ashok Nagar, sarswati Nagar, Brahman gali ka poorvi bhag, lakshmi Nagar, molana azad Nagar, patidar dharmshala, shubh vihar Nagar, green city, aadinath city, amaltas Colony, rudraksh Colony, ratneshwar road ka pashchimi bhag, petrol pump, surana ki Colony, kanchan marriage garden, titri darwaza pashchimi disha etc are included in this ward)

Ward no. 25 – Mali Kuan Ward (Population - 6213)

- North from Ram mohalla tiraha taking Aradhna bhawan in the border to sayar chabutra chaurah, from gujrati mandir, covering the southern line of the market of Sethji, crossing kasari gate tiraha and including the eastern line of the ghati of Ramdevji up to Bichlawas tiraha
- East Heading South from the bichlawas chauraha including gordhannath mandir, moving towards South up to Ratneshwar chaurah on the Harmala road,
- South Heading west from the ratneshwar chaurah including mali kuan, phool mandi, shantiNagar, and excluding ashok Nagar molana azad Nagar and laxmi Nagar to the bridge (puliya) at chamariya naka chauraha
- West from the chamariya naka bridge (puliya), heading North along the drain (nullah) including jyoti Nagar, kunjdo ka was, ojkhakali up to shri chatar's house on ram mohalla road, heading North from here to the ojkhakali road tiraha
- (maali kuan, shantiNagar, kasari darwaza, bichlawas ka kuchh bhag, juni kal;al seri marg ka pashchimi bhag, kasari darwaza, shantiNagar, kunjdo ka was, jyotiNagar, ojkhakali, porwado ka was ka dakshini bhag etc are included in this ward.

Ward no. 26 – Thawariya Bazaar Ward (Population - 5652)

- North including the southern line of the bhandar street (gali),excluding wahid sherani's house, taking hakimbada in the seema up to the hakimbada tiraha .
- East from the hakimbada tirah to the qazipura drain (nala) and from here along the drain excluding bhoi mohalla to the onkala road in front of the school, keeping in the onkala road school, taking the southern line of onkala road in the seema up to the bajranNagar drain (nala)
- South Along the bajrang Nagar nullahto the corner of South western seema of Nagar seema.
- West from the South western corner of the Nagar seema heading North form the opposite of the Ratneshwar Hanuman mandir,excluding kanchan bagh, taking road no. 1,2,3,4,5 and Sethiya Marriage Garden, Naukaar Residency in the seema up to the ratneshwar tiraha. and from here taking the line in front of Bichlawas, Shri Babulal Joshi's house up to shri Mal's house . Heading right from here taking Bekhundnath mandir in up to the mouth of thawariya bazaar bhandari street

(Bhandari Gali One Line, Dhabai Ji Ka Was, Lambi Gali, Mehtaji Ka Was, Hakimbada, Junikala Seri, Navkaar Residency, Daani Pura, Sethiya Marriage Garden, Onkala Road, Basant Colony, Patel Colony Royal Residency etc are included in this ward)

Ward no. 27 – Haakimwada Ward (Population - 6223)

- North Taking Qazipura in the seema from the haakimbaada tiraha, and keeping sheranipura community hall out, heading west up to Sayyed electronics,heading South from here excluding A,M, Qureshi, Abdul Rashid's house no 35 and taking the houses of TIT in the seema up to the Ruby floor mill culvert (puliya), from here excluding Shehnaz Aapa's house and taking Mataji mandir and Hanuman mandir in the seema and taking the Masjid in the seema along the drain (nullah) and keeping Anil Bhati's jhopri out up to the kachcha road drain.(nala). Heading North from here to the millat Nagar tiraha talayya.Heading west from here taking

- officer Colony, Collector and S.P. bungalows., in the seema and keeping D.R.P. Line Hanuman mandir out of the seema up to Mhow road tiraha over bridge .
- East Heading South from the mhow road tiraha, along the mhow road to saalakhedi dak bungalow Nagar seema
- South from the saalakhedi dak bungalow Nagar seema heading west along the nullah to the South western corner of DilipNagar.
- West Heading North from the South western corner of dilipNagar along the border of DilipNagar to the drain, and along this drain up to the school near the DilipNagar onkala road, from here along the Qazipura Nullah up to the road near the Qazipura culvert (puliya) taking bhoi mohalla in the seema

(Bhoipura, Qazipura, Lalji Ka Bagh, Officer Colony, Mhow Road, Bajrangnagar, Dilipnagar, Arjunnagar, Rajivnagar, (Jhuggi Jhopri) Onkala Road, Surajmal Jain Nagar, Samta Nagar, Sudama Parisar, Arihant Colony, Krishi Upaj Mandi, Shagun Colony, part of Vikram Nagar, Mewatipura, TIT houses, Shri Colony etc are included in this ward)

Ward no. 28 – Anand Colony ward (Population - 6119)

- North Heading East from the shop of Takhatmal Pohawala on Geeta mandir road including mayor favvara to the petrol pump.
- East from petrol pump keeping IPKA guest out and taking in straw board Vikram Nagar up to the Officer Colony tiraha.
- South Taking D.R.P. Line from the officer Colony tiraha, excluding collector and SP bungalows to Jamaatkhana talayya.
- West heading North from the talayya including anand Colony to the Hajeerapul. From here along the nullah keeping mitra nivas Colony and dargah out, including gulmohar Colony, heading North from here excluding Jhalani Colony up to the shop of Takhatmal pohawala.

(Gulmohar Colony, Anand Colony, Samtanagar, part of Geetamandir Road, D.R.P. Line, Vikram Nagar, New Collectorate etc are included in this ward)

Ward no. 29 - Bhaktan Ki Bawdi Ward (Population - 6019)

- North keeping Rameshwar temple out in front of railway boundary wall, heading East from the narrow street including Ramu's chawl, keeping Vinod Suthar, Leela Bai Ramchandra dhobi's houses in the seema and keeping out the houses behind Dargah, Yashoda Bai, ganesh printers, floor mill, rehmat manzil up to Nagar seema crossing the culvert (puliya) of the diversion road
- East Heading South along the Nagar seema from the west of the Southeastern corner, up to the way near Hapukhedi. From here along the Nagar seema to South eastern corner of Nagar seema
- South From South eastern corner of the Nagar seema along the Nagar seema to the opposite of the saala khedi old rest house on mhow road

West moving towards North including the eastern part from the opposite of the salakhedi old rest house, including hotel palash, mechanic Nagar, sanjay Nagar, bus stand, and anjuman masjid, going across the railway under bridge along the boundary of railway loco shed to the opposite of the Rameshwar mandir street.

(Mahaveer Nagar, houses at the back of Rameshwar Mandir, Bohre Ki Chawl, Bapunagar, Rehmat Nagar Ka Kuchh Bhag, Mohw Road, Bhaktan Ki Bawdi, Sanjay Nagar, Rajasv Colony, Homeguard Colony, Pratapnagar, Pratapnagar Extension, Sundarlal Ki Chawl, Maansarover, Midtown, Mangal City, Samyak Residency, Pushp Parisar etc are included in this ward.)

Ward no. 30 – Babu Jagjeewanram Ward (Population - 6253)

North from railway line North western Nagar seema, along the seema to Dr Prakash dispensary, from here along the nullah taking dosigaon in the seema to borwana Nagar seema.

East from borwana Nagar seema along the eastern line of Nagar seema heading South to the southeastern corner.

South Heading west from South eastern corner to the diversion road culvert (puliya), taking the houses situated behind rehmat manzil in the seema to the rehmat manzil corner, from here taking rehmat manzil, floor mill, Ganesh screen printers, yashoda's house and Dargah in the seema, heading west taking rameshwar mandir in the seema via narrow street excluding ramprasad bairagi's house to the railway line crossing the road and the railway boundary wall from here.

West Heading North from the railway line taking shivshankar Colony and prakash Nagar in the seema along the railway line up to the Nagar seema.

(Dosi Gaon, Gaurav Dham, Azad Nagar, Purana R.T.O. Office, 132 KV M.P.E.B. Colony, Ambedkar Nagar, Christian Qabristan, Ghatla Colony, Qazi Khan Ki Masjid area, Rehmat Nagar, Rajiv Nagar, Shivshankar Colony (Jhuggi Jhopri) Prakash Nagar Basti, Lenord City, Rajunagar Diesel Shed etc are included in this ward.)

Ward no. 31 Pt. Motilal Nehru Ward (Population - 4617)

North Including journalist Colony, from its northern corner along the railway line via the dot bridge to the small goods warehouse

East including the manohar hotel line, from metre gauge (chhoti line) goods warehouse gate to Saya restaurant at Jaora Fatak. From the Fatak crossing the road including dilbahar chauraha, makdawan kothi, Maharashtra line, traffic choki to the Joshani oil mill shop after crossing. heading South from the police station crossing the road to Rupayan store, From here heading west excluding Chaudhri Charan Singh's house and the Dargah situated towards South to Anil Bhatnagar's house at Rotary Hall

South heading west from Anil Bhatnagar's house to Maalpaani's shop, Crossing the road from here keeping shri Ram mandir out and taking in the Brahman Board's line, heading west including the Shastri Nagar garden to Lalit Gandhi's house. Heading ahead from here including Rupayan bhawan's line to multistorey building at the corner.

West Heading North from the multistory building to liquor shop on the power house road. From here heading west on the power house road taking the Reliance petrol pump in the boundary, moving towards North including Lion's hall, journalist Colony in the border (seema) and keeping Rajasv Colony out to the railway line.

(Part Of Shastri Nagar, Police Colony, Do Batti Thana, Freeganj, Station Road Ka Pashchimi Bhag, Manohar Gali, Power House Road, Circuit House, DRM Office, Patraakaar Colony Kothari Market, Railway Station etc are included in this ward)

Ward no. 32 – Lal Bahadur Shastri Ward (Population - 4968)

North Along the railway line from the Sailana over bridge to the North eastern corner of the patraakaar Colony

East from the North eastern corner of the patraakaar Colony keeping patraakaar Colony, Lion's hall, and Reliance petrol pump out and including Rajasv Colony to the power house road. From here heading East on the power house road to the corner of liquor shop. Keeping the liquor shop out going towards the nullah from Agrawal steel after crossing the road to the multistorey. crossing the road from here to the Sindhi discourse (pravachan) hall. Keeping the shastri Nagar garden out from here, and from Badri lal's house to the Manish pan bhandar shop at Shri Ram maindir market.

South From Manish pan bhandar going ahead on New road including Gurudwara and Rajiv Gandhi Civic centre and taking the Lokendra talkies line in to the waghela building.

West Including the Gayatri talkies line from the waghela building, going ahead and crossing the road from hotel Amber to the Sailana bridge railway line

(Rajbai Bavdi Ki Jeen, Power House Road, Rajasv Colony, Rajput Boarding, New Road, Shastri Nagar, Rajiv Gandhi Civic Centre, Nazar Ali Ki Chawl, etc are included in this ward)

Ward no. 33 – Lokendra Bhawan Ward (Population - 4561)

North Heading East from Ambedkar Statue, including Nehru stadium, taking Top & town icecream shop at Ghoda chauraha to Dilbahar chouraha .

East Heading South from Dilbahar chouraha excluding Anjuman Masjid to Mayur Favwara . from here heading west including petrol pump to the Piyao, towards South from here including Katariya's house and Jhalani Colony and excluding Gulmohar Colony to the eastern corner of Gulmohar boundary wall.

South Along the eastern corner of Gulmohar Colony boundary wall excluding Dargah to the boundarwall of St Joseph Convent school. Heading North from here including Dr Nirmal Jain's house to Veer Savarkar marg chauraha . from the chauraha moving towards west including Income tax department and the court complex to the district Panchayat Square (chauraha.)

West Including District panchayat square and Chhatripul Ambedkar statue circle from the court complex to the Tiraha.

(Mahatma Gandhi Marg, Tashkand marg Lokendra bhawan, Bank Colony, Veer savakar marg, and mohu road ka bhag, Jhalani Colony ka bhag, zila nyayalay parisar, Income tax office, State bank office, Nehru stadium, Stadium market, Bhoot bungalow, TIT road area etc are included in this ward)

Ward no. 34 –Jawahar ward (Population - 4610)

- North** Heading East from city plaza including Shri J.K. Jaiswal's house to the corner of Rotary Hall . Crossing the from here including the Dargah to Chaudhri Charan Singh's house. Moving towards East from here taking Dr.Pachori's house to the opposite of Rupayan store.
- East** Heading South from the opposite of Rupayan store and including Balaji mandir from the Chhatripul and excluding the municipal corporation and including Science college, Government hospital to Gopal pan shop at Naharpura Tiraha .Moving towards South from here to the house of Harkawat at Naharpura chauraha.
- South** Heading west from Harkawat's house to the Raniji temple and Badrilal Agrawal's house .
- West** from Badrilal Agrawal's house on Subhash marg including Shehar saray seva mandal bhawan to Jawahar Cafe .From here taking Ktariya bhawan line along the border of Jail excluding Gurudwara to City plaza.

(New Road,Ajanta Talkies Road, Dr. Rajendra Prasad Marg, Dhanmandi, Naharpura, Subhash Marg, Shiv Compound, Zila Jail, Arts And Science College, Rotary Hall, Balaji Mandir etc are included in this ward)

Ward no . 35 – Dr. Rajendra Prasad ward (Population - 4694)

- North** From Chhatripul Tiraha via machchhi darwaza to the municipal corporation on Veer Savarkar Marg . Including Convent school from here to Dargah galli.
- East** Excluding Dr. Nirmal Jain's house situated in Dargah galli and including Khuda Sayyad Dargah complex and excluding Gulmohar Colony and including Mitra nivas Colony to Hajeerapul. Crossing the road from here including Kalika Mata Bagicha Mandir, Maha laxmi Nagar, Abhibhashk Nagar along the Nullahto Kuroop bridge.
- South** Crossing the Purohitji vas Chaurah from the Kuroop bridge excluding Shani mandir and including Safdar Master's house through Chaddarwali puliya to the Hathi khan marg Chauraha.
- West** Heading North from Hathikhana marg and Chaddarwali puliya including Panjrapol and kanji house and taking the Hathikhana school in and taking municipal's development branch office after crossing the road and excluding Mehndi kui Blaji mandir to Chhatripul Tiraha.

(Mitra nivas Colony, Convent school, Mhalaxmi Nagar, Vakil Colony, Purohit ji ka vas, Chingipura ka bhag, Rambagh, Purana colectorate, Dr Devisingh Colony, Kalikamata parisar, Lok nirman vibhag karyalay, RDA karyalay etc are included in this ward)

Ward no. 36 – Dr. Zakir Husain ward (Population - 6240)

- North** Along the Nullah from the Sheranipura Kuroop Bridge to the Hajeera puliya
- East** From Hajeera puliya via Khatipura road excluding Talayya and including Sheranipura Jamatkhana to the tiraha on Millat Nagar road. Crossing the from here excluding Sheranipura qabristan along the kachchi sadak to the Nullah at the onkala road community Hall.
- South** Heading west from Onkala road community hall including Mata mandir, and Hanuman mandir to Shehnaz Aapa's house
- West** Taking Shehnaz Aapa's house in the border (seema) and excluding Ruby floor mill, heading North including Abdul Rashid and A.M. Qureshi's house and excluding the houses of TIT and Javed Enterprises to Sheranipura main road. Heading west from here excluding Qazipura and including Nadeem floor mill to Sheranipura community hall. From here excluding Sheranipura community hall and Heading North including Qasai mandi (butcher market) to the Kuroop bridge.

(Sheranipura, khatipura, Khedapati Hanuman mandir, Jamat khana, Millat Nagar, Jaybharat Nagar, Patel Colony etc are included in this ward.)

Ward no. 37 – Molana Azad ward (Population - 4924)

- North** From Surajpor Mochipura square (chauraha) taking southern line to Mochipura Chouraha . Heading North from here to the Hathikhana Tiraha . heading East from here through Chaddarwali puliya excluding Safdar master's house and including Shani mandir and crossing Purohitji ka vas Chouraha to the Kuroop bridge.
- East** Heading South from the Kuroop bridge including Community bhawan and excluding Harijan basti to the qazipura marg sangam
- South** Going through Qazipura Puliya from the Qazipura marg sangam to Hakambada Chouraha. From here heading inside including the northern line of Bhandari gali to Thawairya bazaar .
- West** From Thawariya bazaar to the Charbhujia mandir before Surajpore

(Some Part Of Kakambada, Some Parts Of Bhandari Gali, Some Parts Of Qasaai Mandi, Some Parts Of Mochipura, Some Parts Of Somnath Mandir, Pujari Gali, Shani Mandir, Chadar Wali puliya, charbhujia mandir area etc are included in this ward)

Ward no . 38 – Nagar nigam ward (Population - 4613)

- North** Including Glamour tailor, Shri Satish's house, and satkar lodge the municipal corporation office from the Krishna medical store to Dr Nishikant's house.

- East From Dr Nishikant's HOUSE via Hathikhana to Mochipura Chouraha .
- South Including old NCC office From Mochipura Chouraha to the ganesh mandir at Suraj pore . Including vakil BhatNagar's house from here to MPEB post(Couki.) Crossing MPEB Couki taking the line of Smt. Mangla Ojha's house from the house of Dr. Deep Vyas and including the line in front of Kiran talkies to Naharpura Chouraha.
- West From Naharpura Choura to Krishna medical store.

(Nazarbagh bank Colony, Baiji ka vas, Hathikhana ka kuchh bhag, Mochipura ka bhag, Shrimaliwas ka kuchh bhag, Biharilal marg ka kuchh bhag, Naharpura gali no 01, Chhoti sitlamata gali, part of College road , Nagar nigam karyalay etc are included in this ward)

Ward no . 39 – Rajmahal Ward (Population - 4641)

- North Including southern line of Shrimalivas from the Naharpura Chouraha to Navin Govt. primary school moving straight from the court building. Heading South from Navin Govt primary school including Ganesh mandir, then crossing the road including Baggikhana moving towards East to the corner in front of A.P. Bhatnagar Sahab's house
- East Heading South from the corner in front of Vakil BhatNagar's house including Surajpore school to the southern Buranj of the palace(Thawariya bazaar chouraha)
- South Including Thawariya Tanki and souther Buranj from the eastern buranj of the palace to the Jaani bai Dharmshala.From here including the line in front of Maharani Laxmibai School to the Kheradivas marg Sangam.
- West Heading North from the Kheradivas sangam to the Daulatganj chouraha. Moving towards west from here to Bombay photo studio. Heading North from here to the opposite of Jamna pehalwan's shop. Heading East from here and crossing the road in front of Abdul Shakur Band including Pushp market going towards North to Naharpura Chouraha

(Juni court parisar, Shrimalivas, Palace road, Jain Colony, Baggikhana, Kotharivas, Nagarvas, Khidki darwaza etc are included in this ward.)

Ward no. 40 –Maharani Laxmi Bai Ward (Population - 4604)

- North Heading East from the opposite of the Ganesh devri water hut (piyao) on Rangrez road to the sweet shop of Jamnalal pehelwan. From here heading South including Parivar store and excluding Hamdard medical and including Gelda Sev Bhandar crossing the road and moving towards East to Kanakmal's house.
- East Heading South from Kanakmal jain's house to Seetlamata mandir. From here towards excluding the line of Pinjarwadi masjid and heading South crossing the road including the line of Nikhar market on Ghaas bazaar to the opposite of Manohar's hotel at Sayar saya Chabutra.

South Excluding the mosque of Rangrez and Aradhna bhawan from Mohan lal's hotel at Sayar Chabutra Chourah to the opposite of Shri Prem Upadhyay's house.

West Heading North from the opposite of Shri Prem Upadhyay's house excluding Motibabji mandir and including the line of Kalumama kachori wala's shop and the line of Samta bhawan on Nolaipura road crossing the Chohmukhipul Chouraha to the opposite of Ganesh devari water hut (piyao).

(Kanya Shala road, Badi sheetla mataji galli, Porwado ka vas, Bharawa gali, Chhoti bohra bakhal, Ghaas bazaar, Manak Chouk, Rangrez road, part of Nolaipura, part of Chohmukhipul etc are included in this ward)

Ward no. 41 – Ghafoor Ward (Population - 4777)

North Heading East from Dwivedi's house on Kanya shala road excluding Thawariya Tanki and including Dargah to Babulal panwala at Thawariya bazaar Chouraha.

East Heading South from the shop of Babulal panwala including Jagdish mandir to the corner of Bichalvas Tiraha . Heading west from here to Munna chakkiwala's house . heading South from the opposite of Munna Chakkiwala's house including Ramdev mandir and Shrenik Kothari's house to Kasari darwaza Chourah .

South Heading west from Kasari darwaza Tiraha including northern line of Sethji ka bazaar and Kali haweli to the house situated in front of Manohar Seth's shop at Sayar Chabutra Chouraha

West Including the eastern line of Qalaigar road from the opposite of Manohar Seth's shop and moving ahead from the Ghas bazaar Tiraha to Pinjarwadi road Tiraha.Heading East from here including the strip (patti) of the southern side and Agarji's mandir and excluding Seetla mata mandir heading North to Dwiwedi's house.

(Thawariya bazaar ka kuchh bhag, Ramdev ghati ka kuchh bhag, some parts of Sethji ka bazaar, Pinjaarwadi, Naiyon ki galli, Hatiram darwaza, Imliwadi gali, Bhoyra bawdi, Sindhi galli etc are included in this ward.)

Ward no. 42 – Rani Durgawati ward (Population - 4733)

North From Azad chouk Hanuman mandir and Subhash mawawala's shop to Mishrilal Lunawat's house. Crossing the road from from here excluding Dargah and Charbhuj mandir to Chikanghar cloth shop at Nolaipura Chourah heading east.

East From Siddharth Jewelers to Samrathmal Gelda's house . Including Dharmkanta from Nolaipura Chikanghar shop and crossing Samrath Pehalwan's shop at Chohmukhipul from jain restaurant to Motibabji mandir. Crossing the road from here and including Shri Premji Upadhyay' house and western line of Ram mohalla to Ram mandir .

South Including Nanduji Dalal's shop and the northern line of Ramgarh to Shanti lal Gandhi's house.

West Heading North from Shantilal Gandhi's house and including Shri Kanhaiyalal Morya's house from the Tiraha, moving towards west including the line of Purohit Dharmshala crossing the road and heading North from Hatimi manzil to the corner of Hanuman mandir.

(some part of Dhanji bhai ka Nora, some part of Chandni chowk, some part of Nolaipura, some part of Choumukhipul, Taalwalo ki gali, Kasara bazaar, Ram mohalla, Sunar bawdi, Hanuman rundi, some part of Bhagatpuri etc are included in this ward.)

Ward no. 43 – Dr. Sayyadna Sa. Ward (Population - 5067)

North Including southern line of Prajapat Dharmshala, heading North including house no. A, including the southern line of the southern street(gali) behind Jaato ka vas and excluding Shri Kanhaiya Lal Choudhary's house and from here including the houses of western direction along the Nullah to Lakkadpeetha puliya

East Heading South of the Nullah to Lakkadpeetha puliya. Heading East from here and crossing the road to the shop of Mota ghee wala. From here including western line of Tripoliya gate, the line of Bohra bakhal, the line of Bank of Badoda and crossing Tripoliya gate to the corner of Tripoliya chourah at Amrit sagar

South Including the line of Kota wala bagh from Tripoliya gate Tiraha to Nullahpuliya

West Including Annkshetra line, and mandir of Silawats along the Nullah to Vijayvargi's house at Lakkadpitha Tiraha. Including Dhammani bhawan situated on Lakkadpitha road to Bajna bus stand Chourah. Heading North from here including Prajapat Dharmshala to northern border(seema)

(Bohra Bakhal, Khan Bawdi, Parts Of Lakkadpitha, Eedgah area etc are included in this ward)

Ward no. 44 – Chandni Chowk Ward (Population - 5006)

North Including Gowshala garden line, Saathghar Nohra line and excluding Gopal Gowshala to Topkhana Chouraha. From here crossing the road central bank line at bajaj khana to Ganesh devri chourah.

East Heading South from Ganeshdevri Chouraha to Kareni Doodh wala's shop. Heading west from here including the northern line of Dhanji bhai Nohra and Dharmshala of Kalals and from here heading South in the gali including Dargah and Charbhujia mandir to the main road at Chandni chowk.

South Heading west from the Chandni chowk main road (in front of Dharm kanta) and including shops of chandni chowk, wood craft furniture and the line of Easy Show room to the Nala

West Heading west along the Nullah including Shri kanhaiya lal Choudhri's house and Panchal's house and crossing the road from here and entering the street (gali) including the line before Prajapat Dharmshala and from here heading North to the Gowshala garden.

(Jato ka vas, Gowshala road, Sutaro ka vas, Bajaj khana, part of Dhanji bhai ka Nohra, part of Chandni chowk, part of Nalai pura, Kumhari kuan, Lakkadpitha road, etc. are included in this ward.)

Ward no. 45 – Shivaji Ward (Population -5047)

North	From Lalit gas Godown at Haat road Chouraha including the Masjid line to Tulsi Sadan in front of the Police chowki . Heading South from Tulsi sadan excluding Naz building and Sant kabir School to Paliwal garden. From here including Hari Ram Kumhar's house, and crossing the road heading East including Ramchandra Neka's house, the southern line of Kumharo ka was, southern line of Bhato ka was crossing the road to Babulal Maheshwari's house at Hardevlala Pipli Chouraha
East	From Hardevlala Pipli Chouraha to Bansh singh's house at Topkhana chouraha.
South	From Banshi singh's house at Topkhana including northern line of Gowshala and Gopal Mandir to Gowshala buranj
West	From the Gowshala buranj to Lalit Gas godown on Haat road.

(Gowshala road, Ved vyas Colony ka bhag, marathon ka vas, kumharo ka vas, topkhana road, madina masjid, rajendra Nagar, gowshala bhawan, bhato ka vas bhawan, etc. are included in this ward.)

Ward no. 46 – Sant Kabir Ward (Population - 5912)

North	From Mohan Lal Khatik's house on haat road to Badi-ul-Islam Madarsa
East	Including the western line of Nayapura road from the Badi-ul-Islam Madarsa to the Nullah. From the Nullah along the road to the Mominpura crossing.
South	Heading west from the Mominpura crossing to Bheru lal Salvi's house in front of Hariram kuhar's house.
West	From Bheru lal Salvi's house excluding the Paliwal garden and including Sant Kabir and Naz building to Mohan Lal khatik's house on haat road.

(Haat Road, Bargundo Ka Vas, Harijan Basti, Nayapura Ka Bhag, Faqiro Ka Vas etc are included in this ward.)

Ward no. 47 – Mominpura Ward (Population - 4700)

North	Starting from the empty plot of Dr. Subedar and moving towards East excluding Dr. Riyaz Gaffar khan Mansoori's house to the road. Heading South from here excluding the houses of Dilip Bhandari, and heading East from here including Ankur hospital and from here moving towards North including Dinesh Saroj Choudhri's house and from here heading East including the houses of M.D. Choudhary and Pravin Jhalani and going towards East including house no. 75 and
-------	---

heading South from here including Suniket apartment and Apurwa apartment and excluding Dargah to Deendayal Choudhri's house.

- East Excluding Deendayal Choudhri's house, Kaluram Vicha's house, and including Vaibhav villa to Abkari Chouraha. Heading South from here including western line of Lohar road to Hardev Lala pipli.
- South Including northern houses line of Bhato ka vas from Hardevlala Chouraha to Karim Chaudhri's house crossing the Mominpura road.
- West Including eastern line of nayapura from Karim Chaudhri's house before haat road puliya Islam Madarsa, including Qasai Mandi Masjid line, heading west crossing the haat road including Purshottam Bagh, 168 Cement godown and heading North excluding Mumtaz Husain's house to the empty plots of Dr. Subedar.

(Houses Of Ved Vyas Colony, Momin Pura, Part Of Bhato Ke Vas, Lohar Road, Qasai Mandi, Nayapura Bhag, Maamdli Chourah, Haat Road etc are included in this ward.)

Ward no. 48 – Maharishi Vedvyas Ward (Population - 5538)

- North From the northern corner of Shri Krishna talkies excluding Katju Nagar along the boundary of Mission compound including Church to the backside of vyas bakery
- East Including Mission compound from the backside of Vyas bakery and excluding Sailana bus stand and including Shehar Saray masjid and Nityanand market heading South, to Hasan Bhai's house at Shaheed chowk
- Soth Excluding Shaheed chowk favwara from Hasan bhai's house and including Hasan bhai's house heading west to Aabkari chouraha. From here including Kaluram Vicha's house and excluding Vaibhav villa heading North to the opposite of Deendayal Choudhri's house. From here including Deendayal Chaudhri's house and excluding Urvashi and Suniket apartment and heading North including Dargah to the opposite of house no 75. Heading west from here including Dr M.D. Borasi and excluding Dinesh Saroj Choudhri's house to Ankur hospital. Heading west from here excluding Ankur hospital and including Dilip Bhandari and Dr. Riyaz Gaffar Khan Mansoori's house to the corner of empty plots of Ashirwad Nursing home. Heading South from here including Jay medical, and Mumtaz Husain's house and excluding purshottam bagh 168 to haat road. Heading west from here excluding Vinoba School and Madina Masjid on haat road and including Police chowki to Madina Masjid Trijunction.
- West Heading North from the Madina Masjid Trijunction including Paliwal dal mill and Shrikrishna talkies to the northern corner of Shrikrishna talkies.

(Shri Krishna Talkies area, Nirmal Bhawan, Vedvyas Colony, Mission Compound Church, Nityanand Market, Gachhiyo Ka vas, Suraj Hall, Khatik Mohalla, Haat Road, etc. are included in this ward.)

Ward no. 49 – Maharishi Dayanand Ward (Population - 4636)

North	From Shri Rewashankar's house at Abkaari chouraha including Brahman's vas, Shaheed chowk Favwara and heading South including Raniji temple to Ralam electricals corner at Naharpura chauraha heading East .
East	From the corner of Ratlam Electricals including Mittal traders to Dalumodi bazaar chouraha.
South	From Dalumodi bazaar chauraha including King Watch Company shop and Rajasthan Saree Centre to Ganesh Devri chouraha. From here crossing the and including Cloth Market Merchant Association to Topkhana chouraha
West	Heading North from Topkhana chouraha including Rewashankar's shop to Abkari chouraha.

(Brahman Vas, Raniji Mandir, Devising Galli, Rangrez Road, Kashinath Nohra, Lohar Road, Nem Chowk, Part Of Bajaj Khana, etc. are included in this ward)

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

AJEET KUMAR, Commissioner.